

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014—आषाढ़ 6, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह  
मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 4 जून 2014

क्र. 230-ब.लि.-1-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-2004, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं कलेक्टर, जिला दमोह, नगरपालिका परिषद् दमोह, जिला दमोह में वार्डों के परिसीमन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ:—

#### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	सिविल वार्ड क्र. 1
2	सिविल वार्ड नं. 2 रानी दुर्गावती वार्ड
3	सिविल वार्ड नं. 3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
4	सिविल वार्ड नं. 4 संजय वार्ड
5	सिविल वार्ड नं. 5 मिशन वार्ड
6	सिविल वार्ड नं. 6 छत्रसाल वार्ड
7	सिविल वार्ड नं. 7 रानी अवंती बाई वार्ड
8	सिविल वार्ड नं. 8 कृष्णा वार्ड
9	सिविल वार्ड नं. 9 तुलसीदास वार्ड
10	सिविल वार्ड नं. 10 गुरुनानक वार्ड
11	जवाहर वार्ड
12	महाराणा प्रताप वार्ड

(1)	(2)
13	सरदार पटेल वार्ड
14	सरदार भगत सिंह वार्ड
15	शहीद प्रेमचंद वार्ड
16	जगजीवन राम वार्ड
17	महात्मा गांधी वार्ड
18	लाला लाजपत राय वार्ड
19	वाल्मिकी वार्ड
20	अम्बेडकर वार्ड
21	भरत वार्ड
22	महावीर वार्ड
23	गोविन्द वल्लभपंत वार्ड
24	शिवाजी वार्ड
25	असाठी वार्ड
26	गुरुगोविन्द सिंह वार्ड
27	तिलक वार्ड
28	गौरीशंकर वार्ड
29	नरसिंह वार्ड
30	जयप्रकाश नारायण वार्ड
31	संत विनोबा वार्ड
32	सुभाष वार्ड
33	किदवाई वार्ड
34	आजाद वार्ड
35	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
36	रानी दमयंती वार्ड
37	साकेत वार्ड
38	कस्तूरबा वार्ड
39	पृथ्वीराज वार्ड

**सिविल वार्ड क्रमांक 01**

**उत्तर**—सीताराम राय की चक्की से प्रारंभ होकर कब्रिस्तान तहसीलदार बाबा की मझार होते हुए नगरपालिका दुकानें होते हुए पुराना तालाब के पास स्टील टैंक तक.

**पूर्व**—सीताराम राय की चक्की से व चमड़ा फैक्टरी के सामने से मुख्य सड़क होते हुए कलेक्टर बंगला के पीछे स्थित तालाब तक.

**दक्षिण**—महाराणा प्रताप शाला के पीछे पहाड़ी के किनारे-किनारे फिल्टर प्लांट के पास अनिता सेन के मकान तक.

**पश्चिम**—स्टील टैंक नवगजा पहाड़ी के किनारे-किनारे महाराणा प्रताप स्कूल तक.

**सिविल वार्ड नं. 02—रानी दुर्गावती वार्ड**

**उत्तर**—सुभाष शाला के समीप स्थित जाफरी के मकान से पुराना थाना स्थित डां. मोटवानी के मकान तक व वहां से जगदीश टाकिज तक.

**पूर्व**—स्टील टैंक से नवगजा पहाड़ी, कलेक्टर बंगला के पीछे स्थित तलैया से होते हुए जटाशंकर, सर्किट हाउस, पहाड़ी के किनारे जबलपुर नाका पर नगरपालिका सीमा तक.

**दक्षिण**—नगरपालिका सीमा से लगे हुए नाले के किनारे-किनारे से जटाशंकर तक.

**पश्चिम**—जगदीश टाकिज से शिवाजी शाला कोतवाली से जबलपुर रोड होते हुए जबलपुर नाके पर स्थित न.पा. सीमा तक.

**सिविल वार्ड नं. 03—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

**उत्तर**—रानी दुर्गावती कन्या शाला से प्रारंभ घंटाघर होते हुए सागर मार्ग पर स्टेशन चौराहे तक.

**पूर्व**—रानी दुर्गावती कन्या शाला से प्रारंभ मार्ग शिवाजी शाला कोतवाली के सामने से जबलपुर मार्ग होते हुए बेलाताल तक.

**दक्षिण**—सरस्वती शाला से प्रारंभ होने वाला रेस्ट हाउस मार्ग होते हुए कमला नेहरू कालेज बेलाताल मार्ग के जबलपुर मार्ग में मिलने के स्थान तक.

**पश्चिम**—स्टेशन चौराहा से बस स्टैण्ड चौराहा होते हुए किल्लाई मार्ग स्थित महिलावस्तिगृह के सामने सरस्वती शाला तक.

**सिविल वार्ड नं. 04—संजय वार्ड**

**उत्तर**—पुरानी कलेक्ट्रेड के सामने डी जे बंगला से प्रारंभ रेस्टहाउस मार्ग होते हुए किल्लाई मार्ग में मिलने के स्थान तक.

**पूर्व**—सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित स्टेडियम मार्ग पर स्थित डां. चंदा जैन के सामने से बेलाताल मार्ग के संगम तक.

**दक्षिण**—डां. चंदा जैन के सामने से बेलाताल मार्ग होते हुए पुरानी कलेक्ट्रेड की ओर रेस्टहाउस जाने वाले मार्ग के संगम तक.

**पश्चिम**—रेस्टहाउस मार्ग व किल्लाई मार्ग मिलने के स्थान से आगे की तरफ किल्लाई चौराहा तक एवं किल्लाई चौराहा से प्रारंभ सागर-जबलपुर मार्ग होते हुए स्टेडियम की ओर जाने वाला मार्ग के मिलने के स्थान तक.

**सिविल वार्ड नं. 05—मिशन वार्ड**

**उत्तर**—किल्लाई चौराहा से किल्लाई मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मुकेश नायक कालोनी को जाने वाले मार्ग तक.

**पूर्व**—किल्लाई चौराहा से सागर जबलपुर मार्ग से होते हुए ट्रेक्टर कार्यालय तक.

**दक्षिण**—विवेकानंद कालोनी के पास स्थित संगम वार्ड से प्रारंभ होकर गैस एजेंसी के सामने से होते हुए सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित ट्रेक्टर स्कीम कार्यालय तक.

**पश्चिम**—किल्लाई मार्ग से मुकेश नायक कालोनी को जाने वाले मार्ग पुलिस कालोनी शांति नगर कालोनी होते हुए विवेकानंद कालोनी के पास मिलने के स्थान तक.

**सिविल वार्ड नं. 06—छत्रसाल वार्ड**

**उत्तर**—किल्लाई मार्ग पर स्थित मुकेश नायक कालोनी को जाने वाले मार्ग के संगम स्थल से किल्लाई मार्ग होते हुए नगरपालिका सीमा पर स्थित हरिजन छात्रावास तक.

**पूर्व**—किल्लाई मार्ग से मुकेश कालोनी को जाने वाले मार्ग के दायें तरफ का हिस्सा विवेकानंद कालोनी के संगम स्थल तक.

**दक्षिण**—रामप्रसाद के मकान से प्रारंभ होकर विवेकानंद कालोनी के संगम तक.

**पश्चिम**—हरिजन छात्रावास से न. पा. सीमा पर नाले के किनारे-किनारे रामप्रसाद के मकान तक.

**सिविल वार्ड नं. 07—रानी अवंती बाई वार्ड**

**उत्तर**—सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित कृषि कार्यालय से प्रारंभ होने वाला मार्ग जो गैस एजेंसी के सामने से होते हुए नगरपालिका सीमा पर स्थित रामप्रसाद के मकान तक.

**पूर्व**—सागर जबलपुर मार्ग पर बेलाताल से जबलपुर मार्ग होते हुए विद्युत् स्टेशन तक.

**दक्षिण**—नगरपालिका सीमा पर रामप्रसाद के मकान से न. पा. सीमा के नाले के किनारे-किनारे जबलपुर मार्ग पर जहां पर विद्युत् स्टेशन है तक.

**पश्चिम**—जबलपुर मार्ग पर स्थित बेलाताल मार्ग से प्रारंभ होकर डॉ. चंदा जैन के मकान से स्टेडियम मार्ग होते हुए सागर जबलपुर मार्ग तक.

**सिविल वार्ड नं. 08—कृष्णा वार्ड**

**उत्तर**—स्टेशन चौराहा से डॉ. अग्रवाल की ओर जाने वाला मार्ग तीन गुल्ली चौराहे तक.

**पूर्व**—स्टेशन चौराहा मार्ग से बस स्टैण्ड चौराहा मार्ग पर चौरसिया दुकान तक.

**दक्षिण**—किल्लाई चौराहे से महिलावस्तिगृह होते हुए बस स्टैण्ड चौराहे तक.

**पश्चिम**—तीन गुल्ली चौराहे से जबलपुर मार्ग होते हुए किल्लाई चौराहे तक.

**सिविल वार्ड नं. 09—तुलसीदास वार्ड**

**उत्तर**—डिग्री कालेज के सामने से प्रारंभ होने वाला मार्ग जो सिंधी धर्मशाला झूलेलाल मंदिर होते हुए न.पा. सीमा तक.

**पूर्व**—किल्लाई चौराहे से सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित डिग्री कालेज के सामने तक.

**दक्षिण**—न. पा. सीमा पिलर क्र. 28 से किल्लाई रोड होते हुए किल्लाई चौराहे तक.

**पश्चिम**—न. पा. सीमा के किनारे-किनारे पिलर क्र. 24 से पिलर क्र. 28 तक.

**सिविल वार्ड नं. 10—गुरुनानक वार्ड**

**उत्तर**—तीन गुल्ली चौराहा से सागर रोड न. पा. सीमा तक.

**पूर्व**—सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित डिग्री कालेज के सामने से आगे की तरफ तीन गुल्ली चौराहे तक.

**दक्षिण**—न. पा. सीमा के पिलर क्र. 24 से खजरी मोहल्ला की ओर जाने वाला कच्चा मार्ग जो झूलेलाल मंदिर सिंधी धर्मशाला के सामने से होते हुए सागर जबलपुर मार्ग के मिलने तक.

**पश्चिम**—सागर रोड सीमा के किनारे-किनारे पिलर क्र. 23 तक.

**वार्ड नं. 11—जवाहर वार्ड**

**उत्तर**—पथरिया फाटक से रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे रेल्वे स्टेशन गोदाम तक.

**पूर्व**—घंटाघर से पथरिया फाटक रोड मांगज स्कूल से प्रारंभ होकर मारुती मंदिर होते पथरिया फाटक तक.

**दक्षिण**—राय चौराहा महावीर एक्सरा से हटा लिंक मार्ग पार करते हुए मांगज स्कूल तक.

**पश्चिम**—रेल्वे स्टेशन के सामने से गल्ला मंडी गेट से गार्ड लाईन मार्ग होते हुए राय चौराहा महावीर एक्सरे तक.

**वार्ड नं. 12—महाराणा प्रताप वार्ड**

**उत्तर**—बालविनोद शाला से प्रारंभ होते हुए जो हटा लिंक मार्ग पार कर राय चौराहा महावीर एक्सरे होते हुए गार्ड लाईन मार्ग से रेल्वे स्टेशन तक.

**पूर्व**—घंटाघर चौराहे से बूदावहू मंदिर की दुकानों से प्रारंभ होकर बालविनोद शाला कार्नर तक.

**दक्षिण**—रेल्वे स्टेशन से प्रारंभ होकर स्टेशन चौराहा होते हुए संगम जनरल स्टोर से गुजरकर सत्कार लाज के आगे घंटाघर बूदावहू मंदिर दुकानों तक.

**पश्चिम**—रेल्वे स्टेशन के सामने गल्ला मंडी गेट से प्रारंभ होकर बुधवानी अस्पताल से होते हुए स्टेशन चौक तक.

**वार्ड नं. 13—सरदार पटेल वार्ड**

**उत्तर**—रेल्वे स्टेशन से रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे न.पा. सीमा तक.

**पूर्व**—स्टेशन चौक से न.पा. कार्यालय होते हुए रेल्वे स्टेशन तक.

**दक्षिण**—सागर रोड पर नर्सरी पुलिया के स्थान से तीन गुल्ली चौराहा होते हुए आगे की ओर स्टेशन चौक तक.

**पश्चिम**—रेल्वे लाईन की पुलिया मलैया जी मिल से तीन गुल्ली तक.

**वार्ड नं. 14—सरदार भगत सिंह वार्ड**

**उत्तर**—न.पा. सीमा के पिलर क्र. 15 से 18 तक.

**पूर्व**—रेल्वे लाईन जो लोको की ओर किनारे जाती है के किनारे बजरंग अखाड़ा होते हुए सेन्ट नार्वट स्कूल के सामने से पथरिया मार्ग पर न. पा. की सीमा के पिलर क्र. 15 तक.

**दक्षिण**—न. पा. सीमा पर रेल्वे पुलिया से रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे होते हुए पूर्व में जाने वाले लोको रेल्वे लाईन के मिलने के स्थान तक.

**पश्चिम**—न.पा. सीमा के पिलर क्र. 18 से सागर रोड तक.

**वार्ड नं. 15—शहीद प्रेमचंद वार्ड**

**उत्तर**—न.पा. सीमा पर स्थित पिलर क्र. 11 से पथरिया मार्ग पर स्थित पिलर क्र. 15 तक.

**पूर्व**—हटालिंक रोड पर स्थित धुवातला की ओर जाने वाले नाले के किनारे-किनारे न.पा. की सीमा पर स्थित पिलर क्र. 11 तक.

**दक्षिण**—रेल्वे लाईन कोयला सेड से प्रारंभ होकर पथरिया फाटक तक एवं हटा लिंक रोड भांकर आयल मिल होते हुए हटा की ओर धुवातालाब तरफ जाने वाले नाले तक.

**पश्चिम**—रेल्वे लाईन और वहां से पूर्व लोको लाईन के किनारे-किनारे जहां पर कोयला शेड है तक.

**वार्ड नं. 16—जगजीवन राम वार्ड**

**उत्तर**—हटालिंक रोड पर स्थित धुवातला की ओर नाले से हटा रोड पर आरामशीन तक.

**पूर्व**—कछियाना मार्ग पर देवी मढिया से रेल्वे लाईन पार करते हुए धुवा तालाब की ओर जाने वाले नाले के किनारे हटा लिंक रोड तक.

**दक्षिण**—हटा मार्ग से कछियाने की ओर जाने वाले मार्ग का सारा उत्तरी हिस्सा देवी जी की मढिया तक.

**पश्चिम**—हटा पथरिया मार्ग के तिराहे पर स्थित आरामशीन से होते हुए रेल्वे फाटक क्रॉस करते हुए कछियाना मार्ग के मिलन के स्थान तक.

**वार्ड नं. 17—महात्मा गांधी वार्ड**

**उत्तर**—डॉ. चेतन के सामने के मकान से हरदौल मार्ग होते हुए बडापुल बंदना ट्रेडर्स तक.

**पूर्व**—टण्डन बिल्डिंग के बाजू से जाने वाला मार्ग जो राधारामण मंदिर से जाते हुए डॉ. चेतन के सामने के मकान तक.

**दक्षिण**—घंटाघर चौराहे से टाकीज रोड पर टण्डन बिल्डिंग तक.

**पश्चिम**—बडापुल बंदना ट्रेडर्स की दुकान से मीनाक्षी मंदिर होते हुए उमा मिस्त्री चौराहे से घंटाघर चौराहे तक.

**वार्ड नं. 18—लाला लाजपत राय वार्ड**

**उत्तर**—दिलीप बजाज के मकान से गाड़ी खाना होते हुए फखरुद्दीन चच्चा पलंदी चौराहा जाने वाले मार्ग मिलने के स्थान तक.

**पूर्व**—घंटाघर स्थित जयसवाल मेडिकल से प्रारंभ होकर शाह जी काम्पलेक्स होते हुए दिलीप बजाज के मकान तक.

**दक्षिण**—पलंदी चौराहा मारुती मंदिर के सामने की दुकान से डॉ. केदार से होते हुए घंटाघर की ओर जयसवाल मेडिकल तक.

**पश्चिम**—फखरुद्दीन चच्चा गाड़ी खाना रोड से पलंदी चौराहा मारुती मंदिर के सामने दुकान तक.

**वार्ड नं. 19—वाल्मिकी वार्ड**

**उत्तर**—बड़े पुल पर स्थित चक्की से रमेश सोनी के मकान तक व मूलचंद मास्टर के मकान से होते हुए रल्ली रैकवार के मकान से होते हुए.

**पूर्व**—गाड़ी खाना डॉ. जैन के मकान से धगट चौराहा की ओर होते हुए बड़े पुल पर चक्की तक.

**दक्षिण**—बल्लन रैकवार के मकान से रामलाल के मकान होते हुए हरिजन धर्मशाला होते हुए रामकुटी तक पलंदी रोड होते हुए गाड़ी खाना मार्ग डॉ. जैन के मकान तक.

**पश्चिम**—रल्ली रैकवार के मकान से बल्लन रैकवार के मकान तक.

**वार्ड नं. 20—अम्बेडकर वार्ड**

**उत्तर**—कछियाना रोड पर स्वीपर क्वार्टर से पथरिया फाटक मार्ग तक.

**पूर्व**—कछियाना रोड पर स्वीपर क्वार्टर से चर्म शोधन कर्मशाला के गेट तक व गिलारी बर्मन के मकान से गंगाराम के मकान तक.

**दक्षिण**—पलंदी रोड पर मदनलाल के मकान से मारुती मंदिर चौहारा होते हुए पथरिया फाटक रोड कछियाना मार्ग के संगम तक.

**पश्चिम**—गंगाराम के मकान से जो हरिजन धर्मशाला के सामने हैं से रामकुटी के सामने मदन लाल के मकान तक.

**वार्ड नं. 21—भरत वार्ड**

**उत्तर**—नाला व रेल्वे लाईन के किनारे-किनारे शंकर जी की मढिया तक बाबूलाल के मकान तक.

**पूर्व**—बड़े पुल नाले पर स्थित विजय पांडे के मकान से नाले के किनारे-किनारे नंदराम चौधरी के मकान से रेल्वे लाईन तक.

**दक्षिण**—नाले पर स्थित विजय पांडे के मकान से बाबूलाल सोनी के मकान होते हुए रल्ली रैकवार के सामने से होते हुए चर्म शोधन कर्मशाला के गेट तक.

**पश्चिम**—रेल्वे लाईन से शंकर जी की मढिया होते हुए जो कछियाना मार्ग पर है वहां से स्वीपर गेट प्रारंभ होने वाले फर्श लखन लाल चौधरी का मकान होते हुए चर्म शोधन कर्मशाला तक.



**वार्ड नं. 22—महावीर वार्ड**

**उत्तर**—सेठ धरमचंद के मकान से गजानंद पहाड़ी के किनारे-किनारे रत्ले के मकान तक जो पुराना बाजार मार्ग पर स्थित है.

**पूर्व**—दमोह हिण्डोरिया रोड पर स्थित कंछेदी मामा की पुलिया से सेठ धरमचंद के मकान तक.

**दक्षिण**—पुराना थाना से हिण्डोरिया मार्ग पर कंछेदी मामा के मकान तक.

**पश्चिम**—पुराना बाजार मार्ग पर स्थित रत्ले के मकान से पुराना थाना तक.

**वार्ड नं. 23—गोविन्द वल्लभपंत वार्ड**

**उत्तर**—देवीसींग चौराहे से प्रारंभ होने वाली कुलिया से महाकाली चौराहे पर हरिसोनी के मकान तक.

**पूर्व**—देवीसींग चौराहे से गजानन मार्ग की ओर जाने वाली पुलिया से पहाड़ी के किनारे-किनारे पुराने चार नल तक.

**दक्षिण**—पुराना बाजार मार्ग से सिटीनल कुलिया तक.

**पश्चिम**—महाकाली चौराहे पर स्थित हरिसोनी के मकान से प्रारंभ होकर सिटी नल तक.

**वार्ड नं. 24—शिवाजी वार्ड**

**उत्तर**—शिव ज्वेलर्स के मकान से प्रारंभ होने वाली कुलिया डाय्या वाई बीड़ी कंपनी होते हुये प्यासी के मकान तक.

**पूर्व**—मोहन टाकीज के सामने से प्रारंभ होकर पुराने थाने होते हुये पुराने बाजार मार्ग पर स्थित शिव ज्वेलर्स के मकान तक.

**दक्षिण**—टंडन बिल्डिंग से प्रारंभ होकर मोहन टाकीज होते हुये पुराने थाने तक.

**पश्चिम**—प्यासी के मकान से प्रारंभ होकर राधारमण मंदिर होते हुये टंडन बिल्डिंग तक.

**वार्ड नं. 25—असाठी वार्ड**

**उत्तर**—कचेरा तिराहा से प्रारंभ होने वाला मार्ग डा. चेतन के सामने तक.

**पूर्व**—पुराना बाजार मार्ग स्थित शिव ज्वेलर्स के मकान से कचेरा तिराहा तक.

**दक्षिण**—वसुरयाना प्यासी के मकान से डाय्याभाई बीड़ी कंपनी होते हुये शिव ज्वेलर्स के मकान तक.

**पश्चिम**—डा. के चेतन के सामने मकान से वसुरयाना प्यासी के मकान तक.

**वार्ड नं. 26—गुरुगोविन्द सिंह वार्ड**

**उत्तर**—उर्दु स्कूल के पास अकबर के मकान से पठानी मस्जिद की कुलिया स्व. श्री प्रमोद मास्टर के घर के समीप फुटेरा मार्ग के मिलने के स्थान तक.

**पूर्व**—पीपल के पेड़ के पास शांती बाई के मकान से देवीसींग चौराहा होते हुये पटी कुलिया फुटेरा मार्ग मिलने के स्थान तक.

**दक्षिण**—हरि के मकान से फुटेरा मार्ग समीप स्व. प्रमोद मास्टर के मकान तक की पटी कुलिया तक.

**पश्चिम**—स्वतंत्र उर्दु शाला से नारायण की होटल तक.

**वार्ड नं. 27—तिलक वार्ड**

**उत्तर**—महाकाली चौराहे से कछियाना मार्ग से नरसिंह मंदिर तक.

**पूर्व**—कचेरा चौराहे से महाकाली चौराहा तक.

**दक्षिण**—बड़े पुल चौराहे से हरदौल तरफ डा. चेतन होते हुये कचेरा तिराहा तक.

**पश्चिम**—कछियाना मार्ग पर स्थित नाले के किनारे-किनारे नंदराम चौधरी के मकान से विजय पांडे के मकान तक.

**वार्ड नं. 28—गौरीशंकर वार्ड**

**उत्तर**—गौरी शंकर मार्ग पर स्थित पीपल पेड़ से पठानी मस्जिद चौराहा होते हुये गौरी शंकर मंदिर जहां फुटेरा मार्ग मिलता है.

**पूर्व**—पीपल के झाड़ से स्वतंत्र उर्दु शाला तक.

**दक्षिण**—कछियाना मार्ग में पप्पू की होटल से फुटेरा मार्ग होते हुये स्व. प्रमोद मास्टर की कुलिया से पठानी मस्जिद तक व वहां से पटी कुलिया पीपल के वृक्ष के पास अकबर के मकान तक.

**पश्चिम**—गौरीशंकर मंदिर के सामने से प्रारंभ होने वाली पटी कुलिया जो मंगल सिंह के मकान व धोवियों के सामने से होते हुये कछियाना मार्ग में पप्पू की होटल तक.

**वार्ड नं. 29—नरसिंह वार्ड**

**उत्तर**—न. पा. सीमा पर पिलर नं. 6 से प्रारंभ होकर हटा रोड पार करते हुये न. पा. सीमा पिलर क्रं. 11 पर धुवा तला में मिलने वाले नाले तक.

**पूर्व**—पप्पू की होटल के वाये तरफ का हिस्सा जो धोवियों के सामने से होता हुआ जो फुटेरा मार्ग पर गौरीशंकर मंदिर के सामने मिलता है वहां से फुटेरा तालाब की ओर जाने वाले मार्ग पर न. पा. सीमा के पिलर नं. 6 तक.

**दक्षिण**—नरसिंह मंदिर पुलिया जो कछियाना मार्ग में अजय नामदेव के मकान से होते हुये पप्पू की होटल तक.

**पश्चिम**—धुवातला में मिलने वाले नाले के किनारे-किनारे नरसिंह मंदिर रोड की पुलिया तक.

**वार्ड नं. 30—जयप्रकाश नारायण वार्ड**

**उत्तर**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 5 से 6 तक.

**पूर्व**—गौरी भांकर मार्ग पर स्थित पीपल के पेड के सामने से प्रेमशंकर भाला की ओर जाने वाले मार्ग पर सैनी के मकान के पीछे की कुलिया नईम भाईजान के मकान से होते हुये रेल्वे लाईन पार करते हुये पिलर नं. 5 तक.

**दक्षिण**—गौरी शंकर मंदिर से प्रारंभ होकर पीपल पेड से दयाराम की होटल तक.

**पश्चिम**—न. पा. सीमा पर स्थित पिलर नं. 6 से फुटेरा वार्ड मार्ग पर गौरीशंकर मंदिर तक.

**वार्ड नं. 31—संत विनोवा वार्ड**

**उत्तर**—मुर्सिद बाबा मजार से कसाई मंडी मार्ग होते हुये चमन होटल तक.

**पूर्व**—डा. रवि मिश्रा के मकान के सामने होते हुये मुर्सिद बाबा की मजार तक.

**दक्षिण**—भोंड बैध के मकान से जामा मस्जिद के सामने होते हुये डा. रवि मिश्रा के मकान के सामने तक.

**पश्चिम**—चमन होटल से गढी मोहल्ला होते हुये भोंडे बैध के मकान तक.

**वार्ड नं. 32—सुभाष वार्ड**

**उत्तर**—पानी की टंकी से जाने वाला मार्ग देवीसींग चौराहा तक.

**पूर्व**—हिण्डोरिया मार्ग पर स्थित चमन होटल के सामने से होकर जाने वाला पानी की टंकी तक.

**दक्षिण**—सेठ धरमचंद के मकान से जाने वाली कुलिया कंछेदी मामा के मकान तक व चमन होटल के सामने तक.

**पश्चिम**—देवीसींग चौराहा से गजानन पहाडी के किनारे-किनारे सेठ धरमचंद के मकान तक.

**वार्ड नं. 33—किदवई वार्ड**

**उत्तर**—गौरीशंकर मार्ग पर स्थित पीपल के झाड से खिरका चौराहा जो कि दमोह बांदकपुर रोड पर स्थित हैं.

**पूर्व**—खिरका चौराहे से दमोह बांदकपुर रोड होते हुये टीकाराम भार्मा के मकान के पास स्थित कुलिया तक.

**दक्षिण**—टीकाराम भार्मा के मकान के पास स्थित कुलिया जो गजानन टेकरी के पास की पानी टंकी होते हुये देवीसींग चौराहा तक.

**पश्चिम**—देवीसींग चौराहा से प्रारंभ होने वाला रास्ता जो कि गौरीशंकर मार्ग में पीपल के झाड के पास मिलने के स्थान तक.

**वार्ड नं. 34—आजाद वार्ड**

**उत्तर**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 2 से पिलर नं. 5 तक.

**पूर्व**—दमोह बांदकपुर मार्ग पर स्थित ब्रजेश अहिरवाल के मकान से जाने वाली पटीकुलिया होते हुये सरदार पटेल स्कूल के पीछे तुलसीराम चौबे के मकान तक वहां से न. पा. सीमा के पिलर नं. 2 तक.

**दक्षिण**—दयाराम की होटल से गौरीशंकर मार्ग के दमोह बांदकपुर मार्ग में मिलने के स्थान तक व वहां से दमोह बांदकपुर रोड पर स्थित ब्रजेश अहिरवाल के मकान तक.

**पश्चिम**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 5 से फुटेरा तालाब का भीटा रेल्वे लाईन पार कर नईम भाईजान के मकान से होते हुये छोटे लाल रैकवार से होते हुये गौरी भांकर मार्ग पर दयाराम की होटल तक.

**वार्ड नं. 35—डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**उत्तर**—न. पा. सीमा पर स्थित पिलर नं. 46 से चमडा फेक्ट्री के सामने से तिराहे तक.

**पूर्व**—न. पा. सीमा पर स्थित पिलर नं. 44 से प्रारंभ होकर पिलर नं. 46 तक.

**दक्षिण**—पटेल की होटल से पटिकुलिया साकेतधाम के सामने पक्के राजनगर मार्ग तक.

**पश्चिम**—चमडा फेक्ट्री के तिराहे से राजनगर जाने वाले पक्के मार्ग पर स्थित पटेल होटल तक.

**वार्ड नं. 36—रानी दमयंती वार्ड**

**उत्तर**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 46 से साकेत धाम की बगल वाली गली जो राजनगर मार्ग को पार करते हुये पटीकुलिया जो पटैल होटल तक जाती है तक.

**पूर्व**—पिलर नं. 44 से पिलर नं. 42 तक.

**दक्षिण**—मोती वार्ड के मकान से चमडा फेक्ट्री तिराहा जटाशंकर मार्ग न. पा. सीमा स्थित पिलर नं. 42 पर मिलता है तक.

**पश्चिम**—पटैल की होटल से प्रारंभ होने वाला कच्चा मार्ग जो मंगल भवन साकेत धाम कन्या भाला के सामने से गुजरता हुआ राजनगर मार्ग पर मोती वार्ड के मकान तक.

**वार्ड नं. 37—साकेत वार्ड**

**उत्तर**—न.पा. सीमा के पिलर नं. 48 से बंबई वाले नायब तहसीलदार व राधेश्याम का मकान होते हुये पटीकुलिया जो दारुल-उलूम मोड तक जो दमोह बांदकपुर मार्ग पर मिलती है तक.

**पूर्व**—न.पा. सीमा के पिलर नं. 46 से 48 तक.

**दक्षिण**—चमडा फेक्ट्री के तिराहे से राजनगर मार्ग पर मनु मिश्रा जी से होते हुये सुभाश स्कूल तक पुराना तालाब का भीटा कलारी रोड होते हुये तहसीलदार बाबा मजार होते हुये नीचे तरफ सीताराम राय की चक्की के सामने तक.

**पश्चिम**—दारुल-उलूम मोड से कसाई मंडी की ओर जाने वाला रास्ता जो चमडा फेक्ट्री तिराहे तक.

**वार्ड नं. 38—कस्तूरबा वार्ड**

**उत्तर**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 39 से लेकर थनई अहिरवाल के मकान से आगे बढ़ते हुये हरिजन धर्मशाला जो दमोह बांदकपुर रोड पर स्थित है तक.

**पूर्व**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 48 से 39 तक.

**दक्षिण**—देवी जी की मढिया से आने वाली पटिकुलिया में स्थित अनाडी के मकान से आगे बम्बई वाले नायब तहसीलदार व वहा से न. पा. सीमा तक.

**पश्चिम**—दमोह बांदकपुर मार्ग पर स्थित हरिजन धर्मशाला से दमोह बाहर की ओर आने वाले मार्ग पर स्थित देवी जी की मढिया तक जो दारुल-उलूम मोड के पास है तक.

**वार्ड नं. 39—पृथ्वीराज वार्ड**

**उत्तर**—पिलर नं. 3 से फुटैरा वार्ड का भीटा जो की रेल्वे लाईन पार करते हुये निजाम के मकान व तुलसी राम चौबे के सामने से पटीकुलिया होते हुये जो कि दमोह बांदकपुर रोड पर स्थित घनश्याम अहिरवाल के मकान तक.

**पूर्व**—न. पा. सीमा के पिलर नं. 49 से 50 तक व वहां से पिलर नं. 1 पिलर नं. 3 तक.

**दक्षिण**—दमोह बांदकपुर रोड पर स्थित घनश्याम अहिरवाल के मकान से दमोह बाहर को आते हुये हरिजन धर्मशाला के पास खेमचंद के मकान तक.

**पश्चिम**—दमोह बांदकपुर रोड पर स्थित खेमचंद के मकान पटीकुलिया होते हुये गुडडा पूरन लाल व थनई के मकान से न. पा. सीमा तक.

**स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.**

Damoh, the 4th June 2014

No. 230-S.C.-1-2014.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, (No. 37 of 1961) the State Government determine the extent of Wards of Nagar Palika Parishad Damoh Distt. Damoh as per Sechedule given Below:—

**SCHEDULE****Details of Boundaries of Proposed Ward Division****Ward No. 1—Civil Ward**

**North**—From Subhash School upto steel Water Tank by the side of Purenna Tank.

**East**—From Seetaram Chakki to Tank behind Collector bang low via Chamda Factory.

**South**—From behind Maharana Pratap School to the house of Anita Sen behind filter plant beside hillock.

**West**—From steel Water Tank upto Municipal School via the sides of Nowgaza Hills.

**Ward No. 2—Rani Durgawati Ward**

**North**—From Zafaris House and side by near Subhash School upto Dr. Motwani's house situated near Purana Thana and therefore upto Jagdish Talkies.

**East**—From steet water tank upto Jabalpur Nake Municipal Border via Nowgaza hill, the Tank behind the Collector Bunglows Jata Shankar Circuit house and side beside the hill.

**South**—From Jagdish Talkies upto Jabalpur Naka Municipal Border via Shivaji School Kotwali Jabalpur Road.

**West**—From the drainage flowing side by side the Municipal Border upto Jatashanker.

#### **Ward No. 3—Lal Bahadur Shastri Ward**

**North**—Starting from Rani Durgawati School upto Station Chouraha Sagar Road via Ghantagar.

**East**—Starting from Rani Durgawati School upto Belatal via Shivaji School and front portion of Kotwali Jabalpur road.

**South**—Rest house road which start to from Saraswati School upto the Joining place at Jabalpur road via Kamala Neharu Collage and belatal road.

**West**—From Station Chowaraha upto Saraswati School in front of Mahila Wastigrah Killai via Bus Stand Chowaraha.

#### **Ward No. 4—Sanjay Ward**

**North**—From Old Collectorate upto Joining place at Killai road via rest house road.

**East**—From Stadium road Situated on Sagar Jabalpur road upto the Joining place at Belatal road via the front portion of Dr. Chand's house.

**South**—From Dr. Chanda Jains house upto the Joining place of rest house and old collectraote via Belatal road.

**West**—From joints to rest house road and Killai road upto Killai Chowaraha and therefore Killai Chowraha upto stadium via Sagar-Jabalpur road.

#### **Ward No. 5—Mission Ward**

**North**—From Killai Chouraraha upto the approach road for Mukesh Nayak Colony via Killai road.

**East**—From Killai Chowaraha upto Tractor Scheme Office via Sagar-Jabalpur road.

**South**—From Sangam road near Vivekanand Colony upto the Tractor Scheme Office Situate on Sagar-Jabalpur road via front of Gas Agency.

**West**—From Killai road at the approach road for Mukesh Nayak Colony and Joining place of the road near Vivekanand Colony.

#### **Ward No. 6—Chhatrasal Ward**

**North**—From the joining place of approach road for Mukesh Nayak Colony situated of Killai road upto S. C. Hostal Situated on Municipal Boudier via Killai road.

**East**—From Killai road upto the joining of place of Vivekanand Colony via the right side of the approach road for Mukesh Nayak Colony.

**South**—Starting from Forest Deopo road upto the joining place Vivekanand Colony road.

**West**—From S. C. Hostal road upto the Forest Depo to upto the Drainage flowing side the Muni border.

#### **Civil Ward No. 7—Rani Awanti Bai Ward**

**North**—From Agriculture Office at Sagar Jabalpur road to Ramprasad's House via Gas Agency.

**East**—From Belatal at Sagar Jabalpur road to electric substation via Jabalpur road.

**South**—From Ramprasad's House to electic substation at Jabalpur road via Nallah.

**West**—From Belatal to Sagar Jabalpur road via Dr. Chanda Jain and Stadium.

#### **Civil Ward No. 8—Krishna Ward**

**North**—From station Chouraha to Teen Gulli Chouraha via Dr. Agrawal.

**East**—From station Chouraha to Bus Stand Chouraha to Chourasiya shop.

**South**—From Killai Chouraha to Bus Stand Chouraha via Mahila Basti Grah.

**West**—From Teen Gulli Chouraha to Killai Chouraha at Jabalpur road.

#### **Civil Ward No. 9—Tulsidas Ward**

**North**—Startring from opposite to PG Collage via to Municipal Limit via Sindhi Dharmshala Jhulelal Temple.

**East**—From Killai Chouraha via to PG Collage at Sagar Jabalpur Marg.

**South**—From Piller No. 28 to Killai Chouraha via Killai road.

**West**—Within Municipal Limits from Piller No. 24 to Piller No. 28.

**Civil Ward No. 10—Guru Nanak Ward**

**North**—From Teen Gulli Chouraha to Municipal Limits via Sagar road.

**East**—From GP College at Sagar Jabalpur road to Wards Teen Gulli Chouraha.

**South**—Within Municipal Limits from Piller No. 24 to Khajri Mohalla Kachcha road to Sagar Jabalpur road via Sindhi Dharmashala Jhulelal Temple.

**West**—At Sagar road upto Piller No. 23.

**Civil Ward No. 11—Jawahar Ward**

**North**—From Pathariya Phatak to Railway godown beside Railway line.

**East**—From Ghantaghar to Pathariya Phatak via Maganj School.

**South**—From Rai Chouraha Mahaveer X Ray to Magang School after crossing hatta link road.

**West**—From Galla Mandi Gate at Railway Station to Mahaveer X Ray at Rai Chouraha via guard line road.

**Civil Ward No. 12—Maharana Pratap Ward**

**North**—Starting from Bal Vinod Shala to Railway Station via Mahaveer X Ray at Rai Chouraha.

**East**—From Ghantaghar to Bal Vinod Shala via Bundabahu Market.

**South**—From Railway Station to Ghantaghar Bundabahu complex via Sangam genral store and Satker ladge.

**West**—From Galla Mandi Gate at Railway Station to Station Chouraha via Dr. Budhawani.

**Civil Ward No. 13—Sardar Patel Ward**

**North**—From Railway Station to Municipal limits via Railway line.

**East**—From Station chowk to Railway Station via Municipal Office.

**South**—From Nursarry Walvert at Sagar road to Station Chowk via Teen Gulli Chowk.

**West**—From Railway line Walvert Malaiya Mill to Teen Gulli.

**Civil Ward No. 14—Sardar Bhagat Singh Ward**

**North**—Municipal limit Piller No. 15 to 18.

**East**—From Railway line beside loco upto Piller No. 15 at Pathria road via Gajrang Akhada and Sent Mober School.

**South**—Within Municipal limits from Railway Colony beside Railway line to Junction point at loco Railway line to Ward East.

**West**—Within Municipal limits from Piller No. 18 to Sagar road.

**Ward No. 15—Shaheed Premchand Ward**

**North**—From Piller No. 11 of Municipal border upto Piller No. 15 on Pathria road.

**East**—From the draings towards the Dhuva tank situated on hatta link road upto Pillar No. 11 on Municipal border.

**West**—From Piller No. 15 of Municipal border upto the Gard Shed via the lind road towards city Catholic Church Bajrang Akhada road loco Railway line and therefore besides lovo Railway line.

**South**—From Railway coal shed upto the drainag at link road of Dhwa tank via Pathriya Phatak and therefore Shanker Oil Mill on hatta line road.

**Ward No. 16—Jagjivan Ram Ward**

**North**—From the drainage flowing towards Dhuva tank situated on hatta link road upto Timber Saw Machine.

**East**—From Devi Madia situated on Kachhaina road upto the hatta link road via tha Drainage flowing towards, Dhuva tank crossing Railway line.

**South**—From Northern portion of the Hatta road linking Kachhaina road upto Devi Madia.

**West**—From timber show Machine situated on the cross road of hatta-Pathariyia road upto the joining place of Kachhiana road on hatta link road via crossing Railway Gate.

**Ward No. 17—Mahatma Gandhi Ward**

**North**—From Babus house in front of Dr. Chetan upto Vandna Traders Badepura via Hardol road.

**East**—From the side of Tandan Building situated on Ghantaghar Cinema road upto the house of Babu via Radharaman Tempel and the front of Dr. Chetan.

**South**—From Ghantaghar Chouraha to Tandon Building at Talkies road.

**West**—From Badapul Vandna Traders to Ghantaghar Chouraha via Meenakshi Temple and Uma Mistri Chouraha.

**Ward No. 18—Lala Lajpat Rai Ward**

**North**—From Dileep Bajaj towards Fakruddin Chachha via Gadikhana at joining road to Palandi Chouraha.

**East**—From Jaiswal Medical at Ghantaghar to the house of Dileep Bajaj via Shah Ji Complex.

**South**—From the shop opposite of Maruti Mandir at Palandi Chouk to Jaiswal Medical at Ghantaghar via Dr. Kedar.

**West**—From Fakruddin Chachha Gadikhana road to shop opposite to Maruti Mandir at Palandi Chouk.

**Ward No. 19—Balmiki Ward**

**North**—From Agarwa flour Mill Badapul up Ramesh Sonis house via stone flooring road and there for Mulchand Master house Ralli Raikwar house.

**East**—From Dr. Jains house situated on futera road upto Agarwal flour Mill badapul via Chouraha.

**South**—From Ralli Raikwars house upto via Ramlal house Harijan Dharam Shala therefore upto Dr. Jain house via Palandi road and Baikhan road.

**West**—From Ralli Raikwar house upto Ballan Raikwar house.

**Ward No. 20—Dr. Bheem Rao Ambedker Ward**

**North**—From Sweepers quaters situated on Kachhiana road upto Pathariya fatak.

**East**—From Sweepers quaters situated on Kachhiana road upto Ghantaghar house via ston flooring leather workers shop gate and gillari womens house.

**South**—From Madan Lal Pathak road and Kachhiana road via Maruti Temple Chouraha.

**West**—From Ghantaghar house situated on front of Harijan Dharam Sala upto Madanlal house. in front of Ramkali.

**Ward No. 21— Bharat Ward**

**North**—From the Draige and the side of Railway Line upto Babulal house Shanker Madia.

**East**—From Vijay Pandes house situated on Badapul upto Railway line via the side of Drainge the house of Nanaram.

**South**—From Vijay Pandes house situated on Drangs upto lather worker via house of Babulal Soni the front of Ralli Raikwar and the house of Satai Chakarwanti.

**West**—From Shanker Ji temple near railway line at Kachhiana marg to charm Shodhan Karm Shala via Sweeper gate and house of lakhan lal Choudhry.

**Ward No. 22— Mahaveer Ward**

**North**—From the house of Seth Dharam Chand to the house of Rattle beside Gajanan Hill.

**South**—From Puranathana at Hindoriya marge upto house of Kanchhedi Mama.

**East**—From Damoh Hinadoriya road near kuliya of Kanchhedi Mama to the house of Seth Dharmchand.

**West**—From house of rattle near Purana Bajar Marge to Purana Thana.

**Ward No. 23— Govind Ballabh Pant Ward**

**North**—From Devi Singh chouraha stone folloerd gali upto Hari Soni house on Mahakali Chouraha.

**East**—Devi Singh chouraha upto Purana char nal via tha link road for Gajanan Gali beside tha hill.

**South**—From Purana Bajar road upto the Culvart of charnal.

**West**—From Hari Soni house situated on MahaKali Chouraha upto Purana Charnal.

**Ward No. 24— Shivaji Ward**

**North**—Gali Starting from Jabahars house upto the house of Pyasi via Dhaya Bhai Bidi Company.

**East**—From Hindoriya road starting in front of Mohan Talkies upto Shri Jabahars house situated on Purana Bajar road via Hindoriya road and old Police Station.

**South**—Hindoriya road starting from tandon building upto Mohan Talkies.

**West**—Road starting from Pyasis house upto Tandon building via Radharaman Temples.

#### **Ward No. 25— Asati Ward**

**North**—From Kachhere tiraha to oppsite to Dr. Chatan.

**East**—From the house of Shiv Jewellers situated on Purana bajar road upto Kachora tiraha.

**South**—From Tandon Building to Purana Thana via Mohan talkies.

**West**—From house of Pyasis to Tandon Building via Radharaman Mandir.

#### **Ward No. 26— Guru Govind Singh Ward**

**North**—From Akbars residents near Urdu School to joining Place of Futera marg via Pathani Masjid Ki Puliya and late. Promod Masters resident.

**East**—From the house of Shanti Bai near peepal tree upto the link of stone floored gali at futera road via Devi Singh Chouraha.

**South**—From Hari house futera road upto the gate of late. Promod Masters.

**West**—From Swatantr Urdu School upto Narayan hotel.

#### **Ward No. 27— Tilak Ward**

**North**—From Mahakali chouraha upto base Narsingh temple on Kachhiyana road.

**East**—From Kachere chouraha upto Mahakali Chouraha.

**South**—From Hardol road upto Kachera tiraha via the house of Dr. Chetan.

**West**—From Kachhiyana road near the house of Nandram choudhary via the house of Vijay Pandey.

#### **Ward No. 28— Gouri Shankar Ward**

**North**—From Peepal tree at Gouri Shankar marg to Gouri Shankar via Pathania Masjid Chouraha.

**East**—From Peepal tree to Urdu Shala.

**South**—From Pappu's Hotel at Kachhiyana Marg to Pathani a Masjid via late Pramod Master's Pulia and finally upto Peepal Tree near Akbar's House.

**West**—From Starting From Gouri Shankar Temple to Pappu's Hotel at Kachhiyana Marg via house of Mangal Singh and Dhobis.

#### **Ward No. 29— Narsingh Ward**

**North**—From Municipal border pillar No. 6 upto the Drainage on Municipal Border pillar No. 11 at Dhuva tank via crossing Hatta link road.

**East**—From the left portion of Pappu's hotel upto pillar No. 6 of Municipal Border situated on the road of Futera tank the front of Washerman and link futera ward road and front of Gouri Shankar Temple.

**South**—From Nursing Temple road upto Pappu's hotel via Ajay Mena's house on Machine road.

**West**—From the Drainage which joins Dhuva tank upto the culvert of Narshinghar Temple road.

#### **Ward No. 30— Jai Praksh Narayan Ward**

**North**—From Pillar No. 5 upto Pillar No. 6 Municipal Border.

**East**—From Peepal Tree situated on Gauri Shanker road upto Municipal Border pillar No. 5 via tank road to perm Shanker road (Sohni) back culvert of Saini Bhavan and Naycam's house crossing railway line.

**South**—From Gouri Shanker Temple to Dayarams hotel near peepal tree.

**West**—From Pillar No. 6 of the Municipal Border upto Gouri Shankar Temple via Future Ward road.

#### **Ward No. 31— Sant Vinoba Bhavae Ward**

**North**—From Murshid Baba, Mazar upto Chaman hotel Kasai Mandi road.

**East**—From the front of the house of Dr. Ravi Mishra upto the Mazar of Murshid Baba.

**South**—From the house of Shined avidly upto the front of Dr. Ravi Mishra house via Rajnagar road.

**West**—From Chaman Hotel upto the house of Shende Vaidya via Bandakpur Damoh Raod.

**Ward No. 32— Subhash Ward**

**North**—Raod from water tank up to Devi Singh Chauraha.

**East**—Road from the front of Chaman hotel situated on Hindoriya road.

**South**—Gali which start the house of Seth Dharamchand upto the house of Kanchedi Mama and therefore Chaman hotel situated on hindoria road.

**West**—From Devi Singh Chouraha upto Seth Dharamchand house via beside the Gajanan hill.

**Ward No. 33— Kidvai Ward**

**North**—The house of Jawahar Kosta situated on Gouri Shankar road upto peepal tree.

**East**—Gali which in situated on Hindoriya road upto the house of Jawahar Kosta via the front of Tikaram Sharma and Basor Mohalla.

**South**—From Devi Singh Chouraha upto the house of Tikaram Sharma via water tank and Sindhi's shop situated on Hindoriya road.

**West**—From Kachha road from Peepal Tree upto Devi Singh Chouraha.

**Ward No. 34—Azad Ward**

**North**—From Pillar No. 2 of Municipal Border up to Pillar No. 5.

**East**—Road from the house of Brajesh Ahirwars situated on Damoh Bandkpur road upto the Pillar No. 2 of Municipal Border via the house of Tulsiram Choubey situated behind Sarder Patel School.

**South**—From Dayarams hotel the link of Damoh Bandakpur road on Gouri Shankar road and therefore upto the house of Brajesh Ahirwar situated on Damoh Bandkpur road.

**West**—From Pillar No. 5 of the Municipal Border upto the Dayaram Kosta via the bank of Futera tank, crossing railway line, Nayemsh house catelat railway house on Gouri Shankar road.

**Ward No. 35—Dr. Rajendra Prasad Ward**

**North**—From pillar No. 46 of Municipal Border upto tiraha of leather factory.

**East**—From Patel's hotel upto Saket Dham via Stone foored gali.

**South**—From

**West**—From the Tiraha of leather factory upto Patel's hotel situated on Kachcha road for Rajnagar.

**Ward No. 36—Rani Damyanti Ward**

**North**—From Road from pillar No. 46 upto Patel's hotel via the side of Saket Dham, Crossing rajnagar road and stone flooring gali.

**East**—From pillar No. 46 to Pillar No. 42 of Municipal Border.

**South**—From the house of Miti bai upto piller No. 42 of Municipal border via Kachha Jata Shankar road.

**West**—Kachha road which starts from Patel's hotel upto the house of Moti Bai on Rajnagar road Mangal Bhavan Saket Dham Girls School.

**Ward No. 37—Saket Ward**

**North**—From piller No. 48 of Municipal Borders upto stone floorined gali which link at Kalim's Dal Mill at Damoh Bandakpur road via Bombay walw Mail Tehsildar and the house of Radhe Shyam.

**East**—From Piller No. 46 to 48 of Municipal Border.

**South**—From Leather factory at Raj nagar marg near Manu Mishra to the Chaaki of Shitaram Rai via Subhash School, Bhita Kalari and Mazar of Thisldar Baba.

**West**—From Daru-ulum to upto Leather Factory Tiraha via Kasai Mandi road.

**Ward No. 38—Kasturba Ward**

**North**—From Piller No. 39 of Municipal Border upto Harijan Dharam Shala Situated on Damoh Bandakpur road via Jabalpur road via Dhani Ahirwals house.

**East**—From

**South**—From Deviji Madia upto Municipal Border via Anaris house situated in stone paved gali and Bombay Wala nail Tahsildar.

**West**—From Harijan Dharam Shala at Bandakpur road towards city, deviji ki Mandiya Near Daru-ulum turning.



**Ward No. 39—Prithviraj Ward**

**East**—From Pillar No. 49 to 50 of Municipal border and therefore Pillar No. 3.

**North**—From Pillar No. 3 up to the house of Ghanshayam Ahirwal Damoh Bandakpur road via the bank of futera Tank crossing railway line, Nasahiim house and front of Tulsiram choubey and via stone floored gali.

**West**—From the house of Khem Chand, Damoh Bandakpur road Municipal border via Stone floored gate, Guddan Puranlal and Dhanai's house.

**South**—From the house of Ghanshyam Ahirwal upto Khemchand house near Harijan Dharam Shala towards Damoh.

SWATANTRA KUMAR SINGH, Collector.

दमोह, दिनांक 4 जून 2014

क्र. 233-ब.लि.-1-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-2004, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं कलेक्टर, जिला दमोह, नगरपालिका परिषद् हटा, जिला दमोह में वार्डों के परिसीमन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता हूँ:—

**अनुसूची**

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	गौरी शंकर वार्ड
2	रामगोपाल वार्ड
3	संजय वार्ड
4	जवाहर वार्ड
5	हजारी वार्ड
6	बालाजी बिहारीजी वार्ड
7	सुभाष वार्ड
8	मुरली मनोहर वार्ड
9	चण्डीजी वार्ड
10	लक्ष्मीप्रसाद, रमाकवि वार्ड
11	कमला नेहरू वार्ड
12	आजाद वार्ड
13	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
14	गांधीजी वार्ड
15	नवोदय वार्ड

**प्रत्येक वार्ड की चतु सीमा का विवरण निम्नप्रकार है****वार्ड क्रमांक 01—गौरीशंकर वार्ड**

**उत्तर**—नदी सुनार के किनारे स्थित हटा खसरा नं. 34/1 के स्तंभ नं. 1 से पूर्व की ओर ग्राम पतरिया के खसरा नं. 10/2 व 10/14 के स्तंभ नं. 2 की नजरी लाईन.

**पूर्व**—ग्राम पतरिया के खसरा नं. 10/2 व 10/14 के स्तंभ नं. 2 से दक्षिण की ओर पन्ना दमोह मार्ग बाबूलाल बजाज मार्ग संगम तक (पश्चिम भाग).

**दक्षिण**—पन्ना दमोह मार्ग एवं बाबूलाल बजाज मार्ग संगम के चंडी जी सड़क धर्मेन्द्र सींग हजारी मार्ग तक लक्ष्मी नारायण सड़क संगम तक.

**पश्चिम**—लक्ष्मी नारायण सड़क ओर धर्मेन्द्र सींग हजारी मार्ग संगम से उत्तर की ओर चलते हुए बायें तरफ के मकान छोड़ते हुए अग्रवाल गली संगम तक वहां से दोनों ओर के मकान लेते हुए उत्तर की गौरी शंकर मंदिर के पश्चिम से नगरी लाईन स्तंभ नं. 1 एवं 2 की नजरी लाईन संगम तक.

**वार्ड क्रमांक 02—रामगोपालजी वार्ड**

**उत्तर**—सुनार नदी प्रारंभ ग्राम हटा से खसरा नं. 34/1 के स्तंभ नं. 1 से नजरी लाईन गौरी शंकर जी के मंदिर के पश्चिम की नजरी लाईन स्तंभ नं. 1 से 2 के संगम तक.

**पूर्व**—बसोर गली एवं धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग के संगम से उत्तर की ओर चलते हुए अग्रवाल गली संगम तक वहां से पश्चिम की ओर घनश्याम मुनीम के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए दोनों तरफ के मकान लेते हुए कुम्हार गली धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए गौरीशंकर मंदिर के पश्चिमी भाग नजरी लाईन स्तंभ नं. 1 व 2 के संगम तक.

**दक्षिण**—बसोर गली एवं धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर बसोर गली चलते हुए हरप्रसाद के मकान के सामने तक वहां से उत्तर पश्चिम कच्चा मार्ग बायें तरफ के मकान छोड़ते हुए सुनार नदी तक.

**पश्चिम**—सुनार नदी.

**वार्ड क्रमांक 03—संजय वार्ड**

**उत्तर**—धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग तथा चण्डी जी मार्ग संगम के पूर्व की ओर चण्डी जी सड़क चलते हुए बेलदार सड़क संगम तक. (मध्य से).

**पूर्व**—चण्डी जी सड़क एवं दमोह पन्ना मार्ग संगम से पश्चिम की ओर बाबूलाल बजाज मार्ग एवं बेलदार सड़क संगम तक वहां से पश्चिम बेलदार सड़क बेलदार गली संगम तक.

**दक्षिण**—बेलदार सड़क एवं बेलदार गली संगम से पश्चिम की ओर गली में चलते हुए (हिंघवासिया सड़क) क्रास करते हुए मस्जिद गली खटीकपुरा सड़क संगम तक वहां से उत्तर खटीकपुरा सड़क स्कूल गली संगम तक वहां से पश्चिम स्कूल गली बजरिया बोर्ड स्कूल सड़क क्रास करते हुए बाबूलाल बजाज मार्ग संगम तक वहां से बाबूलाल बजाज मार्ग धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम तक.

**पश्चिम**—धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग एवं बाबूलाल बजाज मार्ग संगम उत्तर की ओर धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग चलते हुए चण्डी जी सड़क संगम तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—जवाहर वार्ड

**उत्तर**—बजरिया गली एवं बाबूलाल बजाज मार्ग संगम से पूर्व की ओर बाबूलाल बजाज मार्ग स्कूल गली संगम तक स्कूल गली खटीकपुरा सड़क संगम तक वहां से दक्षिण खटीकपुरा सड़क मस्जिद गली संगम तक फिर पूर्व की ओर मस्जिद गली (इमली) होते हुए हिंघवासिया सड़क काटते हुए सीधी लाईन बेलदार सड़क संगम तक.

**दक्षिण**—बेलदार सड़क रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग संगम से पश्चिम की ओर चलते हुए स्टेट बैंक तिगड्डा तक (मध्य से).

**पूर्व**—हिंघवासिया सड़क व बेलदार सड़क से दक्षिण की ओर चलते हुए रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग व बेलदार सड़क संगम तक (परषोत्तम बेलदार के मकान तक).

**पश्चिम**—तिगड्डा से उत्तर की तरफ बजरिया बोर्ड स्कूल की तरफ वाली सड़क काछी गली संगम तक वहां से पश्चिम की ओर नजरी लईन परशु का मकान छोड़ते हुए बजरिया गली संगम तक वहां से उत्तर की ओर बजरिया गली चलते हुए तथा दोनों ओर के मकान छोड़ते हुए बाबूलाल बजाज मार्ग संगम तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—हजारी वार्ड

**उत्तर**—नदी सुनार से कच्चा मार्ग पूर्व दक्षिण चलते हुए तथा हरप्रसाद का मकान घेरते हुए बसोर गली चलते हुए धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग चलते हुए बाबूलाल बजाज मार्ग बजरिया गली संगम तक.

**पूर्व**—बाबूलाल बजाज मार्ग बजरिया गली संगम से बजरिया गली के दोनों ओर मकान लेते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए नजरी लाईन परसू का मकान लेते हुए पूर्व बजरिया बोर्ड स्कूल सड़क एवं कांछी गली संगम तक वहां बजरिया बोर्ड स्कूल सड़क दक्षिण की ओर चलते हुए तिगड्डा तक (मध्य से).

**दक्षिण**—तिगड्डा से पश्चिम की ओर जनकपुरी सड़क चलते हुए धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम तक (मध्य से) वहां से उत्तर की तरफ चलते हुए धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग एवं हजारी मार्ग एवं हजारी घाट सड़क संगम तक वहां से पश्चिम की ओर हजारी घाट चलते हुए नदी सुनार तक.

**पश्चिम**—सुनार नदी.

#### वार्ड क्रमांक 06—बालाजी बिहारी जी वार्ड

**उत्तर**—सुनार नदी से हजारी घाट सड़क पूर्व की ओर चलते हुए धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम तक.

**पूर्व**—हजारी घाट सड़क एवं धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम से दक्षिण तरफ धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग स्कूल गली नं. 01 के संगम तक मध्य से 1 वहां से धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग के दोनों ओर के मकान छोड़ते हुए मुरलीधर स्वामी मार्ग संगम तक.

**दक्षिण**—मुरलीधर स्वामी मार्ग एवं धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम के पश्चिम की ओर मुरलीधर स्वामी मार्ग चलते हुए चौधरी जी के मकान (मध्य से) तक.

**पश्चिम**—मुरलीधर स्वामी मार्ग चौधरी जी के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए नदी गली संगम तक (मध्य से) तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग एवं जनकपुरी मार्ग सड़क संगम से पूर्व की ओर तिगड्डा तक.

**पूर्व**—तिगड्डा से दक्षिण तरफ रामकृष्ण श्रीवास्तव व मार्ग होते हुए राय गली संगम तक वहां से राय गली पूर्व की ओर चलते हुए मन्नूराय के घर से दक्षिण की ओर चलते हुए सूरें राय के घर के सामने से कालूराम राय के घर के सामने राय गली एवं बिहारी जी सड़क संगम तक वहां से बिहारी जी सड़क पर पश्चिम की ओर चलते हुए रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग संगम तक वहां से दक्षिण की तरफ रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग चलते हुए चौरसिया गली संगम तक.

**दक्षिण**—रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग व चौरसिया गली संगम से चौरसिया गली चलते हुए तंतुवाय गली संगम तक वहां से पश्चिम की तरफ तंतुवाय की तरफ चलते हुए नामदेव गली संगम तक वहां से नामदेव गली धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम तक.

**पश्चिम**—नामदेव गली व धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग तक से धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग के दोनों तरफ के मकान लेते हुए स्कूल गली नं. 1 के संगम तक फिर धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग मध्य से उत्तर की तरफ जनकपुरी सड़क तक.

**वार्ड क्रमांक 08—मुरली मनोहर वार्ड**

**उत्तर**—तिगड्डा से रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग पूर्व की ओर बेलदार सड़क संगम तक. (मध्य से).

**पूर्व**—रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग ओर स्टोर गली संगम से दक्षिण की तंतुवाय गली नं. 04 तक.

**दक्षिण**—स्टोर गली एवं तंतुवाय गली नं. 04 के संगम से पश्चिम की ओर तंतुवाय गली ग्वाल नदी संगम तक जहां से ग्वाल गली उत्तर तरफ हनुमान गली संगम तक वहां से ग्वाल गली उत्तर तरफ हनुमान गली संगम तक वहां से पश्चिम हनुमान गली चलते हुए मंदिर व दोनों तरफ के मकान लेते हुए बलराम गली संगम तक वहां से उत्तर बलराम गली मुरली मनोहर सड़क तक वहां से मुरली मनोहर सड़क रोड ओर ललता गली संगम तक.

**पश्चिम**—मुरली मनोहर सड़क ओर ललता गली संगम से उत्तर की तरफ ललता गली चलते हुए बिहारी जी सड़क संगम तक (मध्य से) फिर बिहारी जी सड़क पश्चिम की ओर चलते हुए राय गली संगम तक वहां से उत्तर की ओर राय गली चलते हुए एवं बायें तरफ के मकान छोड़ते हुए कालूराम राय, सूरें राय एवं मन्नूरा के मकान घेरते हुए राय गली एवं रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग चलते हुए बजरिया बोर्ड स्कूल संगम तिगड्डा के मध्य तक.

**वार्ड क्रमांक 09—चण्डी वार्ड**

**उत्तर**—ग्राम पतरिया के खसरा नं. 10/02 एवं 10/14 के स्तंभ नं. 2 से नजरी लाईन दमोह-पन्ना मार्ग काटते हुए ग्राम हटा खास के खसरा नं. 75/2 के स्तंभ नं. 03 तक.

**पूर्व**—ग्राम हटा के खसरा नं. 75/2 के स्तंभ नं. 03, नजरी लाईन स्तंभ 5 तक.

**दक्षिण**—स्तंभ 5 से नजरी लाईन रनेह सड़क को जोड़ते हुए दमोह-पन्ना मार्ग वेयरहाउस के पास तक.

**पश्चिम**—दमोह-पन्ना मार्ग रनेह मार्ग संगम से उत्तर की ओर चलते हुए पेट्रोल पम्प तक. बायें तरफ के मकान को छोड़ते हुए वहां से रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग बेलदार सड़क संगम तक प्यारे बेलदार का मकान लेते हुए बायें तरफ के मकान को छोड़कर बलदेव पाठक के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बेलदार सड़क बाबूलाल बजाज मार्ग संगम तक वहां से दमोह-पन्ना मार्ग तक एवं वहां से उत्तर की ओर दमोह-पन्ना मार्ग चलते हुए ग्राम पतरिया के खसरा नं. 10/2 एवं 10/14 के स्तंभ नं. 02 तक.

**वार्ड क्रमांक 10—लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री रमाकवि वार्ड**

**उत्तर**—रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग एवं मदारछल्ला सड़क संगम से पूर्व की तरफ मदारछल्ला रोड चलते हुए मुहम्मडन गली के संगम तक (मध्य से) वहां से उत्तर की तरफ मुहम्मडन गली के दोनों ओर के मकान के होते हुए ओर स्टोर गली चलते हुए तंतुवाय गली संगम तक.

**पूर्व**—स्टोर गली एवं तंतुवाय गली से दक्षिण की ओर स्कूल गली चलते हुए पी. डब्ल्यू. डी. अधियारा बगीचा मार्ग संगम से दक्षिण कुम्हार गली चलते हुए नाला गली संगम तक.

**दक्षिण**—कुम्हार गली अधियारा बगीचा मार्ग संगम से दक्षिण कुम्हार गली चलते हुए नाला गली संगम तक.

**पश्चिम**—कुम्हार गली, नाला गली संगम से उत्तर की ओर नाला गली अधियारा बगीचा मार्ग संगम तक वहां से उत्तर पश्चिम अधियारा बगीचा मार्ग साहू गली संगम तक फिर पश्चिम अधियारा बगचा रेस्ट हाउस मार्ग रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग तक वहां से उत्तर की ओर रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग मदारखल्ला सड़क संगम तक.

**वार्ड क्रमांक 11—कमला नेहरू वार्ड**

**उत्तर**—रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग एवं बिहारी जी सड़क संगम से पूर्व की ओर बिहारी जी सड़क एवं ललता गली संगम तक.

**पूर्व**—बिहारी जी सड़क एवं ललता गली संगम से दक्षिण की ओर ललता गली चलते हुए मुरली मनोहर सड़क संगम एवं ललता गली संगम तक वहां से पूर्व की ओर मुरली मनोहर सड़क संगम तक वहां से दक्षिण की ओर बलराम गली चलते हुए हनुमान गली संगम तक वहां से पूर्व की ओर हनुमान गली के दोनों ओर के मकान एवं मंदिर छोड़ते हुए ग्वाल गली संगम तक वहां से दक्षिण ग्वाल गली चलते हुए स्टोर गली संगम तक.

**दक्षिण**—ग्वाल गली एवं स्टोर संगम से पश्चिम की तरफ मुहम्मन गली संगम तक वहां से दक्षिण होते हुए एवं दोनों तरफ के मकान छोड़ते हुए मदानछल्ला सड़क संगम तक वहां से पश्चिम की ओर मदानछल्ला सड़क चलते हुए रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग संगम तक.

**पश्चिम**—मदारछल्ला सड़क एवं रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग संगम से उत्तर की ओर बिहारी जी सड़क संगम तक (मध्य से).

**वार्ड क्रमांक 12—आजाद वार्ड**

**उत्तर**—धर्मेन्द्रसिंह हजारी मार्ग एवं नामदेव गली संगम से पूर्व की ओर तंतुवाय गली चलते हुए चौरसिया गली संगम तक वहां से उत्तर पूर्व की ओर चौरसिया गली चलते हुए रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग संगम तक.

**पूर्व**—चौरसिया गली तथा रामकृष्ण श्रीवास्तव मार्ग चलते हुए अधियारा बगीचा मार्ग संगम तक वहां से पूर्व की ओर अधियारा बगीचा रेस्ट हाउस मार्ग चलते हुए साहू गली संगम तक वहां से दक्षिण पूर्व की ओर अधियारा बगीचा मार्ग चलते हुए नाला गली नं. 3 के संगम तक वहां से दक्षिण नाला गली नं. 3 चलते हुए कुम्हार गली संगम तक.

**दक्षिण**—नाला गली तथा कुम्हार गली दक्षिण-पश्चिम गली तक वहां से पश्चिम नाला पुलिस लाईन सड़क संगम तक.

**पश्चिम**—नाला और पुलिस लाईन संगम से उत्तर की ओर पुलिस लाईन सड़क अधियारा बगीचा रेस्ट हाउस मार्ग संगम तक वहां से पश्चिम एवं उत्तर को मुड़ते हुए धर्मेन्द्र हजारी मार्ग मुरलीधर स्वामी के दोनों तरफ के मकान लेते हुए नामदेव गली संगम तक.

**वार्ड क्रमांक 13—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

**उत्तर**—नदी सुनार से पूर्व की ओर नदी गली चलते हुए मुरलीधर स्वामी मार्ग संगम तक.

**पूर्व**—नदी गली एवं मुरलीधर स्वामी मार्ग संगम से दक्षिण स्वामी मार्ग चलते हुए चौधरी के मकान के सामने से होते हुए धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग संगम तक वहां से दक्षिण धर्मेन्द्र सिंह हजारी मार्ग चलते हुए पुलिस लाईन संगम तक फिर दक्षिण की ओर पुलिस लाईन रोड नाला संगम तक फिर पश्चिम की ओर अधियारा बगीचा नाला डगैन्या संगम तक वहां से दक्षिण की ओर डगैन्या नाला चलते हुए ग्राम गड़िया के खसरा नं. 178 के स्तंभ नं. 9 तक.

**दक्षिण**—ग्राम गड़िया के खसरा नं. 178 के स्तंभ नं. 9 से नजरी लाईन ग्राम गड़िया के खसरा नं. 80/5 के स्तंभ नं. 10 तक वहां से नजरी लाईन ग्राम गड़िया के खसरा नं. 34 स्तंभ 11 नदी सुनार तक.

**पश्चिम**—सुनार नदी.

**वार्ड क्रमांक 14—गांधी वार्ड**

**उत्तर**—अधियारा बगीचा नाला ओर डगैन्या नाला के पूर्व की ओर नाला-नाला चलते हुए नजरी लाईन नाला गली संगम तक (मध्य से) कुम्हार गली उत्तर पूर्व चलते हुए अधियारा बगीचा रेस्ट हाउस मार्ग संगम तक वहां से

पूर्व की ओर अधियारा बगीचा रेस्ट हाउस मार्ग चलते हुए बायें तरफ के मकान लेते हुए दमोह-पन्ना मार्ग संगम तक वहां से दमोह-पन्ना मार्ग चलते हुए अधियारा बगीचा पुल तक.

**पूर्व**—अधियारा बगीचा रेस्ट हाउस संगम से दमोह मार्ग चलते हुए स्तंभ नं. 8/1 तक.

**दक्षिण**—स्तंभ नं. 8/1 से नजरी लाईन स्तंभ नं. 9 तक.

**पश्चिम**—स्तंभ नं. 9 से नजरी लाईन से नाला-नाला (मध्य से) चलते हुए दमोह रेस्ट हाउस मार्ग क्रॉस करते हुए डगैन्या नाला एवं अधियारा बगीचा संगम तक.

**वार्ड क्रमांक 15—नवोदय वार्ड**

**उत्तर**—ओवरसियर क्वार्टर से दमोह-पन्ना मार्ग संगम तक वहां से दमोह-पन्ना मार्ग चलते हुए वेयरहाउस के सामने राधेश्याम विश्वकर्मा की वर्कशाप लेते हुए रनेह मार्ग के दोनों तरफ के मकान लेते हुए स्तंभ नं. 5 तक.

**पूर्व**—स्तंभ नं. 5 से नजरी लाईन स्तंभ नं. 7/1 तक.

**दक्षिण**—स्तंभ नं. 7/1 से स्तंभ नं. 8 एवं स्तंभ नं. 8/1 तक.

**पश्चिम**—स्तंभ नं. 8/1 से दमोह-पन्ना मार्ग होते हुए अधियारा बगीचा रेस्ट हाउस मार्ग संगम तक के नजरी लाईन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला हटा की वाउण्ड्रीवाल के बाजू तक प्यारे बढई का मकान छोड़ते हुए नजरी लाईन सालिगराम साहू के मकान से झुते साहू का मकान लेते हुए बाडगा दालमिल के बाजू से जनकपुरी सड़क पार करते हुए ओवरसियर क्वार्टर तक.

**नोट.**—वार्डों की सीमा विशेष रूप से उल्लिखित स्थितियों को छोड़कर हर मार्ग सड़क गली व नाले के मध्य से है.

**स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.**

Damoh, the 4th June 2014

No. 233-S.C.-1-2014.—In exercise to the power conferred by sub-section (1) of Section of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961, (No. 37 of 1961) the State Government determine the extent of Wards of Nagar Palika Parishad Hatta, Distt. Damoh as per Schedule given Below:—

**SCHEDULE**

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
Ward No. 1	Gouri Shanker Ward
Ward No. 2	Ram Gopal Ji Ward

(1)	(2)
Ward No. 3	Sanjay Ward
Ward No. 4	Jawahar Ward
Ward No. 5	Hazari Ward
Ward No. 6	Balaji Bihariji Ward
Ward No. 7	Subhash Ward
Ward No. 8	Murli Manohar Ward
Ward No. 9	Chandi Ji Ward
Ward No. 10	Dr. Laxmi Prasad Mistri Ramakavi Ward
Ward No. 11	Kamla Nehru Ward
Ward No. 12	Azad Ward
Ward No. 13	Lal Bahadur Shashtri Ward
Ward No. 14	Gandhi Ward
Ward No. 15	Navodaya Ward

**Description of the boundary of the Wards is as below**

**Ward No. 01— Gouri shankar Ward**

**North**—Begins From Piller No. 1 in Khasra No. 34/1 of Village Hatta and forming an inignary line upto Piller No. 2 in East in Khasra No. 10/2, 10/14 of Village Parhtiya.

**East**—From Piller No. 2 in Khasra No. 10/2, 10/14 of Village Pathariya towards South upto point of Panna-Damoh road and Babulal Bajaj Marg.

**South**—From joint of Damoh-Panna road and Babulal Bajaj Marg toward West goin on Chandiji Ward crossing Dharamendra Singh Hazari road up joint of Sunat Gali and Laxmi Narayan Road (Northern Area)

**West**—From Laxmi Narayan Road and Dharmendra Singh Hazari Road junction going toward North leaving left side houses upto Agrwal Galijunction from their taking both side houses to Gouri Shanker Mandir and in West of Gouri Shankar Mandir innaginary line upto junction of Piller No. 1 abn 2.

**Ward No. 02—Ram Gopal Ji Ward**

**North**—An inaginary line starting from Piller No. 1 of Khasra No. 34/1 of Village Hatta towards West of Gouri Shankar Mandir upto joint

of an inaginary line of Piller No. 1 and Piller No. 2.

**East**—From Basor Gali Dharmendra Singh Hazari road junction going Nargh upto Agrawal Gali junction from their towards West upto house of Ghanshyam Muneem house and from their going towards North taking both side houses upto Kumhar Gali Dharmendra Singh Hazari road junction and going towards North upto Gouri Shankar Mandir and innaginary line upto junction of Piller No. 1 and 2.

**South**—From joint Basor Gali and DSH road towards West jount of Basor Gali upto front of house of Shree Har Prashad then towards North West Kachhi lane leaving left side house upto River North.

**West**—Rivers Sunar.

**Ward No. 03—Sanjay Ward**

**North**—Chandi Ji road from joint of D. S. H. road upto joint upto Beldar road (central area).

**East**—From joint of Damoh-Panna road and Chandi ji road towards West upto Babulal Bajaj road and Beldar road joint road towards South upto joint road to Beldar road to Beldar Gali.

**South**—From joint of Beldar road and Beldar Gali towards West going on Gali (crossing Hingwashiya road) Masjid Gali upto Khateekpura road joint then towards North upto Khateekpura road and School Gali joint then towards West School Gali crossing Bazariya road School road upto Babulal Bajaj road joint then upto Babulal Bajaj and D. S. H. road joint.

**West**—From joint of D.S.H. road and Babulal Bajaj road towards North upto joint of Chandiji road.

**Ward No. 04— Jawahar Ward**

**North**—From joint of bazariya gali and Babulal Bajaj road to east up to joint of Babulal Bajaj road and school gali khateek pura road joint to wards south up to khateek pura road and Masjid Gate joint ther to wards east going of masjid gali crossing Hingwasiya road a central up to bel dar road joint.

**East**—From Hingwasiya road beldar road junction going to wards north up to ram krishna shriwastav beldar road junction (up to House of Pursottem beldar).

**South**—From beldar road Ramkrishna Shrivastav road junction going to ward west up State band Tigadda (From central line).

**West**—From tigadda to wards North up joint of bazariya board school road in Kachhi gali then and imaginary line towards leaving Parsu Home up to bazariya gali joint then to wats north going on bazariya gali leaving borth side houses upto joint of Babulal Bajaj road.

#### Ward No. 05— Hazari Ward

**North**—From River sunar to wats House going on Kachhi lane and surrounding Harprasad house and going on basor gali upto D. S. H. road joint then to word north joint D.S. H. road upto Babulal Bajaj joint then to wards East upto Babulal Bajaj roar and bazariya gali line.

**East**—From joint a Babulal Bajaj road and bazariya gali going on bazariya gali taking both side house to wards south and imaginary line taking parsu house to wards east upto bazariya road School road in Kachhi gali joint then to wards south going on Bazariya board School road upto Tigadda (centar).

**South**—From tigadda towards west joint on Janakpuri road upto joint a D. S. H. road (center) then towards north upto joint of D. S. H. road in Hazari ghat road to wards west going on Hazari ghat road upto river sunar.

**West**—River sunar.

#### Ward No. 06— Balaji Bihari Ward

**North**—From River sunar ro words east going on Hazari ghat road upto D. S. H. road joint.

**East**—From joint of Hazari ghar road and D. S. H. road to wards south upto joint a D. S. H. road and School gali No. 1 joint (center) from there leaving both side houses of D. S. H. road going on D. S. H. road upto joint of D. S. H. road and Murlidhar Swami road.

**South**—From joint of Murlidhar Swami road and D.S.H. road to wats best going on Murlidhar Swami road up to house of Choudhri Ji.

**West**—From house Choudhari Ji on Murlidhar Swami road going to wards north upto nadi gali joint (central) then to word west nadi gali upto river sunar and towards north a part of river sunar upto joint a hazari ghat road.

#### Ward No. 07— Shubhash Ward

**North**—From D. S. H. road and Janakpuri road joint upto tigadda towards east.

**East**—From tigadda towards south going on Ramkrishna Shrivastava roud upto joint of Rai gali From there towards east going on Rai gali and going From north side of Munnu Rai house and infront of house of Shri Sure Rai house ro house Kaluram Rai From their joint of Rai gali and Bigarji Sadak from here on Bigariji Sadak going towards west upto Ramkrishn Shrivastava road joint from there going on Ramkrishna shrivastava road upto Chourasiya gali joint.

**South**—From joint of Ramkrishna Shrivastava road and Chourasiya gali going on Chourasiya gali Tantuway gali joint from there towards west going on tantubay gali upto Namdeo gali joint from there upto Namdeo gali D. S. H. Road joint.

**West**—From joint are D. S. H. road Namdeo gali going on D. S. H. road up to joing of School gali No. 1 and taking both side houses then D. S. H. road from center towards north upto Janakpuri road joint.

River sunar up to joint a hazari ghat road.

#### Ward No. 08— Murli Manohar Ward

**North**—From Tigadda going on Ramkroshna Shrivastava road towards east up to Beldar road joint.

**East**—From Ramkrishna Shrivastava road and Store gali joint towards south going on store gali crossing Bihariji road upto tentuway gali No. 4 joint.

**South**—From joint of store gali and tantway gali No. 4 towards west upto tantway gali and Gwal gali joint then towards north going on gwan gali upto hanuman gali joint then towards west going on hanuman gali taking mandir & bouth side houses upto Balram gali joint towards noth upto Balram gali & Murli Manohar Road joint form there upto Murli Manohar Sadak Lalta gali joint.

**West**—From Murli Manohar Raod & Lalat gali joint towards north going Lalta gali upto Bihari Ji ward joint (Centre) then going Bihari Ji Road towards west up Rai gali joint from there towards north going on Rai gali living left side house & Surrounding Kalu Ram Rai Sure

Rai Mannu Rai house upto Rai gali & Ramkrishan Shrivastava road going of Ramkishun shrivastav road upto Bajari borad School road tigadda joint (Centre).

#### Ward No. 09— Chandji Ward

**North**—An imaginary line from Piller No. to of Khasara No. 10/2 & 10/14 of village Patariya corssing damoh-Panna road upto Pillar No. 3 of khasara No. 75/2 of village hatta.

**East**—An imaginary line from pillar No. 3 of Khasara No. 75/2 of village hatta to Piller No. 5.

**South**—An imaginary line from pillar No. 5 joining raneh road & Damoh-Panna road near upto were house.

**West**—From Damoh-Panna road & raneh road junction going towards north upto Pepral pump leaving left side houses from their Ramkrishna shrivastav Belder road junction taken house of Payer belder leaving left side houses upto baldeo Pathak & going towards north balder road Baboolal Bajaj road junction from their going towards north on Damoh-Panna road upto Piller No. 2 village patariya Khasra No. 10/2 & 10/14.

#### Ward No. 10—Dr. Laxmi Prasad Mishtri Ward

**North**—From Ramkrishna Shrivastav road & Madar Challag road joint going towards east madar Challa road Mohmmandan gali joing (Centre) from their towards north taking both side houses of Mohmmandan gali upto joint are store gali form their going towards east on store gali upto joint of tantway gali.

**East**—From joint of stor gali Tantway gali joint going to wards south on school gali upto rest house Andhiyara Bageecha Road Joint.

**South**—From joint of Kumar gali & Andhiyara Bageecha road towards south going on Kumar gali upto nalla gali joint.

**West**—From joint of Nalla gali & Kumar gali towards north going on Nalla Gali upto Andhiyara Bageecha road joint from their toward north-west on Andhiyara Bageecha road joint of Sahu gali then towards west going on Andhiyara Begeecha road upto Ramkrishna shrivastav road joint from their towards north going of Ramkrishan Shrivastav road Madarchalla road joint.

#### Ward No. 11— Kamal Nehru Ward

**North**—From joint of Ramkrishna shrivastav road & Bihariji road towards east upto joint of Bihariji road & lalta gali.

**East**—From joint of Bihari ji road & lalta gali towards south going on lalta gali upto joint of lalta gali & Murli Manohar Road from their towards east going Murli Manohar road upto joint of gali going towards south Balram gali upto joint of Hanuman gali from their towards east Hanuman gali leaving both side houses & temple upto gwal gali joing from their towards south going gwal gali upto store gali joint.

**South**—From the joint of store gali & gwal Gali towards west joint of Mohandan gali from their towards south on Mohmmandan gali leaving both side houses upto madar challa road joint from their towards west going on madarchalla road upto Ramkrishna Shrivastav road joint.

**West**—From joints of Madarchalla road Ramkrishan shrivastav road towards north going on Ramkrishana road upto joing of Bihari Ji Road (Centre).

#### Ward No. 12—Azad Ward

**North**—From Jonit of DSH road & Namdeo gali going on tantway gali to wards east upto Chourasiya gali joint from threr going on Chourasiya gali upto Ramkrishna Shrivastav road joint towards north east.

**East**—From the joint of Ramkrishna Shrivastav road & Chourasiya gali going on Ramkrishna Shrivastav road towards south upto joint of andhiyara Bageecha road from there towards east going on Andhiyara Bageecha rest house road upto sahu gali joint from there towards south east going on Andhiyara Bageecha road upto nalla gali No. 3 joint from there towards south nalla gali No. 3 upto joint Kumhar gali.

**South**—From joint of nalla gali & Kumhar gali south west upto nalla then towards west nalla upto Police line road joint.

**West**—From joint of Police line road & nalla gali towards north Police line road upto joint of Andhiyara Bageecha road houses then towards west-notrh upto D. S. H. road and Muldhar Swami road joint again DSH road taking both side houses upto Namdeo gali Joint.

**Ward No. 13— Lal Bahadur Shastri Ward**

**North**—From river sunar going on nadi gali towards east upto joint of Murlidhar Swami road.

**East**—From nadi gali & Murlidhar Swami road joint to wards south going on Swami road in front of turning from choudhari houses upto DSH road joint from there DSH road upto joint of Police line road then towards south Police line a road upto nalla joint again towards west Andhiyara Bageecha nalla joint of Daginiya nalla Piller No. 9 Khasra No. 178 of village gadiya.

**South**—An imaginary line from pillar No. 9 of khasra No. 178 of village gadiya upto pillar No. 10 khasra No. 80/5 of village of gadiya from there imaginary line upto pillar No. 11 khasra No. 34 of village gadiy & river sunar.

**West**—River sunar.

**Ward No. 14— Gandhi Ward**

**North**—From junction of Andhiyara Bageecha nalla & dagainya nalla towards east going nalla upto nalla gali upto Kumhar gali joint (Centre) then towards north east going on Kumhar gali upto Andhiyara Bageecha & Damoh-Panna road junction.

**East**—From Andhiyara Bageecha & rest houses road junction towards going to south upto pillar No. 6 & upto pillar No. 8/1.

**South**—An imaginary line from pillar No. 8/1 pillar No. 9.

**West**—An imaginary line from pillar No. 9 to daginaiya nalla & crossing PWD rest house road & upto junction of dagainiya nala & Andhiyara Bageecha nalla.

**Ward No. 15— Navoday Ward**

**North**—PWD Oversear quarter Junction of Janakpuri road & Damoh-Panna road & going towards north upto junction of Panna-Damoh near were houses in front of Radheshyam work shop & both side houses taken Raneh road imaginary line upto pillar No. 5.

**East**—An imaginary line from pillar No. 5 to pillar No. 7/1.

**South**—From pillar No. 7/1 to pillar No. 8 & upto pillar No. 8/1.

**West**—From pillar No. 8/1 & on Damoh-Panna road Andhiyara Bageecha road & rest houses road

junction & from there As imaginary line leaving houses of pyarya Badai upto Boundary of MLB School Hatta & houses Shaligram Sahu taking house. Jhutte Sahu & going Phrouth Padga near boundary of Dal Mill & crossing Bihari ji road & upto PWD oversear quarter.

**Note**—The boundaries of wards are from midway of all road (line, galies etc.) exceptat where ever specially mentioned.

SWATANTRA KUMAR SINGH, Collector.

दमोह, दिनांक 4 जून 2014

क्र. 236-ब.लि.-1-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-2004, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं कलेक्टर, जिला दमोह, नगर परिषद् पथरिया, जिला दमोह में वार्डों के परिसीमन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ:—

**अनुसूची**

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	गौरी शंकर वार्ड
2	सुभाष चंद बोस वार्ड
3	रानी दुर्गावती वार्ड
4	यज्ञशाला वार्ड
5	अंबेडकर वार्ड
6	महावीर वार्ड
7	महात्मा गांधी वार्ड
8	विवेकानंद वार्ड
9	लक्ष्मीबाई वार्ड
10	महाराणा प्रताप वार्ड
11	वीर शिवाजी वार्ड
12	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
13	रविशंकर वार्ड
14	इंदिरा गांधी वार्ड
15	माधवराव सप्रे वार्ड

**वार्ड की सीमाओं में सम्मिलित क्षेत्र**

**वार्ड क्रमांक 01—गौरीशंकर वार्ड**

**उत्तर**—लखरौनी ग्राम एवं राजस्व सीमा तक.

**पूर्व**—लखरौनी रेल्वे फाटक से सुनार नदी तक नगर पालिका की अंतिम सीमा तक.



**दक्षिण**—लखरौनी फाटक की लाईन के मकान तथा जैन मंदिर सेमरा वाले जैन मंदिर तक.

**पश्चिम**—कैलाश जैन के मकान से रेल्वे क्वार्टर से सेमरा वाले जैन मंदिर को लेते हुये नन्ने भाई तिवारी के मकान को लेते हुए भाउ लाल दुबे के मकान को लेते हुए विछनी नाला व नगर पालिका की अंतिम सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—सुभाषचंद बोस वार्ड

**उत्तर**—रज्जन मलैया के मकान से सीताराम बसोर के मकान तक.

**पूर्व**—सीताराम बसोर के मकान से कपूरे अहिरवाल के मकान तक.

**दक्षिण**—हाई स्कूल भवन से कपूरे अहिरवाल के मकान तक.

**पश्चिम**—लखरौनी फाटक से हाई स्कूल भवन तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर**—हाई स्कूल फाटक से खरे मास्टर को लेते डॉ. महादेव पटेल के बगीचा तक नगर पालिका की अंतिम सीमा तक.

**पूर्व**—डॉ. महादेव पटेल के बगीचा से बारे लाल सींगे साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—श्याम बिहारी की दुकान से रमेश साहू के मकान.

**पश्चिम**—हाई स्कूल के बड़े फाटक से श्याम बिहारी की नवनिर्मित दुकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—यज्ञशाला वार्ड

**उत्तर**—मनोहर फट्टा की दुकान से नन्ने भाई यादव के मकान तक.

**पूर्व**—गोवर्धन साहू के मकान से नन्नु रैकवार के मकान तक.

**दक्षिण**—रतन चंद जैन के मकान से नन्नु रैकवार के मकान तक.

**पश्चिम**—मनोहर फट्टा के मकान से रतन चंद जैन के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—रघुनंदन कुर्मी के मकान से सुक्के पटेल के बगीचा को लेते हुए खेजरा खैर मंदिर तक नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**पूर्व**—रामदास के मकान से तालाब को लेते हुए नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**दक्षिण**—तुला लड़िया के मकान से पचकोणी के मकान को लेते हुए बड़े तालाब को लेते खेजरा खैर मंदिर नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**पश्चिम**—रघुनंदन कुर्मी के मकान से तुला लड़िया के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—महावीर वार्ड

**उत्तर**—बारेलाल के मकान से डॉ. महादेव पटेल के मकान को लेकर नंदरई वाले पटेल के मकान तक.

**पूर्व**—नंदरई वालों के मकान से चतुर्भुज के मकान तक.

**दक्षिण**—रामप्रताप पौराणिक के मकान से चतुर्भुज के मकान तक.

**पश्चिम**—कमलेश मलैया के मकान से रामप्रताप पौराणिक के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—सुभाषचंद जैन के मकान से कमल कुर्मी के मकान तक.

**पूर्व**—कमल कुर्मी के बगीचा से बैजनाथ पटवारी के बगीचा तक.

**दक्षिण**—प्रकाश सुरेखा के मकान से बैजनाथ पटवारी के बगीचा तक.

**पश्चिम**—सुभाष जैन के मकान से सुरेखा के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—विवेकानंद वार्ड

**उत्तर**—विश्वनाथ मंडिया से नत्थू पटेल के मकान तक.

**पूर्व**—नत्था ज्वार से खैर माता सैर तक.

**दक्षिण**—अनंतराम प्रजापति से खैर माता अंतिम सैर एवं आलापुर ग्राम की राजस्व सीमा तक.

**पश्चिम**—विश्वनाथ मंडिया से अनंतराम प्रजापति के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—गढ़ाकोटा रोड के पश्चिम की ओर मोहन लाल बांच से तुलसी सेन को लेते हुए एवं नगरपालिका की अंतिम सीमा तक गढ़ाकोटा रोड के पूर्व ओर नन्नु सोनकिया के मकान को लेते हुए अंतिम ब्रजलाल पटेल को लेते हुए नगरपालिका की अंतिम सीमा व खैर माता मंदिर सहित.

**पूर्व**—खैर माता की सैर से अंतिम मकान ब्रजलाल पटेल बट्टी पटेल के मकान को लेते हुए अंतिम सीमा तक.

**दक्षिण**—पंकू पटेल के बगीचा को लेते हुए रग्गन के मकान तक एवं नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**पश्चिम**—तुलसी सेन के मकान से ललिती बाई के मकान को लेकर नगरपालिका अंतिम सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—महाराणा प्रपात वार्ड

**उत्तर**—गोपी चंद जैन के मकान से जगदीश शाला को लेकर नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**पूर्व**—गोपी चंद जैन के मकान से संतोष सेन के मकान तक.

**दक्षिण**—संतोष सेन के मकान से धानक नाला के उस पार तक नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**पश्चिम**—छोटे तालाब से जगदीश शाला लेते भुजवल पटेल के बगीचा से नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—वीर शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—गन्नु सिंघई के मकान से राजेश शुक्ला के मकान को लेते हुए राजाराम गड़रिया के मकान तक.

**पूर्व**—गन्नु सिंघई के मकान से नारायण नामदेव के मकान तक.

**दक्षिण**—नारायण नामदेव के मकान से गनेश राम दुबे के मकान तक.

**पश्चिम**—गनेश राम दुबे के मकान से राजाराम गड़रिया के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—लाल बहादुर वार्ड

**उत्तर**—घंसू पटेल के मकान से मिट्टू जैन के मकान तक.

**पूर्व**—मिट्टू जैन के मकान से शंकर लुहार के मकान को लेते हुए एवं जुझार नेमा के मकान को लेते हुए सीताराम सोनी के मकान तक.

**दक्षिण**—सीताराम सोनी के मकान से काशीनाथ राव आपटे के मकान लेते हुए रविशंकर कुर्मी के मकान तक.

**पश्चिम**—रविशंकर कुर्मी के मकान से बारेलाल पटेल के मकान को लेते हुए घंसू पटेल के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—रविशंकर वार्ड

**उत्तर**—बाबूलाल खटीक के मकान से अवधेश बड़गैया के मकान तक.

**पूर्व**—अवधेश के मकान से दरवारी चौरसिया एवं मुन्ना खान के मकान तक.

**दक्षिण**—धनीराम खटीक के मकान से जगदीश शाला तक.

**पश्चिम**—पश्चिम की ओर शेख सुभान के मकान को लेते हुए मंडी बाउण्ट्री तक.

#### वार्ड क्रमांक 14—इन्दिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—कृषि उपज मंडी से कमल का बगीचा एवं नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

**पूर्व**—कृषि उपज मंडी के प्रांगण से हीरालाल मेहतर के मकान तक नगरपालिका कही अंतिम सीमा तक.

**दक्षिण**—नगरपालिका अंतिम सीमा को लेकर हरिजन छात्रावास से गुड्डू मेहतर के मकान तक.

**पश्चिम**—हरिजन छात्रावास से कारसदेव को लेते हुए नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 15—माधवराव सप्रे वार्ड

**उत्तर**—बालमुकुंद नेमा के मकान से मन्नु फट्टा के मकान को लेकर गनपत पटवारी के मकान तक.

**पूर्व**—बालमुकुंद नेमा के मकान से मन्नु फट्टा के मकान को लेते हुए संजय चौराहा को लेते हुए रविशंकर मार्ग तक.

**दक्षिण**—रविशंकर मार्ग से टी. सी. तिवारी के मकान को लेकर अफ्सरी बेगम के मकान तक.

**पश्चिम**—अफ्सरी बेगम के मकान को लेते हुए पुलिस थाना को लेते हुए गनपत पटवारी के मकान को लेकर नगरपालिका की अंतिम सीमा तक.

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.

Damoh, the 4th June 2014

No. 236-S.C.-1-2014.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961, (No. 37 of 1961) the State Government determine the extent of Wards of **Nagar Palika Parishad Pathariya**, Damoh Dist. Damoh as per Schedule given Below:—

#### SCHEDULE

#### Ward No. 01—Gouri Shankar Ward

**North**—Revenue Boundary of Village Lakhroni and Rajwans.

**East**—Lakhroni Railway Gate to Sunar River upto last boundary are of Municipal.

**South**—Boundary line of Lakhroni Gate houses upto Jain Temple of Semra Wale.

**West**—Kailash Jain's house to Railway quarter and including Semra Wale's Temple to Nanhe Bhai Tiwari's house to Babulal Dubey's building to Bichni Nala upto last boundary of Municipal.

#### **Ward No. 02—Netaji Subhash Chand Bose Ward**

**North**—From Rajjan Malaiya house to Sita Ram Basore house.

**East**—From Sita Ram Basore house to Kapure Ahirwar house.

**South**—From High School Building to Kapure Ahirwar house.

**West**—From Lakhroni Railway Gate to High School Building.

#### **Ward No. 03—Rani Durgawati Ward**

**North**—High School Gate to Khare Master include Dr. M. P. Patel's Bagicha upto Municipal last Boundaries.

**East**—Mr. M. P. Patel's Bagicha to Barelal Singha Sahus house.

**South**—Shop of Mr. Shyam Bihari to Ramesh Sahus house.

**West**—High School Gate to Shyam Bihari New constructed shop.

#### **Ward No. 04—Yaga Shala Ward**

**North**—Manohar Lal Phatta shop to Nanha Bhai Yadav house.

**East**—Goberdhan Sahus house to Nanhu Raikwar's House.

**South**—Ratanchand Jain House upto Nanhu Raikwar House.

**West**—Manohar Phatta house to Ratan Chand Jain house.

#### **Ward No. 05—Ambedkar Ward**

**North**—Raghunandan Kurmi house to Parch Kodi house including Khajera Kher Mandir upto last boundary area of Municipal.

**East**—House of Ramdas to include Tank to last boundary area of Municipal.

**South**—Tula Ladia house of Pachkodi Ladia House including Khegara Kher Mandir and last boundary are of Municipal.

**West**—Raghunandan Kurmi house to Tula Ladia house.

#### **Ward No. 06—Mahaveer Ward**

**North**—From house of Baralal to Dr. M. Patel, house.

**East**—From house of Nandari Wale to Chaturbhuj house.

**South**—Rampratap Paranic house to Chaturbhuj house.

**West**—Kamlesh Maliyas house to Rampratap Porani house.

#### **Ward No. 07—Mahatma Gandhi Ward**

**North**—Subhash Jain's house to Kamal Kurmi house.

**East**—Kamal Kurmis Bagicha to Baijnath Patwaris Bagicha.

**South**—Prakash Surakha house to Baijnath Patwaris Bagicha.

**West**—Subhash Jains house to Sureka's house.

#### **Ward No. 08—Vivekanand Ward**

**North**—From Vishwanath Temple to Nathu Patel House.

**East**—From Nathu Jabar to Kher Mata Sair.

**South**—From Anant Ram Prajapati include Kher Mata Temple last area of the Sair to Aalapur Village Revenue boundary.

**West**—From Vishwanath Temple to Anant Ram Prajapati house.

**Ward No. 09—Maharani Laxmi Bai Ward**

**North**—From West side of Gadakota Road Mohanlal Branch including, Tulsi Sen to last boundary of Municipal Area. And from East side Gadakota Road include Nathu Sonakiya. Brijlal Patel House to last boundary of Municipal area & Kher Mata Mandir.

**East**—From Kher Mata Sair include Brijlal Patel house Badri Patel house to last boundary of Municipal area.

**South**—From Pakhu Patel Bagicha include Rajjan house to last boundary of Municipal area.

**West**—From Tulsi Sen house to Lalti Bai house include last Boundary of Municipal council.

**Ward No. 10—Maharana Pratap Ward**

**North**—Gopichand Jain house to Jagdish Shah.

**East**—Gopichand Jain house to Santosh house.

**South**—Santosh Sen house to Cross the Bhanak Nala and last boundary of Municipal.

**West**—Choota Tank to Jagdish Shah Bhajwa Patels Bagicha to last boundary of Municipal.

**Ward No. 11—Veer Shivaji Ward**

**North**—From Gannu Singhai house include Rajesh Sukla house to Raja Ram Gudariya house.

**East**—From Gannu Sighai house to Narayan Namdeo House.

**South**—From Narayan Namdeo house to Ganesh Ram Dubey house.

**West**—Ganesh Ram Dubey house to Rajaram Gadariya house.

**Ward No. 12—Lal Bahadur Shastri Ward**

**North**—From Ganshu Patel House to Mithu Jain House.

**East**—From Mithu Jain house include Shanka Luhar house Jujhar Nema house to Sita Ram Soni house.

**South**—From Sita Ram Soni house include Kashi Nath Rao Aapte house to Ravi Shankar Kurmi house.

**West**—From Ravishankar Kurmi house include Barelal Patel house to Ganshu Patel House.

**Ward No. 13—Pt. Ravi Shankar Ward**

**North**—From Baburam Khatiks house to Awaedesh Barganics house.

**East**—From Awadesh Badgaiya house to Darwari Chourasiya house including to Munna Khan house.

**South**—Dhaniram Khatik's to Jagdish Shala.

**West**—Western Angle to Sekh Subhan's Sainiti boundary.

**Ward No. 14—Indra Gandhi Ward**

**North**—Krishi Upaj Mandi Samiti to Kamals Bagicha and last boundary area of Municipal.

**East**—Krishi Upaj Mandi Samiti Ground to Hiralal Mehatar house & Last Boundary of Municipal Council.

**South**—Last Boundary of Municipal Council include Scheduled Cast Boys Hostel to Buddhu Mehter's house.

**West**—Scheduled Cast Boys Hostel to include Karasdev to last boundary area of Municipal.

**Ward No. 15—Madhav Rao Shapre Ward**

**North**—Bal Mukund Nemas house to Mannu Phattas house upto Ganpat Patwari house.

**East**—Bal Mukund Nemas house to Mannu Phattas House including Sanjay Chouraha to upto Ravishankar Marg.

**South**—Ravishankar Marg to T. C. Tiwari's House and upto Apsharis Bagams house.

**West**—From house of Apsharis Bagams include Police Station Ganpat Patwari house upto Municipal area.

SWATANTRA KUMAR SINGH, Collector.

दमोह, दिनांक 13 जून 2014

क्र. 305-ब.लि.-1-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-2004, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कलेक्टर, जिला दमोह, नगर परिषद् पटेरा, जिला दमोह में वार्डों के परिसीमन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ:—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2	महात्मा गांधी वार्ड
3	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
4	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
5	पं. दीन दयाल उपाध्याय वार्ड
6	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	विनोवा भावे वार्ड
8	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
9	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
10	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
11	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
12	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
13	शहीद भगत सिंह वार्ड
14	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
15	रानी दुर्गावती वार्ड

### वार्ड की सीमाओं में सम्मिलित क्षेत्र

#### वार्ड क्रमांक 01—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

सिविल लाइन पशु चिकित्सालय से बस स्टैण्ड से हटा तिगड्डा, चौपरा रोड, रेस्ट हाउस से बस स्टैण्ड.

#### वार्ड क्रमांक 02—महात्मा गांधी वार्ड

बस स्टैण्ड से वाया हटा तिगड्डा.

#### वार्ड क्रमांक 03—पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

हटा तिगड्डा से कुण्डलपुर रोड उत्तरी भाग, ठाकुर टपरियां, हरिजन टपरिया, गोपतला, पडरी रोड से पेट्रोल पम्प तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

शीतला माता के नीचे का क्षेत्र, चौरसिया मुहल्ला, सोनी मुहल्ला.

#### वार्ड क्रमांक 05—पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

खाले मुहल्ला, बडकुल मुहल्ला.

#### वार्ड क्रमांक 06—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

बडकुल मुहल्ला, पुराना बाजार, कुरयाना.

#### वार्ड क्रमांक 07—विनोवा भावे वार्ड

हरिजन मुहल्ला.

#### वार्ड क्रमांक 08—सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

हरिजन मुहल्ला, अंबिका मुहल्ला, वन चौकी.

#### वार्ड क्रमांक 09—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

एम.पी.ई.बी. कालोनी, रमपुरा टपरिया, रसूलगंज.

#### वार्ड क्रमांक 10—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

रसूलगंज, चौबे मुहल्ला, कुम्हार मुहल्ला, जामा मस्जिद, बंशी वालों का मंदिर.

#### वार्ड क्रमांक 11—सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

पुराना बाजार, ऊपर की रास्ता.

#### वार्ड क्रमांक 12—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

शीतला माता मंदिर, बड़ा जैन मंदिर, शोभानगर.

#### वार्ड क्रमांक 13—शहीद भगत सिंह वार्ड

शोभानगर.

#### वार्ड क्रमांक 14—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

शोभानगर, हरिजन मुहल्ला.

#### वार्ड क्रमांक 15—रानी दुर्गावती वार्ड

गुडयाना मुहल्ला, बडी खोह.

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.

Damoh, the 13th June 2014

No. 305-S.C.-1-2014.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, (No. 37 of 1961) under Section 29 sub-section (1) and Notification of the Minister of Urban Administration and Development Department Madhya Pradesh, Bhopal No. 4-520-18-3-204, dated 24 Feb. 2004 Collector Distt. Damoh declare the extent of ward of **Nagar Parishad Patara**, Distt. Damoh as per Schedule given below:—

SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Chandra Shekhar Azad Ward
2	Mahatma Gandhi Ward
3	Jawahar Lal Nehru Ward
4	Shyama Prasad Mukharji Ward
5	Pt. Deendayal Upadhyay Ward
6	Lal Bahadur Shastri Ward
7	Vinoba Bhawe Ward
8	Subhashchandra Bose Ward
9	Moulana Abul Kalam Azad Ward
10	Dr. Jakir Husain Ward
11	Sardar Ballav Bhai Patel Ward
12	Dr. Rajendra Prasad Ward
13	Shaheed Bhagat Singh Ward
14	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
15	Rani Durgawati Ward

**Insert Area in Ward Boundaries**

**Ward No. 01—Chandra Shekhar Azad Ward**

Bus removed from the Animal Hospital Chaupra Tigdda Civil Line Road, Rest House to Bus Stand.

**Ward No. 02—Mahatma Gandhi Ward**

Bus removed from the market Tigdda.

**Ward No. 03—Jawahar Lal Nehru Ward**

Hatta Tigdda removed from the Northern part Kundalpur Road, Tpria, Harijan Tpria, Goptla Pderi road to the Petrol Pump.

**Ward No. 04—Shyama Prasad Mukhrji Ward**

The area under Sheetal Mata, Chaurasia locality and Soni locality.

**Ward No. 05—Deen Dayal Upadhyah Ward**

Khale Locality, Badkul Colony.

**Ward No. 06—Lal Bahadur Shastri Ward**

Badkul Colony, Old Market, Kuryana.

**Ward No. 07—Vinoba Bhawe Ward**

Harijan Colony.

**Ward No. 08—Subhas Chandra Bose Ward**

Harijan Colony, Ambika Colony, Forest Plaza.

**Ward No. 09—Moulana Abul Kalam Azad Ward**

M.P.E.B. Colony, Rampura Tapriya, Rasulganj.

**Ward No. 10—Dr. Jakir Husain Ward**

Rasulganj, Choubey localicity, Kumhar localicity, Jama Masjid, Banshi Temple of Members.

**Ward No. 11—Sardar Ballabh Bhai Patel Ward**

Old Market, Road of Upper.

**Ward No. 12—Rajendra Prasad Ward**

Temple of Sheetal Mata & Big Temple of Jain Mandir, Shobhanagar.

**Ward No. 13—Shaheed Bhagat Singh Ward**

Shobha Nagar Colony.

**Ward No. 14—Dr. Bheemrao Ambedkar Ward**

Shobha Nagar, Harijan Colony.

**Ward No. 15—Rani Durgawati Ward**

Gudyana Localicity, Badi Khoh.

SWATANTRA KUMAR SINGH, Collector.

## कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश

जिला/जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5(ब)

मन्दासौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 2678.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शशांक मिश्र, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

## सारणी

अनु- क्रमांक (1)	खण्ड का नाम (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम) (4)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	जनपद पंचायत भानपुरा	1	1. अंत्रालिया 2. ढाबला मनोहर 3. अरनियाभारु 4. दुधाखेड़ी	अ.जा. अ.ज.जा. अ. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 1 4 2 - 2 4
2	जनपद पंचायत भानपुरा	2	1. कंवला 2. सुजानपुरा 3. कैलाशपुर		
3	जनपद पंचायत भानपुरा	3	1. रायपुरिया 2. अरन्याचारण 3. सांदलपुर		
4	जनपद पंचायत भानपुरा	4	1. कुन्तलखेड़ी 2. परोनिया 3. सातलखेड़ी 4. हरनावदा		
5	जनपद पंचायत भानपुरा	5	1. बाबुल्दा 2. कुकड़ेश्वरा 3. टुंगनी		
6	जनपद पंचायत भानपुरा	6	1. लोटखेड़ी 2. मिट्टनखेड़ी 3. खजूरना		
7	जनपद पंचायत भानपुरा	7	1. नावली 2. धावदबुर्जुग		
8	जनपद पंचायत भानपुरा	8	1. कैथुली 2. ढाबला माधौसिंह		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	जनपद पंचायत भानपुरा	9	1. गोवर्धनपुरा 2. सानड़ा 3. निमथूर		
10	जनपद पंचायत भानपुरा	10	1. संधारा 2. कालाकोट		
11	जनपद पंचायत भानपुरा	11	1. रतनपुरा 2. ओसरना 3. पाँगा		
12	जनपद पंचायत भानपुरा	12	1. औसारा 2. लेदीकलां 3. कैसोदा 4. चौकी		
13	जनपद पंचायत भानपुरा	13	1. भैंसोदा		
14	जनपद पंचायत भानपुरा	14	1. गोविन्दखेड़ा 2. धुँआखेड़ी 3. बोरदा		
15	जनपद पंचायत भानपुरा	15	1. गाँधीसागर		
16	जनपद पंचायत भानपुरा	16	1. बड़ोदिया 2. प्रेमपुरिया 3. कोटड़ीटैंक 4. हमीरगढ़		

अनु. क्रमांक (1)	जनपद/ जिला का नाम (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	सीमा ग्राम पंचायत के नाम (4)	आरक्षित विवरण प्रवर्ग (5)	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या (6)
1	जनपद पंचायत मंदसौर	1	1. रेवासदेवड़ा 2. नौगांवा 3. कोचवी 4. गुजरदा 5. दाउदखेड़ी	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 6 2 0 3 7
2	जनपद पंचायत मंदसौर	2	1. माल्याखेड़ी 2. जमालपुरा 3. अचेरा 4. बादाखेड़ी 5. डोराना 6. गल्याखेड़ी 7. भरडावद		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	जनपद पंचायत मंदसौर	3	1. मुल्तानपुरा 2. रलायता 3. धारियाखेड़ी		
4	जनपद पंचायत मंदसौर	4	1. साबाखेड़ा 2. लालघाटी 3. गुराडियादेदा 4. सिन्दपन 5. जग्गाखेड़ी (मंदसौर) 6. ढिकोला		
5	जनपद पंचायत मंदसौर	5	1. अमलावद 2. भालोट 3. आधारीउर्फनिरधारी 4. टोलखेड़ी 5. रीछाबच्चा 6. सेतखेड़ी		
6	जनपद पंचायत मंदसौर	6	1. खिलचीपुरा 2. सेजपुरिया 3. अघोरिया 4. राजाखेड़ी		
7	जनपद पंचायत मंदसौर	7	1. मोहम्मपुरा 2. चांगली 3. अरनियानिजामुद्दीन 4. बोहराखेड़ी 5. पानपुर		
8	जनपद पंचायत मंदसौर	8	1. माल्याखेरखेड़ा 2. सेमली 3. उदपुरा 4. डिगांवमाली		
9	जनपद पंचायत मंदसौर	9	1. जग्गाखेड़ी (नाहरगढ़) 2. कोलवा 3. लिलदा 4. पिपल्याकराडिया 5. पाडल्यामारू 6. सूरी		
10	जनपद पंचायत मंदसौर	10	1. रठाना 2. लोध 3. पलवई 4. नेतावली 5. पालडी		
11	जनपद पंचायत मंदसौर	11	1. अफजलपुर 2. चिरमोलिया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. भाटरेवास 4. बिलांत्री 5. ईशाकपुर		
12	जनपद पंचायत मंदसौर	12	1. बडवन 2. झिरकन 3. झावल 4. गुदियाना		
13	जनपद पंचायत मंदसौर	13	1. गुर्जरबर्दिया 2. चिपलाना 3. लदूसा 4. रिण्डा		
14	जनपद पंचायत मंदसौर	14	1. धुंधड़का 2. लसुडावन 3. बावरेचा 4. बाग्या		
15	जनपद पंचायत मंदसौर	15	1. सेमलियाकाजी 2. कुचडौद 3. लाउखेडी 4. कटक्या 5. सिहोर		
16	जनपद पंचायत मंदसौर	16	1. रातीखेडी 2. पटलावद 3. लामगरी 4. भोलिया 5. हतुनिया 6. जोगीखेड़ा		
17	जनपद पंचायत मंदसौर	17	1. धमनार 2. निपानियाअफजलपुर 3. आक्याउमाहेडा 4. गुलियाना		
18	जनपद पंचायत मंदसौर	18	1. दलौदारेल 2. बानीखेडी 3. एलची 4. दलोदाचौपाटी		
19	जनपद पंचायत मंदसौर	19	1. सेमलियाहीरा 2. फतेहगढ़ 3. पाडलियालालमुंहा 4. राकोदा 5. जवासिया 6. गुराडियालालमुंहा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	जनपद पंचायत मंदसौर	20	1. करजू 2. आकोदडा 3. नंदावता 4. करनाखेडी		
21	जनपद पंचायत मंदसौर	21	1. भावगढ़ 2. कटलार 3. धंधोडा 4. बालोदिया		
22	जनपद पंचायत मंदसौर	22	1. गरोडा 2. बनी 3. मजेसरा 4. पटेला 5. सगवाली		
23	जनपद पंचायत मंदसौर	23	1. देहरी 2. चांदाखेडी 3. निम्बोद 4. रिछालालमुंहा 5. दलोदासगरा		
24	जनपद पंचायत मंदसौर	24	1. कचनारा 2. गुराडियास्याह 3. लसुडियाईला 4. सरसौद		
25	जनपद पंचायत मंदसौर	25	1. बेहपुर 2. नांदवेल 3. खजुरियासारंग 4. खोडाना		

अनु- क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित प्रवर्ग	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जनपद पंचायत गरोठ	1	1. खड़ावदा 2. सेमरोल 3. बरमा	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 0 6 3 0 3 7
2	जनपद पंचायत गरोठ	2	1. ढलमु 2. देथली बजुर्ग 3. देथलीखुर्द		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	जनपद पंचायत गरोठ	3	1. बालोदा 2. ढाबला मोहन 3. भामखेड़ी 4. उदल्याखेड़ी 5. मोलाखेड़ी खुर्द		
4	जनपद पंचायत गरोठ	4	1. चचावदा पठारी 2. मोलाखेड़ी बुजुर्ग 3. देवरिया 4. रलायती		
5	जनपद पंचायत गरोठ	5	1. एरिया 2. पिपलखेड़ा 3. बासगोन 4. सुरजना		
6	जनपद पंचायत गरोठ	6	1. गुराड़िया नरसिंह 2. पिपल्याराजा 3. पनवाड़ी 4. लसुड़िया		
7	जनपद पंचायत गरोठ	7	1. बरखेड़ा गंगासा 2. रणायरा 3. आक्याकुंवरपदा 4. पिपल्याजति		
8	जनपद पंचायत गरोठ	8	1. साठखेड़ा 2. खजुरीरूण्डा		
9	जनपद पंचायत गरोठ	9	1. बरखेड़ालोया 2. कुण्डालियाचरण दास 3. बंजारी (गरोठ)		
10.	जनपद पंचायत गरोठ	10	1. बर्डिया अमरा 2. गुराड़िया माता 3. दसौरिया 4. नारिया बुजुर्ग		
11	जनपद पंचायत गरोठ	11	1. पावटी 2. फूलखेड़ा 3. पिपल्या मोहम्मद 4. नलखेड़ा		
12	जनपद पंचायत गरोठ	12	1. कोटड़ा बुजुर्ग 2. चिकन्या 3. खजुरी दौड़ा		
13	जनपद पंचायत गरोठ	13	1. बोलिया 2. चांदखेड़ी खुर्द		
14	जनपद पंचायत गरोठ	14	1. कुरलासी 2. ढाकनी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. बर्डिया इस्तमुरार 4. पिपल्या मिट्टेशाह 5. बामनी		
15	जनपद पंचायत गरोठ	15	1. खजुरीपंथ 2. विशन्या 3. खारखेड़ा 4. हनुमंतिया		
16	जनपद पंचायत गरोठ	16	1. सुरजना जुना 2. बरखेड़ा राठौर 3. आकली दीवान 4. परासली दीवान		
17	जनपद पंचायत गरोठ	17	1. ढाबला गुर्जर 2. सेमलीशंकर 3. मकड़ावन 4. सालरिया		
18	जनपद पंचायत गरोठ	18	1. जमुनिया 2. सगोरिया 3. आकली शिवदास 4. कुण्डला खुर्द		
19	जनपद पंचायत गरोठ	19	1. मेलखेड़ा 2. बर्डिया पूना 3. पिछला		
20	जनपद पंचायत गरोठ	20	1. बघुनिया 2. पण्डेरिया 3. भुण्डिया 4. आगर		
21	जनपद पंचायत गरोठ	21	1. चंदवासा 2. बरखेड़ा नायक 3. तोलाखेड़ी		
22	जनपद पंचायत गरोठ	22	1. फरासली 2. बेरखेड़ी रेड़का 3. बर्डिया उंचा 4. हतुनिया		
23.	जनपद पंचायत गरोठ	23	1. असावती 2. बंजारी (चंदवासा) 3. भटुनी 4. किलगारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	जनपद पंचायत गरोठ	24	1. कुरावन 2. बनी 3. गरड़ा 4. बापच्या		
25	जनपद पंचायत गरोठ	25	1. धामनिया दीवान 2. बरखेड़ा उदा 3. टकरावद		

अनु- क्रमांक	जनपद/जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मल्हारगढ़	1	1. कनघट्टी 2. सेमली	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 1 6 3 0 3 7
2		2	1. उमरिया 2. बालागुडा 3. बरखेड़ा जयसिंह		
3		3	1. बही 2. सोकडी 3. खखराई		
4		4	1. निनौरा 2. सौनी 3. काचरिया नो		
5		5	1. मनासाखुर्द 2. बरखेड़ा देवडुगरी 3. मोल्याखेड़ी		
6		6	1. चगेरी 2. पहेडा 3. पिपल्या विशन्या 4. बोरखेड़ी		
7		7	1. हरसौल 2. बरूजना 3. मून्देडी		
8		8	1. झाडा 2. सोम्या		
9		9	1. गोपालपुरा 2. पिरगुराडिया 3. कितुखेड़ी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10		10	1. रणायरा 2. काचरिया कदमाला 3. ढाबला		
11		11	1. दोरवाडा 2. मुन्दडी 3. डोडियामीणा 4. सिंदपन		
12		12	1. बुढा 2. बादपर		
13		13	1. लिम्बावास 2. रिछा 3. तुर्किया 4. लसुडियाराठौर		
14		14	1. चिताखेड़ी 2. लूनहेडा 3. काचरिया चन्द्रावत		
15		15	1. सूठौद 2. गुडभेली 3. बरखेडापंथ		
16		16	1. बोतलगंज 2. थडोद 3. गोगरपुरा		
17		17	1. बैलारा 2. देवरी 3. कामलिया 4. बाबूखेड़ा		
18		18	1. संजीत 2. टिडवास		
19		19	1. हिंगोरिया बडा 2. पिपल्या रायसिंह 3. बरखेडा डांगी 4. रतन पिपल्या		
20		20	1. हाथीबोलिया 2. मगराना 3. आक्याबिका 4. खात्याखेड़ी		
21		21	1. गरनाई 2. अरन्या जटिया 3. दोबडा 4. सरवानिया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22		22	1. खुंटी 2. बिल्लोद 3. नापाखेड़ा		
23		23	1. पिपल्या जौधा 2. हिगोरिया छोटा 3. खडपाल्या		
24		24	1. अडमाल्या 2. आत्रीखुर्द 3. चिल्लोद पिपल्या		
25		25	1. टकरावद 2. गर्गावद 3. तलाव पिपल्या		

अनु- क्रमांक (1)	खण्ड/जिला का नाम (2)	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक (3)	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम) (4)	आरक्षित विवरण प्रवर्ग (5)	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या (6)
1	जनपद पंचायत सीतामऊ	1	1. नाहरगढ़	अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 - 6 3 0 3 6
2	जनपद पंचायत सीतामऊ	2	1. खजुरीचंद्रावत 2. झलारा 3. बेटीखेड़ी 4. कोटडाबहादुर		
3	जनपद पंचायत सीतामऊ	3	1. खक्करखेड़ी 2. कचनारा 3. खजुरीमाण्डा 4. सुठौं		
4	जनपद पंचायत सीतामऊ	4	1. क्यामपुर 2. खण्डेरिया काचर 3. बोलिया		
5	जनपद पंचायत सीतामऊ	5	1. नाटाराम 2. बडोद 3. बर्डियाबरखेड़ा 4. ऐरा		
6	जनपद पंचायत सीतामऊ	6	1. विशिनिया 2. धाकडपिपल्या		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. सेमलियारानी		
			4. चिकला		
			5. काचरिया		
7	जनपद पंचायत सीतामऊ	7	1. रणायरा		
			2. पायाखेडी		
			3. रामगढ़		
			4. गाडरिया		
8	जनपद पंचायत सीतामऊ	8	1. बाजखेडी		
			2. मोतिपुरा		
			3. कोटडामाता		
			4. अरन्यागोड		
9	जनपद पंचायत सीतामऊ	9	1. खजुरीगोड		
			2. खेताखेडा		
			3. सेदराकरनाली		
			4. रहीमगढ़		
			5. बोरखेडी जागीर		
10	जनपद पंचायत सीतामऊ	10	1. खेजडिया		
			2. लारनी		
			3. ढिकनिया		
			4. महुवी		
			5. महुवा		
11	जनपद पंचायत सीतामऊ	11	1. खेडा		
			2. गलियारा		
			3. सूर्याखेडा		
			4. मोरखेडा		
			5. तितरोद		
12	जनपद पंचायत सीतामऊ	12	1. लदुना		
			2. सूरखेडा		
			3. ढण्डेडा		
13	जनपद पंचायत सीतामऊ	13	1. रावटी		
			2. साखतली		
			3. लावरी		
			4. मुवाला		
			5. पतलासीकला		
			6. मुण्डला		
14	जनपद पंचायत सीतामऊ	14	1. सरगसेदरा		
			2. झांगरिया		
			3. खजुरीनाग		
			4. लसुडिया		
			5. भगोर		
			6. भारतपुरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	जनपद पंचायत सीतामऊ	15	1. नकेडिया 2. मानपुरा 3. राजनगर 4. सेदरामाता 5. सगोर		
16	जनपद पंचायत सीतामऊ	16	1. दीपाखेडा 2. साताखेडी 3. दलावदा 4. मेरियाखेडी		
17	जनपद पंचायत सीतामऊ	17	1. धतुरीया 2. गोपालपुरा 3. करंडिया 4. बैलारा 5. माउखेडा		
18	जनपद पंचायत सीतामऊ	18	1. अजयपुर 2. प्रतापपुरा 3. बर्डियागुर्जर 4. जमुनिया 5. ढाबलामहेश		
19	जनपद पंचायत सीतामऊ	19	1. गोवर्धनपुरा 2. धानडाखेडा 3. गुराडियाविजय 4. बसई		
20	जनपद पंचायत सीतामऊ	20	1. धलपट 2. गुराडियाप्रताप 3. कांटिया 4. टोकडा 5. देवरिया विजय		
21	जनपद पंचायत सीतामऊ	21	1. किशोरपुरा 2. कानाहेडा 3. जगदी 4. नाथुखेडी 5. ढाबलाभगवान 6. ढोढर		
22	जनपद पंचायत सीतामऊ	22	1. घसोई 2. चापाखेडी 3. तरनोद 4. धानखेडी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	जनपद पंचायत सीतामऊ	23	1. ढाबलादेवल 2. रुनाजा 3. गैलाना 4. सेमलीकाकड़		
24	जनपद पंचायत सीतामऊ	24	1. भैसोला 2. अंगारी 3. बोरखेडी 4. देवपुराबामनी 5. आम्बा		

अनु. क्रमांक	जनपद/जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मंदसौर	01 मल्हारगढ	1. गोगरपुरा 2. उमरिया 3. बरखेडाजयसिंह 4. सेमली 5. कमघट्टी 6. काचरियानौ 7. सूठोद 8. मोल्याखेडी 9. चंगेरी 10. बरखेडादेव 11. पहेडा 12. विशनियापिपल्या 13. मनासाखुर्द 14. सोम्या 15. हरसोल 16. बही 17. सोकडी 18. खंखराई 19. मुंदेडी 20. गुडभेली 21. निनौरा 22. सोनी 23. बालागुडा 24. बोरखेडी 25. बरखेडापंथ	अ.जा. अ.ज.जा. अ. पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 1 4 1 - 2 5
2	मंदसौर	2 मल्हारगढ	1. बुढा 2. बादपुर 3. तलाब पिपल्या 4. तुर्किया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. लिम्बावास		
			6. लसुडियाराठौर		
			7. कामलिया		
			8. मुंदडी		
			9. डोडियामीणा		
			10. देवरी		
			11. बाबुखेडा		
			12. बोटलगंज		
			13. बरूजना		
			14. कितुखेडी		
			15. काचरिया चंद्रावत		
			16. लुनाहेडा		
			17. झार्डा		
			18. गोपालपुरा		
			19. रीछा		
			20. बैलारा		
			21. पीरगुराडिया		
			22. अडमालिया		
			23. ऑत्रीखुर्द		
			24. चीताखेडी		
			25. थडोद		
			26. चिल्लोद पिपल्या		
			27. खडपालिया		
03	मंदसौर	03	1. छोटाहिगोरिया		
		मल्हारगढ	2. टकरावद		
			3. दोबडा		
			4. सरवानिया		
			5. संजीत		
			6. हिगोरियाबडा		
			7. टिडवास		
			8. बरखेडाडॉंगी		
			9. मगराना		
			10. आक्याबीका		
			11. जोधापिपल्या		
			12. नापाखेडा		
			13. रणायरा		
			14. बिल्लोद		
			15. रतनपिपल्या		
			16. खूंटी		
			17. खात्याखेडी		
			18. पिपलियारायसिंह		
			19. गरावद		
			20. गरनाई		
			21. हाथीबोलिया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			22. दोरवाडा		
			23. अरनिया जटिया		
			24. काचरिया कदमाला		
			25. ढाबला		
			26. सिंदपन		
04	मंदसौर	04 मंदसौर	1. रेवास देवडा		
			2. नौगोंव		
			3. कोचवी		
			4. गुजरदा		
			5. धारियाखेडी		
			6. रलायता		
			7. मुल्तानपुरा		
			8. गुराडियादीदा		
			9. सिंदपन		
			10. साबाखेडा		
			11. जग्गाखेडी मंदसौर		
			12. लालघाटी		
			13. ढिकोला		
			14. मोहम्मदपुरा		
			15. चोंगली		
			16. पानपुर		
			17. सेमली		
			18. उदपुरा		
			19. कोलवा		
			20. पाडलियामारू		
			21. लिलदा		
			22. पिपलिया कराडिया		
			23. माल्याखेरखेडा		
			24. सूरी		
			25. जग्गाखेडी नाहरगढ़		
			26. बोहराखेडी		
05	मंदसौर	05 मंदसौर	1. भरडावद		
			2. जमालपुरा		
			3. माल्याखेडी		
			4. अचेरा		
			5. बादाखेडी		
			6. भालोट		
			7. सेजपुरिया		
			8. बाग्या		
			9. राजाखेडी		
			10. रीछाबच्चा		
			11. अघोरिया		
			12. खिलचीपुरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			13. सेतखेडी		
			14. अरनिया निजामुदीन		
			15. डिगाँवमाली		
			16. पलवई		
			17. लोध		
			18. रठाना		
			19. नेतावली		
			20. चिरमोलिया		
			21. बिलांत्री		
			22. गुजरबर्दिया		
			23. गल्याखेडी		
			24. लदूसा		
			25. दाउदखेडी		
			26. चिपलाना		
			27. आधारी उर्फ निरधारी		
06	मंदसौर	06	मंदसौर	1. बाबरेचा	
				2. धुंधडका	
				3. पालडी	
				4. ईशाकपुर	
				5. अफजलपुर	
				6. गुदियाना	
				7. भाटरेवास	
				8. रिण्डा	
				9. लसुडावन	
				10. बडवन	
				11. झिरकन	
				12. झावल	
				13. जोगीखेडा	
				14. निपानिया अफजलपुर	
				15. हतुनिया	
				16. सेमलियाकाजी	
				17. कुचडोद	
				18. लाउखेडी	
				19. सिहोर	
				20. रातीखेडी	
				21. भोलिया	
				22. कटक्या	
				23. लामगरी	
				24. पटलावद	
07	मंदसौर	07	मंदसौर	1. डोराना	
				2. गुलियाना	
				3. धमनार	
				4. आक्याउमाहेडा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. दलौदासगरा		
			6. रीछालालमुँहा		
			7. पटेला		
			8. सरसोद		
			9. एलची		
			10. दलौदारेल		
			11. बानीखेडी		
			12. फतेहगढ		
			13. अमलावद		
			14. टोलखेडी		
			15. दलौदाचौपाटी		
			16. पाडलियालालमुँहा		
			17. गुराडियालालमुँहा		
			18. जवासिया		
			19. राकोदा		
			20. सेमलियाहीरा		
			21. कचनारा		
08	मंदसौर	08 मंदसौर	1. नंदावता		
			2. आकोदडा		
			3. करजू		
			4. कटलार		
			5. मजेसरा		
			6. गरोडा		
			7. देहरी		
			8. निम्बोद		
			9. सगवाली		
			10. बनी		
			11. चाँदाखेडी		
			12. खजुरियासारंग		
			13. बेहपुर		
			14. खोडाना		
			15. भाउगढ		
			16. धंधोडा		
			17. नांदवेल		
			18. बालोदिया		
			19. गुराडियास्याह		
			20. करनाखेडी		
			21. लसुडियाईला		
09	मंदसौर	09 मंदसौर	1. नाहरगढ		
			2. खजुरीचंद्रावत		
			3. झलारा		
			4. बेटीखेडी		
			5. कचनारा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. खजूरीमाण्डा		
			7. शक्करखेडी		
			8. सूँठी		
			9. कयामपुर		
			10. नाटाराम		
			11. बडोद		
			12. खंडेरियाकाचर		
			13. बर्डियाबरखेडा		
			14. बोलिया		
			15. रणायरा		
			16. कोटडाबहादुर		
			17. पायाखेडी		
			18. सूर्याखेडा		
			19. धाकडपिपल्या		
			20. ऐरा		
			21. चिकला		
			22. मोरखेडा		
			23. खेडा		
			24. गलियारा		
10	मंदसौर	10	सीतामउ	1.	बाजखेडी
				2.	रामगढ
				3.	मोतीपुरा
				4.	गाडरिया
				5.	विशिनिया
				6.	कोटडमाता
				7.	खजूरीगौड
				8.	अरनियागौड
				9.	खेताखेडा
				10.	बोरखेडीजागीर
				11.	सेदराकरनाली
				12.	काचरिया
				13.	महुआ
				14.	महुवी
				15.	बैलारा
				16.	ढिकनिया
				17.	तितरोद
				18.	खेजडिया
				19.	लारनी
				20.	रहीमगढ
				21.	बसई
				22.	सेमलियारानी
				23.	अजयपुर
				24.	ढाबलामहेश
				25.	प्रतापपुरा
11	मंदसौर	11	सीतामउ	1.	लदूना



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. माउखेडा		
			3. रावटी		
			4. साखतली		
			5. मुंडला		
			6. मुवाला		
			7. लावरी		
			8. पतलासीकला		
			9. सरगसेदरा		
			10. झांगरिया		
			11. भगोर		
			12. लसुडिया		
			13. खजुरीनाग		
			14. मानपुरा		
			15. नकेडिया		
			16. भारतपुरा		
			17. मेरियाखेडी		
			18. सगोर		
			19. सेदरामाता		
			20. राजनगर		
			21. ढण्डेडा		
			22. साताखेडी		
			23. दलावदा		
			24. दीपाखेडा		
			25. धतुरिया		
			26. गोपालपुरा		
			27. करंडिया		
			28. सूरखेडा		
12	मंदसौर	12	सीतामड	1.	बरडियागुर्जर
				2.	जमुनिया
				3.	धलपट
				4.	धानडाखेडा
				5.	किशोरपुरा
				6.	कानाहेडा
				7.	जगदी
				8.	नाथूखेडी
				9.	टोकडा
				10.	गुराडियाप्रताप
				11.	सेमली कांकड
				12.	धानखेडी
				13.	ढाबलादेवल
				14.	घसोई
				15.	चापाखेडी
				16.	तरनोद
				17.	सेमली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			18. रूनीजा		
			19. गैलाना		
			20. आम्बा		
			21. देवपुराबामनी		
			22. अंगारी		
			23. बोरखेडी		
			24. भैसोला		
			25. ढाबलाभगवान		
			26. ढोढर		
			27. कांटिया		
			28. गुराडियाविजय		
			29. देवरियाविजय		
			30. गोरधनपुरा		
13	मंदसौर	13	गरोठ		
			1. खडावदा		
			2. सेमरोल		
			3. बरामा		
			4. चचावदा पठारी		
			5. ढलमू		
			6. खजूरीरुण्डा		
			7. बासगोर		
			8. बंजारी		
			9. लसुडिया		
			10. देवरिया		
			11. पिपलियाजती		
			12. पीपलखेडा		
			13. रलायती		
			14. देथलीबुजुर्ग		
			15. देथलीखुर्द		
			16. बरखेडागंगासा		
			17. पनवाडी		
			18. पिपलियाराजा		
			19. आक्याकुवरपदा		
			20. ऐरिया		
			21. रणायरा		
			22. साठखेडा		
			23. बर्डियाअमरा		
			24. दसोरिया		
			25. कुडलाखुर्द		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			26. मेलखेडा		
			27. मोलाखेडीबुजुर्ग		
			28. गुराडिया नरसिंह		
			29. सूरजना		
			30. बरखेडालोया		
14	मंदसौर	14	गरोठ	1.	बोलिया
				2.	नलखेडा
				3.	खारखेडा
				4.	चांदखेडी
				5.	विशनिया
				6.	खजूरीपंथ
				7.	आकलीदीवान
				8.	बरखेडाराठौर
				9.	परासलीदीवान
				10.	मकडावन
				11.	ढाबलागुर्जर
				12.	सुरजनाजूना
				13.	सगोरिया
				14.	समेलीशंकर
				15.	नारियाबुजुर्ग
				16.	आकली शिवदास
				17.	गुराडियामाता
				18.	कुरलासी
				19.	खजूरीदौडा
				20.	हनुमंत्या
				21.	कोटडाबुजुर्ग
				22.	चिकन्या
				23.	ढाकनी
				24.	पिपल्यामिठेशाह
				25.	कुडालिया
				26.	सालरिया
				27.	बामनी
				28.	फूलखेडा
				29.	पिपल्यामोहम्मद
				30.	पावटी
				31.	बरडियाइस्तमुरार
15	मंदसौर	15	गरोठ	1.	चंदवासा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. बगोनिया		
			3. पडेरिया		
			4. भुंडिया		
			5. आगर		
			6. परासली		
			7. मोलाखेडीखुर्द		
			8. बरडियाइस्तमुरारउंचा		
			9. बोरखेडी रेडका		
			10. तोलाखेडी		
			11. किलगारी		
			12. भटूनी		
			13. बरखेडानायक		
			14. बापच्या		
			15. बंजारी		
			16. गरडा		
			17. बनी		
			18. कुरावन		
			19. असावती		
			20. टकरावद		
			21. धामनियादीवान		
			22. बरखेडाउदा		
			23. जमुनिया		
			24. हतुनिया		
			25. पिछला		
			26. बरडियापूना		
			27. बालोदा		
			28. भामखेडा		
			29. उदल्याखेडी		
			30. ढाबलामोहन		
16	मंदसौर	16	भानपुरा	1.	अंत्रालिया
				2.	अरनियाभाउ
				3.	ढाबला मनोहर
				4.	कोहला
				5.	सुजानपुरा
				6.	कैलाशपुरा
				7.	रायपुरिया
				8.	अरनियाचारण
				9.	सांदलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			10. कुकडेश्वरा		
			11. हमीरगढ		
			12. बडोदिया		
			13. कोटडीटेंक		
			14. नावली		
			15. प्रेमपुरिया		
			16. धावदबुजुर्ग		
			17. गांधीसागर		
			18. कैथूली		
			19. ढाबलामाधोसिंह		
			20. सानडा		
			21. संधारा		
			22. कालाकोट		
			23. गोरधनपुरा		
			24. निमथूर		
17	मंदसौर	17 भानपुरा	1. दुधाखेडी		
			2. कुंतलखेडी		
			3. परोनिया		
			4. सातलखेडी		
			5. टुंगनी		
			6. हरनावदा		
			7. बाबुल्दा		
			8. मिठनखेडी		
			9. लोटखेडी		
			10. खजूरना		
			11. रतनपुरा		
			12. भैसोदा		
			13. ओसारा		
			14. लेदीकला		
			15. बोरदा		
			16. गोविन्दखेडा		
			17. पांगा		
			18. कैसोदा		
			19. चौकी		
			20. धुँआखेडी		
			21. औँसरना		

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत  
परिशिष्ट- 5 (अ)  
(खण्ड- मंदसौर)

दिनांक 08 मई 2014

क्रमांक-2678-मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नौगांवा	1	नौगांवा 1 से 26/1 तक	अ0जा0	4
2		2	28 से 49 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	53 से 85 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	86 से 102 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	103 से 122 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	126 से 150 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	151 से 172 तक	महिला सामान्य	3
8		8	173 से 202 तक		
9		9	203 से 234 तक		
10		10	234/1 से 256/1		
11		11	257 से 291 तक		
12		12	292 से 318 तक		
13		13	319 से अंत तक		
14		14	रिदवन 1 से 33 तक		
15	15	33क से अंत तक			
1	रेवासदेवडा	1	रेवासदेवडा 5 से 42 तक	अ0जा0	2
2		2	44 से 94 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	95 से 141 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	142 से 168 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	175 से 208 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	210 से 249 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	250 से 330 तक	महिला सामान्य	5
8		8	331 से 379 तक		
9		9	380 से 426 तक		
10		10	427 से 478 तक		
11		11	479 से 520 तक		
12		12	521 से 565 तक		
13		13	566 से 624 तक		
14		14	626 से 664 तक		
15		15	666 से 708 तक		
16		16	712 से अंत तक		
17	17	करोली 1 से 31 तक			

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
18		18	32 से 53 तक		
19		19	55 से 72 तक		
20		20	73 से अंत तक		
1	जमालपुरा	1	जमालपुरा 6 से 25 तक	अ0जा0	0
2		2	26 से 47 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	48 से 74 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	75 से 91 तक	महिला अ0जा0	0
5		5	92 से 110 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	112 से 125 अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	अचेरी 1 से 15/1 तक	महिला सामान्य	4
8		8	16 से 25/2 तक		
9		9	26 से 33/2 तक		
10		10	34 से 53 तक		
11		11	54 से 73 अंत तक		
1	माल्याखेडी	1	माल्याखेडी 1 से 22ग तक	अ0जा0	2
2		2	23 से 46 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	48 से 76 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	77 से 97 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	98 से 122 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	123 से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	गोरखेडी 1 से 30 तक	महिला सामान्य	2
8		8	31 से 64 तक		
9		9	65 से अंत तक		
10		10	बुचाखेडी 0 से 23 तक		
11		11	25 से 49 तक		
12		12	50 से अंत तक		
1	कोचवी	1	कोचवी- 1 से 22 तक	अ0जा0	1
2		2	25 से 46 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	51 से 76 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	77 से 100 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	101 से 125 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	126 से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	घटावदा- 1 से 33 तक	महिला सामान्य	1
8		8	34 से 51 तक		
9		9	52 से 86 तक		
10		10	88 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गुजरदा	1	3 से 29 तक	अ0जा0	1
2		2	30 से 60 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	61 से 86 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	87 से 125 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	126 से 146 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	147 से 175 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	178 से 199 तक	महिला सामान्य	4
8		8	202 से 228 तक		
9		9	230 से 264 तक		
10		10	267 से 285 तक		
11		11	286 से 299 तक		
12		12	300 से 317 तक		
13		13	320 से अंत तक		
1	भरडावद	1	1 से 16 तक	अ0जा0	1
2		2	19 से 39 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	42 से 70 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	72 से 102 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	106 से 125 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	126 से 152 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	153 से 185 तक	महिला सामान्य	2
8		8	186 से 213 तक		
9		9	215 से 256 तक		
10		10	260 से अंत तक		
1	रलायता	1	रलायता 1 से 32 तक	अ0जा0	6
2		2	33 से 77/7 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	78 से 98 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	100 से 122/1 तक	महिला अ0जा0	3
5		5	122/2 से 142 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	142क से 158/3 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	158क से 176 तक	महिला सामान्य	3
8		8	182 से 213 तक		
9		9	214 से 250 तक		
10		10	251 से 273 तक		
11		11	276 से 303/1 तक		
12		12	307 से 319 तक		
13		13	320 से 333 तक		
14		14	336 से 355 तक		
15		15	356 से 383 तक		
16		16	पित्याखेडीजागीर 1/1 से 32 तक		
17		17	33 से 63 तक		
18		18	64 से 102छ तक		
19		19	102ज से अंत तक		



अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आधारीउर्फनिरधारी	1	आधारीनिरधारी 2 से 21 तक	अ0जा0	4
2		2	22 से 43 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	44 से 60 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	61 से 90क तक	महिला अ0जा0	2
5		5	90ख से 136 अंततक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	सोनगरी 1 से 12 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	13 से 23क तक	महिला सामान्य	4
8		8	24 से 39 तक		
9		9	40 से 57क तक		
10		10	58 से 69 तक		
11		11	71 से 87ख तक		
12		12	88 से 103ग तक		
13		13	104 से 118ग तक		
14		14	119 से 137ग तक		
15		15	138 से अंत तक		
1	सेजपुरिया	1	2 से 16	अ0जा0	3
2		2	18 से 46	अ0ज0जा0	0
3		3	47 से 72	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	73 से 98	महिला अ0जा0	2
5		5	99 से 128क	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	129 से 146	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	147 से 171/2	महिला सामान्य	1
8		8	172 से 199		
9		9	200 से 214		
10		10	215 से 232		
11		11	233 से अंत तक		
1	दलोदारेल	1	4 से 64	अ0जा0	3
2		2	65 से 103	अ0ज0जा0	0
3		3	104 से 133ग	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	133घ से 166	महिला अ0जा0	2
5		5	167 से 199	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	201 से 234	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	234क से 273	महिला सामान्य	4
8		8	273क से 308		
9		9	310 से 347		
10		10	354 से 409		
11		11	410 से 435		
12		12	440 से 453		
13		13	454 से 462		
14		14	463 से 491		

492 से 499ख अंततक						
अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	बानीखेडी	1	बानीखेडी	1 से 40	अ0जा0	2
2		2		41 से 71	अ0ज0जा0	2
3		3		73 से 92	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4		93 से 117	महिला अ0जा0	1
5		5		118 से 151क	महिला अ0ज0जा0	1
6		6		152 से 164	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7		165 से 184	महिला सामान्य	4
8		8		186 से 200		
9		9		201 से 221		
10		10		222 से 240		
11		11	निम्बाखेडी	2 से 37		
12		12		40 से 69		
13		13		71 से 119		
14		14		120 से 159		
15		15		160 से 197अंततक		
1	फतेहगढ	1		1 से 40	अ0जा0	2
2		2		42 सं 66	अ0ज0जा0	1
3		3		69 से 91	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4		92 से 113	महिला अ0जा0	1
5		5		114 से 148	महिला अ0ज0जा0	1
6		6		150 से 171	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7		172 से 206क	महिला सामान्य	4
8		8		207 से 227		
9		9		228 से 257		
10		10		258 से 276		
11		11		277 से 300		
12		12		300क से 325		
13		13		326 से 356ख		
14		14		357 से 384		
15		15		384ख से 422 तक		
1	टोलखेडी	1	टोलखेडी	1 से 18	अ0जा0	3
2		2		19 से 37	अ0ज0जा0	1
3		3		38 से 59	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4		60 से 77	महिला अ0जा0	2
5		5		78 से 103	महिला अ0ज0जा0	1
6		6		105 से 127	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	नाईखेडी	1 से 38	महिला सामान्य	0
8		8	पिपलियामुजावर	4 से 13क		
9		9		14 से 29		
10		10		30 से 43 अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	एलची	1	1 से 36	अ0जा0	3
2		2	37 से 73	अ0ज0जा0	0
3		3	74 से 104	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	106 से 127	महिला अ0जा0	2
5		5	129 से 169	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	170 से 197	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	202 से 225	महिला सामान्य	4
8		8	226 से 258		
9		9	259 से 330		
10		10	330क से 366		
11		11	368 से 390क		
12		12	390ख से 394घ		
13		13	394च से 406		
14		14	407 से 428		
15		15	429 से 447 तक		
1	पाडलियालालमुंहा	1	1 से 18	अ0जा0	3
2		2	19 से 45	अ0ज0जा0	0
3		3	45ख से 69क	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	70 से 82	महिला अ0जा0	2
5		5	83 से 113	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	114 से 134	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	135 से 153	महिला सामान्य	1
8		8	155 से 175क		
9		9	176 से 183		
10		10	183क से अंततक		
1	सेमलियाहीरा	1	2 से 51	अ0जा0	3
2		2	52 से 79	अ0ज0जा0	0
3		3	80 से 111	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	112 से 149	महिला अ0जा0	2
5		5	151 से 169	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	170 से 199	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	200 से 240	महिला सामान्य	5
8		8	248 से 268		
9		9	269 से 286		
10		10	287 से 334ख		
11		11	335 से 350		
12		12	350क से 372		
13		13	373 से 402		
14		14	403 से 416		
15		15	417 से 433		
16		16	436 से 456		
17		17	457 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गरोडा	1	2 से 39ग	अ0जा0	6
2		2	43 से 59	अ0ज0जा0	1
3		3	60 से 75ग	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	76 से 118	महिला अ0जा0	3
5		5	121 से 140घ	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	141 से 171	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	172 से 192क	महिला सामान्य	3
8		8	193 से 219ख		
9		9	220 से 251		
10		10	255 से 276		
11		11	277 से 298		
12		12	299 से 324घ		
13		13	325 से 359		
14		14	360 से 395		
15		15	396 से 422		
16		16	423 से 455		
17		17	456 से 470 अंत तक		
1	चांदाखेडी	1	1 से 31	अ0जा0	1
2		2	33 से 50	अ0ज0जा0	0
3		3	52 से 84/3	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	88 से 109	महिला अ0जा0	1
5		5	110 से 146	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	147 से 174	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	175 से 197	महिला सामान्य	3
8		8	198 से 222क		
9		9	223/1 से 248		
10		10	249/1 से 265		
11		11	267 से 366ख		
12		12	366ग से अंततक		
1	दलौदाचौपाटी	1	1 से 67	अ0जा0	4
2		2	68 से 190	अ0ज0जा0	1
3		3	191 से 289	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	290 से 434	महिला अ0जा0	2
5		5	435 से 537	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	538 से 618	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	619 से 707	महिला सामान्य	4
8		8	708 से 790		
9		9	791 से 867		
10		10	868 से 949		
11		11	950 से 1018		
12		12	1019 से 1100		
13		13	1101 से 1198		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14		14	1199 से 1282		
15		15	1283 से 1366		
16		16	1367 से 1449		
17		17	1450 से 1561		
18		18	1562 से 1647		
19		19	1648 से 1734		
20		20	1735 से अंततक		
1	कटलार	1	कटलार 1 से 32	अ0जा0	2
2		2	33 से 70	अ0ज0जा0	5
3		3	71 से 109	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	109/3 से 156	महिला अ0जा0	1
5		5	158 से 203	महिला अ0ज0जा0	3
6		6	203/1 से 257	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	258 से अंत तक	महिला सामान्य	3
8		8	पीपलखेडी 1 से 26		
9		9	27 से 55		
10		10	56 से 85		
11		11	87 से 114/1		
12		12	116 से अंततक		
13		13	माउखेडी 1 से 34		
14		14	35 से 68ख		
15		15	70 से 85ख		
16		16	87 से 124		
17		17	125 से अंत तक		
18		18	चौसला 1 से 28		
19		19	29 से 66ख		
20		20	67 से अंत तक		
1	करजू	1	1 से 59	अ0जा0	3
2		2	60 से 97	अ0ज0जा0	2
3		3	98 से 146	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	146ख से 176	महिला अ0जा0	2
5		5	177 से 204	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	205 से 227	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	228 से 257	महिला सामान्य	4
8		8	258 से 302क		
9		9	306 से 361		
10		10	361क से 400		
11		11	403 से 456		
12		12	464 से 526		
13		13	530 से 536ग		
14		14	539 से 567		
15		15	569 से 611		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16		16	613 से 641		
17		17	642 से 677		
18		18	678 से 705		
19		19	706 से 719		
20		20	720 से अंत तक		
1	करनाखेडी	1	करनाखेडी 1 से 7ख	अ0जा0	3
2		2	8 से 66	अ0ज0जा0	1
3		3	66/1 से 116	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	117 से 137	महिला अ0जा0	2
5		5	138 से 153	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	154 से 171/1	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	174 से 220	महिला सामान्य	4
8		8	225 से 268		
9		9	270 से 315		
10		10	316/2 से 343		
11		11	347 से 357		
12		12	359 से 379		
13		13	381 से 397क		
14		14	397ख से 416		
15		15	416क से अंत तक		
16		16	मंगरोला 1 से 30		
17		17	31 से 65/1		
18		18	66 से अंत तक		
1	नंदावता	1	1 से 36	अ0जा0	3
2		2	38 से 62	अ0ज0जा0	2
3		3	63 से 91	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	92 से 122	महिला अ0जा0	2
5		5	123 से 147ग	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	147घ से 178	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	178क से 208	महिला सामान्य	4
8		8	212 से 243		
9		9	244 से 269घ		
10		10	270 से 293क		
11		11	294 से 333		
12		12	334 से 361		
13		13	362 से 395		
14		14	395क से 420		
15		15	422 से 460		
16		16	461 से 482		
17		17	483 से 492घ		
18		18	492छ से 513ज		
19		19	513झ से 521क		
20		20	521ख से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	जवासिया	1	जवासिया 1 से 22	अ0जा0	4
2		2	23 से 52	अ0ज0जा0	3
3		3	56 से 78	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	79 से 99	महिला अ0जा0	2
5		5	100 से 137	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	138 से 170	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	171 से 204	महिला सामान्य	3
8		8	205 से 247		
9		9	248 से 292		
10		10	293 से 327		
11		11	331 से 346		
12		12	348 से 384		
13		13	385 से 418		
14		14	419 से 451		
15		15	453 से 486		
16		16	489 से 541/1		
17		17	541/2 से 562		
18		18	563 से 583		
19		19	584 से अंत तक		
20		20	ज्ञानपुरा 1 से अंत तक		
1	राकोदा	1	2 से 11क	अ0जा0	4
2		2	11ख से 21/1क	अ0ज0जा0	0
3		3	21/2क से 35	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	35क से 52	महिला अ0जा0	2
5		5	53 से 83	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	84 से 134	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	141 से 172	महिला सामान्य	4
8		8	172क से 198		
9		9	199 से 220		
10		10	221 से 249		
11		11	251 से 270		
12		12	271 से 321		
13		13	322 से 359		
14		14	360 से 390		
15		15	391 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजाखेडी	1	1 से 37	अ0जा0	2
2		2	37क से 60	अ0ज0जा0	1
3		3	66 से 94	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	98 से 119	महिला अ0जा0	1
5		5	120 से 154	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	155 से 175	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	176 से 201	महिला सामान्य	3
8		8	202 से 234		
9		9	234क से 258		
10		10	259 से 278		
11		11	279 से 305ख		
12		12	306 से अंत तक		
13		13	अजीजखेडी 1से अंत तक		
1	अमलावद	1	1 से 27ख	अ0जा0	2
2		2	27ग से 54	अ0ज0जा0	1
3		3	55 से 87	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	87क से 111	महिला अ0जा0	1
5		5	112 से 140	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	140क से 167	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	168 से 186	महिला सामान्य	5
8		8	187 से 236		
9		9	238 से 262		
10		10	263 से 280		
11		11	281 से 303		
12		12	304 से 328		
13		13	329 से 344		
14		14	345 से 388		
15		15	388क से 411ग		
16		16	417 से 446		
17		17	457 से 488		
18		18	488ख से 512		
19		19	513 से 535		
20		20	535क से अंत तक		
1	रीछाबच्चा	1	0 से 22ख	अ0जा0	4
2		2	25 से 35	अ0ज0जा0	0
3		3	37 से 56क	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	56ख से 94क	महिला अ0जा0	2
5		5	96 से 114	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	116 से 139	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	141 से 166	महिला सामान्य	1
8		8	170 से 239		
9		9	240 से 257		
10		10	258 से अंत तक		



अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	डोराना	1	डोराना 1 से 14	अ0जा0	1
2		2	15 से 34	अ0ज0जा0	1
3		3	35 से 54	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	56 से 79/2	महिला अ0जा0	1
5		5	80 से 110	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	112 से 126/4	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	127 से 144क	महिला सामान्य	5
8		8	145 से 170		
9		9	175 से 191क		
10		10	193 से 205		
11		11	206 से 223		
12		12	224 से 246		
13		13	247 से 281ख		
14		14	290 से 306		
15		15	307 से 337		
16		16	डोराना+बरखेडी 340 से अंत तक		
17		17	सांकरिया 1 से अंत तक		
1	बादाखेडी	1	1 से 20	अ0जा0	0
2		2	21 से 35घ	अ0ज0जा0	0
3		3	37 से 57	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	61 से 94	महिला अ0जा0	0
5		5	95 से 116	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	118 से 134	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	135 से 154	महिला सामान्य	3
8		8	155 से 174		
9		9	175 से 195		
10		10	196 से अंत तक		
1	खिलचीपुरा	1	खिलचीपुरा 1 से 109	अ0जा0	2
2		2	110 से 191	अ0ज0जा0	0
3		3	192 से 275	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	276 से 304	महिला अ0जा0	1
5		5	305 से 365	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	366 से 464	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	466 से 493	महिला सामान्य	6
8		8	516क से 660		
9		9	661 से 736		
10		10	737 से 815		
11		11	816 से 885		
12		12	885क से 952		
13		13	953 से 1009		
14		14	1010 से 1032		
15		15	1033 से 1056		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16		16	1057 से 1087		
17		17	1091 से 1128		
18		18	1129 से 1288		
19		19	1289 से अंततक		
20		20	नालछा 4 से अंत तक		
1	आक्याउमाहेडा	1	आक्याउमाहेडा 1 से 35क	अ0जा0	4
2		2	38 से 68	अ0ज0जा0	1
3		3	69 से 117	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	119 से 159	महिला अ0जा0	2
5		5	164 से 240	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	241 से 303	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	305 से 348ड	महिला सामान्य	4
8		8	357 से 404क		
9		9	408 से 457क		
10		10	458 से 545		
11		11	546 से 561ख		
12		12	564 से 603ग		
13		13	606 से 649		
14		14	651 से 694		
15		15	695 से 735		
16		16	737 से 771अंततक		
17		17	इसबखेडी 1 से 16		
18		18	17 से 34		
19		19	35 से 57		
20		20	58 से 114 अंततक		
1	खजुरियासारंग	1	4 से 27	अ0जा0	2
2		2	28 से 56	अ0ज0जा0	4
3		3	60 से 82	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	83 से 120	महिला अ0जा0	1
5		5	121 से 152	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	153 से 189	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	191 से 219	महिला सामान्य	3
8		8	220 से 244		
9		9	245 से 281		
10		10	287 से 308		
11		11	308क से 326		
12		12	327 से 344		
13		13	345 से 367		
14		14	373 से 402क		
15		15	405 से 434क		
16		16	436 से 458ख		
17		17	463 से 477		
18		18	477क से 509ख तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खोडाना	1	1 से 25	अ0जा0	3
2		2	26 से 50	अ0ज0जा0	1
3		3	51 से 65	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	66 से 93क	महिला अ0जा0	2
5		5	95 से 114क	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	116 से 128	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	129 से 163	महिला सामान्य	1
8		8	165 से 193		
9		9	194 से 214		
10		10	216 से 238		
11		11	240 से 273		
12		12	274 से 277अंततक		
1	रीछालालमुंहा	1	8 से 29ग	अ0जा0	4
2		2	31 से 54क	अ0ज0जा0	1
3		3	60 से 109	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	110 से 142	महिला अ0जा0	2
5		5	143 से 180क	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	181 से 216	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	225 से 259	महिला सामान्य	4
8		8	263 से 302		
9		9	303 से 342		
10		10	343 से 366		
11		11	367 से 410		
12		12	410क से 441		
13		13	442 से 457क		
14		14	457ख से 473क		
15		15	474 से 524		
16		16	524क से 562		
17		17	565 से 618		
18		18	619 से 646एस		
19		19	657 से 681		
20		20	682 से 992 तक		
1	दलौदासगरा	1	दलौदासगरा 1 से 26क	अ0जा0	3
2		2	27 से 56	अ0ज0जा0	3
3		3	60 से 94ख	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	95 से 116	महिला अ0जा0	2
5		5	117 से 149	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	154 से 193	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	203 से 234	महिला सामान्य	2
8		8	236 से 267		
9		9	268 से 318		
10		10	319 से 348ड		
11		11	लखमाखेडी 1 से 25		

12 अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	12 वार्डों के क्रमांक 3	30 से 45 सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग 5	विवरण संख्या 6
13	दलौदासगरा	13	49 से 71		
14		14	72 से 113		
15		15	118 से 150		
1	कचनारा	1	2 से 19	अ0जा0	3
2		2	20 से 38	अ0ज0जा0	0
3		3	40 से 66	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	68 से 90क	महिला अ0जा0	2
5		5	91 से 128	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	130 से 151	महिला अन्य पिछडा	3
7		7	152 से 171	वर्ग	5
8		8	172 से 190	महिला सामान्य	
9		9	196 से 221		
10		10	222 से 247		
11		11	248 से 281		
12		12	282 से 319		
13		13	320 से 345		
14		14	348 से 362		
15		15	364 से 388		
16		16	389 से 421		
17		17	422 से 446		
18		18	447 से 473		
19		19	474 से 521		
20		20	522 से 689		
1	गुराडियास्याह	1	गुराडियास्याह 1 से 30	अ0जा0	6
2		2	31 से 55ख	अ0ज0जा0	2
3		3	57क से 78ग	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	79 से 110ख	महिला अ0जा0	3
5		5	111 से 149	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	150क से 177	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	178 से 191	महिला सामान्य	2
8		8	198 से 216ख		
9		9	217 से 232		
10		10	233 से 246ग		
11		11	पलासिया 1 से 20		
12		12	21 से 47घ		
13		13	50 से 82		
14		14	83 से 127		
15		15	128 से 139क		
16		16	140क से 164क		
17		17	165 से 184		
18		18	185 से 197घ		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग 5	विवरण संख्या 6
1	सरसोद	1	4 से 50ख	अ0जा0	1
2		2	51 से 81	अ0ज0जा0	0
3		3	83 से 103	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	104 से 119	महिला अ0जा0	1
5		5	120 से 134	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	136 से 157	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	160 से 174	महिला सामान्य	6
8		8	176 से 194क		
9		9	197 से 220		
10		10	223 से 238		
11		11	240 से 276		
12		12	278 से 305		
13		13	307 से 337		
14		14	338 से 365		
15		15	366 से 390		
16		16	391 से 416		
17		17	417 से 434		
18		18	435 से 459		
19		19	459क से 464ख		
20		20	464ग से 514अंत तक		
1	लसुडियाईला	1	2क से 23	अ0जा0	1
2		2	27 से 50	अ0ज0जा0	0
3		3	51 से 77	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	78 से 105	महिला अ0जा0	1
5		5	106 से 128	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	130 से 146	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	147 से 160क	महिला सामान्य	5
8		8	160ख से 182		
9		9	184 से 213		
10		10	214 से 230क		
11		11	232 से 255घ		
12		12	258 से 281		
13		13	282 से 305घ		
14		14	308 से 323क		
15		15	323ख से 336ट		
16		16	336/1ट से 336ढ तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रिण्डा	1	1 से 34घ	अ0जा0	5
2		2	35 से 54	अ0ज0जा0	0
3		3	55 से 80	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	81 से 101	महिला अ0जा0	3
5		5	102 से 125	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	126 से 159क	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	160 से 193ग	महिला सामान्य	4
8		8	194 से 213		
9		9	214 से 240ख		
10		10	241 से 274घ		
11		11	275 से 317/5		
12		12	318 से 328		
13		13	329 से 342		
14		14	343 से 360ख		
15		15	361 से 390क		
16		16	391 से 406		
17		17	407 से 425		
18		18	426 से 442		
19		19	443 से 465क		
20		20	466 से अंत तक		
1	पलवई	1	पलवई 1 से 23	अ0जा0	3
2		2	24 से 39	अ0ज0जा0	0
3		3	40 से 61	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	62 से अंत तक	महिला अ0जा0	2
5		5	पीपलखूंटा 1 से 20	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	21 से 41	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	42 से 62	महिला सामान्य	2
8		8	63 से 81		
9		9	82 से 108		
10		10	109 से 125		
11		11	126 से अंत तक		
1	गुलियाना	1	1 से 23	अ0जा0	3
2		2	24 से 48	अ0ज0जा0	0
3		3	50 से 76	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	77 से 102	महिला अ0जा0	2
5		5	103 से 134	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	135 से 152	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	153 से 174	महिला सामान्य	2
8		8	175 से 205		
9		9	206 से 232		
10		10	235 से 247घ		
11		11	248 से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग 5	विवरण संख्या 6
1	गुजरबर्दिया	1	1 से 18	अ0जा0	4
2		2	18क से 50	अ0ज0जा0	0
3		3	51 से 96	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	96क से 135	महिला अ0जा0	2
5		5	136 से 185	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	186 से 232	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	233 से 292	महिला सामान्य	5
8		8	293 से 354		
9		9	355 से 396		
10		10	396क से 440		
11		11	441 से 469		
12		12	470 से 498		
13		13	499 से 532		
14		14	533 से 566		
15		15	567 से 624		
16		16	625 से 676		
17		17	676क से 733		
18		18	734 से 780		
19		19	780क से 813		
20		20	814 से अंत तक		
1	लदूसा	1	लदूसा 1 से 12	अ0जा0	5
2		2	13 से 29	अ0ज0जा0	0
3		3	29क से 37	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	38 से 63	महिला अ0जा0	3
5		5	63 से 88	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	89 से 119	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	120 से 153	महिला सामान्य	4
8		8	154 से 182		
9		9	183 से 215		
10		10	216 से 239		
11		11	240 से 256		
12		12	257 से 286		
13		13	287 से अंत तक		
14		14	पिण्डा 1 से 4ख		
15		15	5 से 39ध		
16		16	40 से 53		
17		17	54 से 74		
18		18	75 से 98		
19		19	99 से 133		
20		20	134 से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	बाग्या	1	बाग्या 1 से 30	अ0जा0	4
2		2	31 से 62	अ0ज0जा0	0
3		3	63 से 81	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	82 से 110	महिला अ0जा0	2
5		5	111 से 130	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	131 से 148	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	149 से 172	महिला सामान्य	3
8		8	173 से अंत तक		
9		9	छायन 1 से 34		
10		10	34क से अंत तक		
11		11	मोरखेडा 1 से 16		
12		12	17 से 35		
13		13	36 से 64		
14		14	65 से अंत तक		
1	चिपलाना	1	चिपलाना 1 से 26	अ0जा0	3
2		2	27 से 40	अ0ज0जा0	0
3		3	41 से 70ख	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	71 से 82	महिला अ0जा0	2
5		5	83 से 99	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	101 से 117	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	119 से 137	महिला सामान्य	4
8		8	138 से 169		
9		9	171 से 192		
10		10	193 से 214		
11		11	217 से अंत तक		
12		12	लुहारीशोख 1 से अंत तक		
13		13	लुहारीश्रीपत 1 से 13		
14		14	14 से 33		
15		15	34 से अंत तक		
1	भाटरेवास	1	1 से 27	अ0जा0	2
2		2	28 से 46	अ0ज0जा0	0
3		3	47 से 69	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	70 से 112	महिला अ0जा0	1
5		5	113 से 137	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	139 से 163	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	166 से 188	महिला सामान्य	4
8		8	189 से 214		
9		9	218 से 245		
10		10	248 से 271		
11		11	273 से 299घ		
12		12	300 से 311क		
13		13	312 से अंत तक		



अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लसुडावन	1	1 से 16	अ0जा0	2
2		2	17 से 62	अ0ज0जा0	0
3		3	65क से 75	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	76 से 97	महिला अ0जा0	1
5		5	99 से 117	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	118 से 149	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	150 से 180	महिला सामान्य	5
8		8	180क से 214		
9		9	215 से 227		
10		10	228 से 237		
11		11	239 से 266		
12		12	270 से 297		
13		13	299 से 313ख		
14		14	314 से 333क		
15		15	335 से 363		
16		16	364 से 399		
17		17	400 से 441ग		
18		18	442 से अंततक		
1	बावरेचा	1	1 से 17	अ0जा0	2
2		2	18 से 44	अ0ज0जा0	0
3		3	45 से 75	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	76 से 94	महिला अ0जा0	1
5		5	95 से 115	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	116 से 136	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	137 से 157	महिला सामान्य	2
8		8	158 से 186		
9		9	187 से 213		
10		10	214 से अंत तक		
1	पालडी	1	पालडी 1 से 12ख	अ0जा0	3
2		2	13 से 29	अ0ज0जा0	0
3		3	31 से 59	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	60 से 85	महिला अ0जा0	2
5		5	86 से 116ख	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	117 से 143	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	144 से 172क	महिला सामान्य	4
8		8	173 से अंत तक		
9		9	धतुरिया 1 से 17		
10		10	18 से 40		
11		11	41 से 60		
12		12	61 से 80		
13		13	82 से 99		
14		14	100 से 113		
15		15	114 से 132		
16		16	133 से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग 5	विवरण संख्या 6
1	सगवाली	1	सगवाली 1क से 24	अ0जा0	0
2		2	26क से 38घ	अ0ज0जा0	1
3		3	39 से 52क	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	52ख से 73	महिला अ0जा0	0
5		5	74 से 98	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	99 से 112ख अंततक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	भण्डारिया 1ख से 16घ	महिला सामान्य	3
8		8	16च से 37		
9		9	38 से 55		
10		10	56 से 78		
11		11	79 से 93		
12		12	95 से 109 अंततक		
1	आकोदडा	1	1 से 9	अ0जा0	3
2		2	14 से 46क	अ0ज0जा0	2
3		3	52 से 90	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	91 से 109	महिला अ0जा0	2
5		5	109क से 123	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	124 से 154ग	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	160क से 205	महिला सामान्य	3
8		8	208 से 223		
9		9	225 से 239क		
10		10	239ख से 257ख		
11		11	260 से 303		
12		12	306 से 312क		
13		13	315 से 353		
14		14	354 से 372		
15		15	372ग से 416		
16		16	419 से 446झ		
17		17	446 से 456घ		
18		18	456च से 477घ		
1	निम्बोद	1	7 से 41	अ0जा0	3
2		2	42 से 83	अ0ज0जा0	2
3		3	84 से 113	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	113क से 137	महिला अ0जा0	2
5		5	138 से 167	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	168 से 211	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	212 से 257	महिला सामान्य	4
8		8	258 से 287क		
9		9	289 से 310		
10		10	312 से 352		
11		11	354 से 385		
12		12	386 से 421		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	निम्बोद	13	422 से 446ख		
14		14	448 से 471		
15		15	473 से 515		
16		16	517 से 554		
17		17	554क से 598		
18		18	599 से 610		
19		19	611 से 640		
20		20	641 से 698अंत तक		
1	बनी	1	1 से 33	अ0जा0	3
2		2	35 से 66	अ0ज0जा0	2
3		3	68 से 111	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	114 से 140	महिला अ0जा0	2
5		5	141 से 172	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	173 से 208	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	209 से 242	महिला सामान्य	4
8		8	245 से 277		
9		9	280 से 305क		
10		10	305ख से 337		
11		11	338 से 368		
12		12	368क से 403		
13		13	404 से 425		
14		14	426 से 471क		
15		15	475 से 531		
16		16	531क से 566		
17		17	567 से 592		
18		18	597 से 615		
19		19	620 से 651		
20		20	651क से अंततक		
1	भावगढ	1	1 से 23	अ0जा0	2
2		2	25 से 33घ	अ0ज0जा0	0
3		3	33च से 62क	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	62ख से 90क	महिला अ0जा0	1
5		5	91 से 118	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	119 से 146ग	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	148 से 168	महिला सामान्य	6
8		8	169 से 200		
9		9	201 से 224		
10		10	225 से 241		
11		11	241क से 259		
12		12	260 से 278क		
13		13	279 से 293		
14		14	294क से 311		
15		15	313 से 343ख		
16		16	346 से 375		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17		17	377 से 398ख		
18		18	402 से 421		
19		19	422 से 450		
20		20	452 से 472ख तक		
1	गुराडियादेदा	1	0 से 14ग	अ0जा0	2
2		2	17 से 44	अ0ज0जा0	1
3		3	45 से 71ख	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	72 से 98	महिला अ0जा0	1
5		5	99 से 126	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	127ग से 142	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	144 से 183	महिला सामान्य	3
8		8	184 से 212		
9		9	217 से 243		
10		10	244 से 269क		
11		11	270 से 287क		
12		12	295 से 347क		
13		13	348 से अंत तक		
1	गल्याखेडी	1	गल्याखेडी 1 से 30	अ0जा0	3
2		2	32 से 59	अ0ज0जा0	1
3		3	60 से 87	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	88 से 120	महिला अ0जा0	2
5		5	122 से 140 अंततक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	दिलावरा 1 से 17	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	18 से 29क	महिला सामान्य	1
8		8	31 से 55		
9		9	56 से 76		
10		10	77 से 101क अंततक		
1	भालोट	1	1क से 51	अ0जा0	2
2		2	54 से 81	अ0ज0जा0	0
3		3	84 से 149	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	149क से 208	महिला अ0जा0	1
5		5	213 से 245	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	247 से 288ख	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	297 से 318	महिला सामान्य	6
8		8	319 से 357क		
9		9	360 से 418		
10		10	418क से 449		
11		11	450 से 487		
12		12	488 से 519		
13		13	520 से 557		
14		14	562 से 601		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	भालोट	15	603 से 636		
16		16	639 से 681		
17		17	687 से 729		
18		18	730 से 807		
19		19	809 से 854		
20		20	855 से अंत तक		
1	बेहपुर	1	1 से 30क	अ0जा0	1
2		2	35 से 68क	अ0ज0जा0	2
3		3	73 से 118क	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	119 से 146	महिला अ0जा0	1
5		5	147 से 179	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	180 से 223	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	226 से 259	महिला सामान्य	5
8		8	261 से 289		
9		9	290 से 324		
10		10	326 से 363		
11		11	364 से 390क		
12		12	394 से 434		
13		13	435 से 468घ		
14		14	469 से 501क		
15		15	503 से 540		
16		16	541 से 581क		
17		17	584 से 625		
18		18	626 से 642		
19		19	643 से 676		
20		20	678 से अंत तक		
1	बालोदिया	1	बालोदिया 1 से 25	अ0जा0	0
2		2	26 से 49	अ0ज0जा0	6
3		3	50 से 90	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	91 से 103	महिला अ0जा0	0
5		5	104 से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	3
6		6	खेरोदा 131 से 154	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	155 से अंत तक	महिला सामान्य	0
8		8	हरदंघी 1 से 19		
9		9	20 से 36		
10		10	37 से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग 5	विवरण संख्या 6
1	नांदवेल	1	1 से 33	अ0जा0	2
2		2	34 से 62	अ0ज0जा0	3
3		3	64 से 95	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	96 से 136	महिला अ0जा0	1
5		5	138 से 159	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	160 से 197	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	199 से 243	महिला सामान्य	4
8		8	244 से 276ख		
9		9	279 से 289		
10		10	291 से 340		
11		11	342 से 374		
12		12	378 से 417		
13		13	418 से 446ख		
14		14	448 से 483		
15		15	484 से 527		
16		16	528 से 575		
17		17	577 से 600ख		
18		18	604 से 629		
19		19	637 से 679		
20		20	680 से अंत तक		
1	धंधोडा	1	1 से 13	अ0जा0	2
2		2	14 से 32क	अ0ज0जा0	3
3		3	33 से 55	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	56 से 83	महिला अ0जा0	1
5		5	85 से 105	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	106 से 140	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	141 से 166	महिला सामान्य	4
8		8	168 से 207		
9		9	208 से 223		
10		10	224 से 232ख		
11		11	233 से 253		
12		12	254 से 281		
13		13	282 से 311		
14		14	312 से 330		
15		15	331 से 353		
16		16	354 से 390		
17		17	391 से 410		
18		18	412 से 429		
19		19	431 से 462		
20		20	464 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	ईशाकपुर	1	ईशाकपुर 1 से 21क	अ0जा0	3	
2		2	21ख से 40	अ0ज0जा0	0	
3		3	41 से 73	अन्य पिछडा वर्ग	3	
4		4	73क से 96	महिला अ0जा0	2	
5		5	97 से 136	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	137 से 153	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	153क से 171	महिला सामान्य	2	
8		8	मुण्डला	1 से 25		
9		9		26 से 42		
10		10		43 से अंत तक		
11		11	लसुडी	1 से 33		
12		12		34 से अंत तक		
1	रठाना	1	रठाना 1 से 21क	अ0जा0	7	
2		2	22 से 50	अ0ज0जा0	0	
3		3	51 से 78क	अन्य पिछडा वर्ग	5	
4		4	78ख से 92	महिला अ0जा0	4	
5		5	93 से 111	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	112 से 125क	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3	
7		7	126 से 150	महिला सामान्य	3	
8		8	151 से 174ख			
9		9	175 से 195क			
10		10	196 से 244			
11		11	245 से 269ग			
12		12	269घ से 299			
13		13	300 से 331क			
14		14	331ख से 352			
15		15	353 से 355			
16		16	भटाना	1 से 28		
17		17		29 से 53		
18		18		54 से 78		
19		19		78क से अंत तक		
1	चिरमोलिया	1	चिरमोलिया 1 से 28	अ0जा0	2	
2		2	29 से 57	अ0ज0जा0	0	
3		3	58 से 93	अन्य पिछडा वर्ग	3	
4		4	94 से 136	महिला अ0जा0	1	
5		5	137 से 243तक	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	लच्छाखेड 1 से 21	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	22 से 40	महिला सामान्य	4	
8		8	41 से 75			
9		9	76 से 101			
10		10	102 से 134			
11		11	135 से 153			

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12		12	154 से 177		
13		13	177क से अंत तक		
1	सूरी	1	1 से 31	अ0जा0	5
2		2	32 से 58	अ0ज0जा0	0
3		3	59 से 76	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	77 से 108	महिला अ0जा0	3
5		5	109 से 136	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	137 से 159	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	160 से 182	महिला सामान्य	2
8		8	183 से 218		
9		9	220 से 247		
10		10	248 से 280		
11		11	281 से 302		
12		12	303 से 332		
13		13	333 से अंत तक		
1	माल्याखेरखेडा	1	माल्याखेरखेडा 1 से 30	अ0जा0	5
2		2	31 से 59क	अ0ज0जा0	1
3		3	59ख से 78	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	79 से 112	महिला अ0जा0	3
5		5	114 से 143	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	145 से 166	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	171 से 194ग	महिला सामान्य	3
8		8	195 से 218		
9		9	219क से 236		
10		10	240 से 256		
11		11	257 से 293		
12		12	295 से 331		
13		13	332 से 350		
14		14	352 से 381क		
15		15	382 से 429		
16		16	430 से अंत तक		
17		17	डिगांवखुर्द 1 से 45/2		
18		18	46 से 74		
19		19	76 से 95		
20		20	96 से अंत तक		



अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	डिगांवमाली	1	0 से 27	अ0जा0	8
2		2	28 से 66	अ0ज0जा0	0
3		3	66क से 92क	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	92ख से 101	महिला अ0जा0	4
5		5	102 से 127	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	128 से 151	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	152 से 171	महिला सामान्य	3
8		8	172 से 187		
9		9	190 से 204		
10		10	205 से 225		
11		11	226 से 250		
12		12	250क से 266		
13		13	269 से 285		
14		14	286 से 311		
15		15	312 से 332		
16		16	333 से 355		
17		17	356 से 376		
18		18	377 से 393		
19		19	394 से 410		
20		20	411 से 430		
1	धुंधडका	1	1 से 75	अ0जा0	2
2		2	76 से 144	अ0ज0जा0	1
3		3	145 से 203	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	204 से 272	महिला अ0जा0	1
5		5	273 से 332	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	333 से 385	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	386 से 433	महिला सामान्य	5
8		8	434 से 490		
9		9	491 से 553		
10		10	554 से 606		
11		11	607 से 664		
12		12	665 से 727		
13		13	728 से 792		
14		14	793 से 848		
15		15	849 से 930		
16		16	932 से 1005		
17		17	1006 से 1264		
18		18	1265 से 1308		
19		19	1309 से 1349		
20		20	1350 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अचेरा	1	अचेरा 1 से 22	अ0जा0	1
2		2	24 से 48	अ0ज0जा0	0
3		3	49 से 77	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	78 से 107/1	महिला अ0जा0	1
5		5	108 से 122	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	124 से 141	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	142 से 163	महिला सामान्य	4
8		8	163/1 से अंततक		
9		9	खजुरीबडायल 1 से 25		
10		10	27 से 52		
11		11	53 से 68		
12		12	70 से 708		
13		13	108/1 से 128		
14		14	129 से 169		
1	धमनार	1	धमनार 1 से 99 तक	अ0जा0	2
2		2	99से 142 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	143से 191 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	195से 259 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	260से 320 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	321 से बेघर अंततक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	371से 416 तक	महिला सामान्य	5
8		8	417से 477 तक		
9		9	478से 529 तक		
10		10	530से 560 तक		
11		11	561से 591 तक		
12		12	600से 640 तक		
13		13	641से 680क तक		
14		14	681से 723/1 तक		
15		15	727से 773 तक		
16		16	773क से 810 तक		
17		17	815 से 861 तक		
18		18	862 से 891 तक		
19		19	खेडा धमनार 01 से 49 तक		
20		20	51 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कटक्या	1	कटक्या 03 से 35 तक	अ0जा0	3
2		2	35से 51 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	52से 122 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	भाटपिपलिया 1से 13 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	14 से 27 / 1 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	29से 42 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	43से 54 तक	महिला सामान्य	2
8		8	55से अंत तक		
9		9	रानीखेडी 01 से 21 तक		
10		10	29से 54 / 1 तक		
11		11	55 से 115 तक		
1	हतुनिया	1	हतुनिया 1 से 49 तक	अ0जा0	5
2		2	50से 115 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	121से 164 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	165से 209 तक	महिला अ0जा0	3
5		5	209क से 241 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	243से 282 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	287से 353 तक	महिला सामान्य	3
8		8	354से 388 तक		
9		9	389से 434 तक		
10		10	435से 476 तक		
11		11	477से 509 तक		
12		12	511से अंत तक		
13		13	जमुनियामीणा 01से 17 तक		
14		14	18क से 42 तक		
15		15	42क से 60 तक		
16		16	61से 81 तक		
17		17	82 से 101 तक		
18		18	103 से 121ख तक		
19		19	123 से 219 तक		
1	निपानियाअफजलपुर	1	निपा.अफ. 1 से 33 तक	अ0जा0	8
2		2	34से 69 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	70से 90 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	91से 114 तक	महिला अ0जा0	4
5		5	115से 146 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	147से 174 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	175से 195 तक	महिला सामान्य	1
8		8	198से 224 तक		
9		9	225से 253 / 1 तक		
10		10	256 से अंत तक		
11		11	सिखेडी 01 से 22 तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
12	निपानियाअफजलपुर	12	23 से 45 तक		
13		13	46 से 69/1 तक		
14		14	70से अंत तक		
1	पटेला	1	पटेला 03 से 42 तक	अ0जा0	3
2		2	44से 69 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	69से 108 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	115क से 139 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	140से 177 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	178से 203 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	204से 252क तक	महिला सामान्य	3
8		8	253से 278क तक		
9		9	281ख से 302 तक		
10		10	303से 323 तक		
11		11	324 से 352क तक		
12		12	लालाखेडा 01 से 30क तक		
13		13	30ख से 56 तक		
14		14	58से 83 तक		
15		15	84से 106 तक		
16		16	107से 138 तक		
17		17	140 से 172 तक		
18		18	173 से 193 तक		
1	पटलावद	1	1 से 24 तक	अ0जा0	2
2		2	25से 45 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	46से 70 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	71से 90 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	91से 109 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	117से 137 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	141से 159 तक	महिला सामान्य	4
8		8	160 से 179ख तक		
9		9	179ग से 205क तक		
10		10	205ख से 222 तक		
11		11	223 से 232 तक		
12		12	233 से 251 तक		
13		13	252 से 265 तक		
14		14	266 से 280क तक		
15		15	283 से ड अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देहरी	1	02से 33 तक	अ0जा0	3
2		2	35से 60 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	61से 96 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	98से 143 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	144से 178 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	179से 205 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	206से 239 तक	महिला सामान्य	2
8		8	240से 270 तक		
9		9	272से 300 तक		
10		10	301से335 तक		
11		11	336 से 363 तक		
12		12	364से 396 तक		
13		13	397से 421 तक		
14		14	422से 497 तक		
1	लामगरी	1	लामगरी 1 से 16 तक	अ0जा0	5
2		2	18से 44 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	46से 78 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	79से 111क तक	महिला अ0जा0	3
5		5	113से 134 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	135 से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	लामगरा 01से 22 तक	महिला सामान्य	0
8		8	24से 35तक		
9		9	36से 50 तक		
10		10	51से 68 तक		
11		11	69से 85 तक		
12		12	86से. अंत तक		
1	मजेसरा	1	मजेसरा 1 से 26 तक	अ0जा0	4
2		2	27से 60 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	61से 86 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	87से 110 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	111से 128 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	129से 153 तक	महिला अन्य पिछडा	2
7		7	ताजखेडी 01से 31 तक	वर्ग	3
8		8	32से 67 तक	महिला सामान्य	
9		9	67से 106 तक		
10		10	107से 138 तक		
11		11	139से 171 तक		
12		12	173से.202 तक		
13		13	203से213 तक		
14		14	मजेसरी 09से 32 तक		
15		15	33से 60 तक		

16 अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	16 वार्डों के क्रमांक 3	61से 77 तक सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	लोध	1	लोध 01 से 18 तक	अ0जा0	6
2		2	19से 39 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	40से 58 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	59से 79 तक	महिला अ0जा0	3
5		5	80 से 107 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	108से 132 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	133से 156 तक	महिला सामान्य	3
8		8	157से 189 तक		
9		9	190से 221 तक		
10		10	222 से 242क तक		
11		11	242ख से 260 तक		
12		12	261से.284 तक		
13		13	285से 306 तक		
14		14	307से 325 तक		
15		15	326से 348 तक		
16		16	349से.अंत तक		
17		17	तिसाइ 01 से 15ग तक		
18		18	15घ से 28 तक		
19		19	28क से 47 तक		
20		20	47क से अंत तक		
1	अरनियानिजामुद्दीन	1	अर.निजामुद्दीन 01 से 24 तक	अ0जा0	3
2		2	25से 46 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	47से 67 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	68से 87 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	88 से 112 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	113से 154 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	155से 175 तक	महिला सामान्य	4
8		8	176से 196 तक		
9		9	197 से 224 तक		
10		10	225से 254 तक		
11		11	बाजखेडी 01से 16 तक		
12		12	17 से 28अंत तक		
13		13	29से 42 तक		
14		14	43से 59 तक		
15		15	60से 85 तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	नेतावली	1	नेतावली 1 से 20 तक	अ0जा0	4
2		2	21से 48 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	49से 66 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	67से 82 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	83 से 102 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	103से 121 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	122से 141 तक	महिला सामान्य	5
8		8	142से 160 तक		
9		9	161से 188 तक		
10		10	189से 238 तक		
11		11	रूपावली 01से 25 तक		
12		12	26 से 48अंत तक		
13		13	बांसाखेडी 01से 27 तक		
14		14	28से 42 तक		
15		15	43से 58 तक		
16		16	59से 79 तक		
17		17	80 से 94 अंत तक		
1	बिलांत्री	1	बिलांत्री 1 से 40 तक	अ0जा0	4
2		2	41से 75 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	76 से 100 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	100क से 123 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	124 से 153 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	154से 192 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	193से 223 तक	महिला सामान्य	4
8		8	224से अंत तक		
9		9	राणाखेडा 01से 21क तक		
10		10	22से 46 तक		
11		11	46कसे 74 तक		
12		12	75 से 103 तक		
13		13	104 से 122 तक		
14		14	123 से 151 तक		
15		15	152से 174 तक		
16		16	175से अंत तक		
17		17	कमालपुरा 01 से 31 तक		
18		18	32 से 66 तक		
19		19	67 से 94 तक		
20		20	95 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झावल	1	झावल 3 से 24	अ0जा0	6
2		2	25 से 52	अ0ज0जा0	0
3		3	54 से 72	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	73 से 96	महिला अ0जा0	3
5		5	97क से 112	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	113 से 133घ	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	134 से 157	महिला सामान्य	4
8		8	158 से 179क		
9		9	180 से 197		
10		10	198 से 217		
11		11	218 से 239		
12		12	240 से 262		
13		13	263 से 281		
14		14	281ख से 298		
15		15	299 से 384		
16		16	टाकेडा 1 से 15ग		
17		17	16 से 30		
18		18	32 से 46क		
19		19	47 से 56		
20		20	57 से 72		
1	गुदियाना	1	गुदियाना 1 से 29	अ0जा0	9
2		2	31 से 56	अ0ज0जा0	0
3		3	60 से 80	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	82 से 101	महिला अ0जा0	5
5		5	103 से 133	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	134 से 163	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	164 से 150	महिला सामान्य	2
8		8	झाकेडा 1 से 32		
9		9	33 से 62		
10		10	64 से 89		
11		11	89क से 121		
12		12	122 से 135		
13		13	139 से 161		
14		14	162 से 179		
15		15	181 से 199		
16		16	200 से 223		
17		17	तुमडावदा 4 से 29		
18		18	29क से 50		
19		19	51 से 69		
20		20	69क से 92		



अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	बडवन	1	बडवन 1 से 51	अ0जा0	4
2		2	54 से 90क	अ0ज0जा0	0
3		3	91 से 140	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	142 से 180	महिला अ0जा0	2
5		5	182 से 213	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	215 से 288	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	296 से 353	महिला सामान्य	5
8		8	360क से 397		
9		9	399 से 422		
10		10	445 से 487		
11		11	488 से 551		
12		12	553 से 622		
13		13	623 से 664		
14		14	667 से 705		
15		15	706 से 744		
16		16	747 से 789		
17		17	790 से 839		
18		18	840 से 870		
19		19	874 से 907		
20		20	मारुखेडी 1 से 56अंततक		
1	जोगीखेडा	1	जोगीखेडा 1 से 16	अ0जा0	5
2		2	17 से 34	अ0ज0जा0	1
3		3	35 से 55	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	56 से 77	महिला अ0जा0	3
5		5	78 से 93	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	94 से 109	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	109/1 से 122/2	महिला सामान्य	2
8		8	खजुरीआंजना 1 से 13क		
9		9	13ख से 29		
10		10	30 से 43		
11		11	44/1 से 80		
12		12	81 से 97		
13		13	99 से 112/1		
14		14	112/2 से 127/1		
15		15	128 से 142अंततक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग 5	विवरण संख्या 6
1	सेमलियाकाजी	1	सेमलियाकाजी 1 से 20	अ0जा0	4
2		2	21 से 36	अ0ज0जा0	0
3		3	38 से 67	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	68 से 85	महिला अ0जा0	2
5		5	86 से 100	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	101 से 118	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	119 से 149	महिला सामान्य	4
8		8	150 से 174		
9		9	175 से 194		
10		10	194क से 212		
11		11	213 से 241		
12		12	243 से 292		
13		13	293 से 311		
14	सातलखेडा	14	1 से 33		
15		15	34 से 62		
1	अफजलपुर	1	1 से 20	अ0जा0	3
2		2	20क से 35	अ0ज0जा0	0
3		3	36 से 65	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	66 से 86	महिला अ0जा0	2
5		5	86क से 122	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	127 से 145क	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	148 से 182	महिला सामान्य	5
8		8	186 से 217		
9		9	218 से 247क		
10		10	248 से 273		
11		11	274 से 297		
12		12	298 से 349		
13		13	350 से 377ख		
14		14	378 से 410		
15		15	412 से 433		
16		16	434 से 457		
17		17	458 से 498		
18		18	499 से 524		
19		19	525 से 552		
20		20	553 से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	कुचडौद	1	2 से 63	अ0जा0	3
2		2	67 से 120	अ0ज0जा0	0
3		3	125 से 181	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	182 से 239	महिला अ0जा0	2
5		5	239क से 323	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	325 से 378	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	379 से 437	महिला सामान्य	5
8		8	438 से 483		
9		9	484 से 526		
10		10	528 से 588		
11		11	591 से 642		
12		12	643 से 660		
13		13	684 से 727		
14		14	732 से 767		
15		15	770 से 806		
16		16	807 से 855		
17		17	856 से 910		
18		18	911 से 970		
19		19	971 से 1027		
20		20	1029 से अंत तक		
1	लाउखेडी	1	लाउखेडी 2 से 20ग	अ0जा0	5
2		2	21 से 34	अ0ज0जा0	1
3		3	35 से 68	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	70 से 90	महिला अ0जा0	3
5		5	अरनियागुर्जर 2 से 20ग	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	21 से 34	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	35 से 59	महिला सामान्य	0
8		8	60 से 82क		
9		9	83 से 97		
10		10	98 से 108		
11		11	भावता 2 से 34		
12		12	35 से अंत तक		
1	सीहोर	1	सीहोर 3 से 28	अ0जा0	3
2		2	30 से 45	अ0ज0जा0	0
3		3	46 से 65	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	69 से 85	महिला अ0जा0	2
5		5	87 से 132	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	133 से 164	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	166 से 188	महिला सामान्य	2
8		8	189 से 207		
9		9	208 से 208घ		
10		10	रणमाखेडी 1 से 27		
11		11	28 से 93		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	झिरकन	1	1 से 38	अ0जा0	3
2		2	40 से 75	अ0ज0जा0	0
3		3	78 से 103	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	104 से 140	महिला अ0जा0	2
5		5	143 से 171	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	172 से 213	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	214 से 254	महिला सामान्य	1
8		8	261 से 279		
9		9	280 से 311		
10		10	312 से 323अंत तक		
1	भोलिया	1	भोलिया 2 से 38	अ0जा0	4
2		2	39 से 74	अ0ज0जा0	1
3		3	76 से 92	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	93 से 119	महिला अ0जा0	2
5		5	121 से 151	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	152 से 181	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	182 से 215	वर्ग	3
8		8	217 से 250	महिला सामान्य	
9		9	251 से 274		
10		10	डांसिया 2 से 26		
11		11	27 से 45		
12		12	46 से 77		
13		13	79 से 87		
14		14	89 से 113		
15		15	114 से 127		
1	रातीखेडी	1	1 से 26	अ0जा0	4
2		2	27 से 48	अ0ज0जा0	0
3		3	49 से 79	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	80 से 105	महिला अ0जा0	2
5		5	106 से 131क	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	133 से 170	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	171 से 183क	महिला सामान्य	2
8		8	191 से 214		
9		9	215 से 250ग		
10		10	250घ से 276		
11		11	277 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोलवा	1	कोलवा 1 से 22	अ0जा0	3
2		2	23क से 37	अ0ज0जा0	0
3		3	38 से 57	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	58 से 73	महिला अ0जा0	2
5		5	73क से 95	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	96 से 117	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	118 से 142	महिला सामान्य	4
8		8	144 से 164		
9		9	165 से अंत तक		
10		10	निरधारी 1 से 22		
11		11	23 से 46		
12		12	47 से 72ख		
13		13	74/1 से 94		
14		14	95 से 112		
15		15	116 से 130		
16		16	131 से अंत तक		
1	उदपुरा	1	उदपुरा 1 से 33 तक	अ0जा0	3
2		2	36 से 57 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	61 से 82 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	84 से 110 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	111 से 127 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	128 से 147 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	149 से 167 तक	महिला सामान्य	3
8		8	168 से 189 तक		
9		9	192 से 216 तक		
10		10	217 से 234 तक		
11		11	235 से 257 तक		
12		12	258 से 323 अंत तक		
13		13	लब्डी 1 से 16 तक		
14		14	18 से अंत तक		
1	लीलदा	1	लीलदा 1 से 13 तक	अ0जा0	0
2		2	14 से 33 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	35 से 48 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	50क से 66 तक	महिला अ0जा0	0
5		5	68 से 90 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	92 से 118 तक	हिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	119 से 148 तक	महिला सामान्य	5
8		8	150 से अंत तक		
9		9	पित्याखेडीनाहरगढ 3 से 27 तक		
10		10	28 से 49 तक		
11		11	49क से 76 तक		
12		12	77 से 95 तक		

13 अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	13 वार्डों के क्रमांक 3	96 से अंत तक सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6	
1	पानपुर	1	पानपुर 1 से 29 तक	अ0जा0	6	
2		2	31 से 53 तक	अ0ज0जा0	0	
3		3	54 से 81 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4	
4		4	82 से 110 तक	महिला अ0जा0	3	
5		5	112 से 132 तक	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	133 से 155 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	156 से 182 तक	महिला सामान्य	4	
8		8	183 से 213 तक			
9		9	214 से 253 तक			
10		10	254 से 279 तक			
11		11	282 से 314 तक			
12		12	315 से अंत तक			
13		दमदम	13	1 से 24 तक		
14			14	26 से 50 तक		
15			15	51 से 71 तक		
16			16	72 से 105 तक		
17			17	110 से अंत तक		
1	गुराडियालालमुंहा	1	गुराडियालालमुंहा 3 से 41 तक	अ0जा0	2	
2		2	42 से 67 तक	अ0ज0जा0	2	
3		3	68 से 94 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4	
4		4	95 से 125 तक	महिला अ0जा0	1	
5		5	126 से 149	महिला अ0ज0जा0	1	
6		6	150 से 171 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	172 से 199 तक	महिला सामान्य	4	
8		8	200 से 225 तक			
9		9	226 से 244 तक			
10		10	244क से 275ख			
11		11	276 से 306 तक			
12		12	307 से 330			
13		13	332 से 355 तक			
14		14	356 से अंत तक			
15		हनुमंति	15	1 से 16 तक		
16			16	17 से अंत तक		
1	लालघाटी	1	लालघाटी 1 से 22 तक	अ0जा0	2	
2		2	23 से 42 तक	अ0ज0जा0	1	
3		3	48 से अंत तक	अन्य पिछडा वर्ग	3	
4		भूनियाखेडी	4	1 से 22 तक	महिला अ0जा0	1
5			5	22क से 33 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6			6	34 से 53 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	53क से 68 तक	महिला सामान्य	1	
8		8	70 से अंत तक			
9		बोलखेडा	9	1 से 33 तक		
10			10	34 से अंत तक		

अनु क्रमांक 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्डों के क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	सिन्दपन	1	4 से 20 तक	अ0जा0	4
2		2	21 से 33 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	33/1 से 52 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	53 से 74 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	75 से 94/1 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	96 से 131 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	132 से 156/2	महिला सामान्य	1
8		8	157 से 193 तक		
9		9	194 से 215 तक		
10		10	217 से 232 तक		
11		11	234 से अंत तक		
1	साबाखेडा	1	3 से 31/3 तक	अ0जा0	4
2		2	33 से 63 तक	अ0ज0जा0	3
3		3	67 से 98 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	100 से 138 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	142 से 170 तक	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	172 से 203 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	204 से 222 तक	महिला सामान्य	3
8		8	223 से 257 तक		
9		9	268 से 289क तक		
10		10	294 से 314 तक		
11		11	315 से 370 तक		
12		12	371 से 394 तक		
13		13	395 से 418 तक		
14		14	419 से 443 तक		
15		15	444 से 490 तक		
16		16	497 से 524 तक		
17		17	528 से 565 तक		
18		18	566 से 605 तक		
19		19	608 से 640 तक		
20		20	648 से अंत तक		
1	जग्गाखेडी(मंदसौर)	1	जग्गा. मंदसौर 2 से 23 तक	अ0जा0	1
2		2	25 से 65 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	66 से 103 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	104 से 139 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	139क से 158 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	159 से 189 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	190 से अंत तक	महिला सामान्य	2
8		8	रूपावली 1 से 20 तक		
9		9	21 से 46 तक		
10		10	49 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	मोहम्मदपुरा	1	मोहम्मदपुरा 1 से 24 तक	अ0जा0	2	
2		2	27 से 44 तक	अ0ज0जा0	0	
3		3	47 से 63 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4	
4		4	63क से 79 तक	महिला अ0जा0	1	
5		5	80 से 99 तक	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	100 से 121 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	123 से 137 तक	महिला सामान्य	4	
8		8	139 से 160/1 तक			
9		9	160क से 198 तक			
10		10	छाजूखेडा 1 से 19 तक			
11		11	20 से 55ख तक			
12		12	56 से 79क तक			
13		13	80 से 130 तक			
14		14	अरनियाभट्टी+कायमखेडा 1 से अंत तक			
1	चांगली	1	चांगली 1 से 16 तक	अ0जा0	4	
2		2	17 से 30 तक	अ0ज0जा0	0	
3		3	31 से 42 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4	
4		4	43 से 59 तक	महिला अ0जा0	2	
5		5	60 से 73 तक	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	74 से 90 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	91 से अंत तक	महिला सामान्य	4	
8		8	इटायली 1 से 23क तक			
9		9	24 से 39 तक			
10		10	40 से अंत तक			
11		11	बहादरी 1 से 22 तक			
12		12	23 से 38 तक			
13		13	39 से 61 तक			
14		14	63 से 101 तक			
15		15	102 से अंत तक			
1	सेतखेडी	1	सेतखेडी 1 से 21 तक	अ0जा0	0	
2		2	22 से 43 तक	अ0ज0जा0	0	
3		3	44 से 68 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3	
4		4	69 से 91क तक	महिला अ0जा0	0	
5		5	धाकडखेडी 1 से 22 तक	महिला अ0ज0जा0	0	
6		6	23 से 43 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
7		7	रसूलपुरा 4 से 21 तक	महिला सामान्य	3	
8		8	निपानियामेघराज 1 से 28 तक			
9		9	29 से 54 तक			
10		10	55 से 93ख अंत तक			



अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोहराखेडी	1	बोहराखेडी 1 से 27 तक	अ0जा0	3
2		2	28 से 58 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	60 से 96क तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	100 से 136 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	144 से 209 अंत तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	अलावदाखेडी 1 से 27क तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	28 से 65 ख तक	महिला सामान्य	0
8		8	66 से 105 तक		
9		9	110 से अंत तक		
10		10	चिकल्या 2 से 21क अंत तक		
1	ढिकोला	1	ढिकोला 1 से 38 तक	अ0जा0	2
2		2	40 से 60 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	61 से 63घ तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	64 से 78क तक	महिला अ0जा0	1
5		5	79 से 88क तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	92 से 119 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	121 से 154 तक	महिला सामान्य	5
8		8	155 से 189घ		
9		9	भूखी 2 से 23 तक		
10		10	26 से 35 तक		
11		11	36 से 55 तक		
12		12	57 से 82 तक		
13		13	83 से 92 तक		
14		14	93क से 104 तक		
15		15	105 से 135 तक		
16		16	136 से 162 तक		
17		17	163 से 215 अंत तक		
1	पाडलियामारू	1	पाडलियामारू 1 से 32 तक	अ0जा0	2
2		2	33 से 49क तक	अ0ज0जा0	1
3		3	50 से 76 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	78 से 91क तक	महिला अ0जा0	1
5		5	92 से 110 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	111 से 126ड तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	127 से 144 तक	महिला सामान्य	4
8		8	146 से 163 तक		
9		9	164 से 179 तक		
10		10	180 से अंत तक		
11		11	खण्डेरियाम मारू 2 से 17ख		
12		12	18 से 35 तक		
13		13	36 से 56 तक		
14		14	57 से 70 तक		
15		15	71 से 84 तक		
16		16	85 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जग्गाखेडी(नाहरगढ)	1	जग्गा.नाहरगढ 1 से 21 तक	अ0जा0	5
2		2	25 से 50 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	51 से 70 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	71 से 102 तक	महिला अ0जा0	3
5		5	104 से 125 तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	126 से 147 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	148 से 172 तक	महिला सामान्य	3
8		8	174 से 207 तक		
9		9	208 से 233 तक		
10		10	234 से 265 तक		
11		11	266 से अंत तक		
12		12	गारियाखेडा 2 से 20 तक		
13		13	21 से अंत तक		
14		14	नावनखेडी 1 से 19 तक		
15		15	20 से 42 तक		
16		16	43 से अंत तक		
17		17	बेखेडा 1 से 21 तक		
18		18	22 से 41 तक		
19		19	42 से 63 तक		
20		20	64 से अंत तक		
1	मुल्तानपुरा	1	3क से 74 तक	अ0जा0	1
2		2	74क से 127 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	128 से 148 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	150 से 203क तक	महिला अ0जा0	1
5		5	205 से 258 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	259 से 303 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7		7	304 से 365 तक	महिला सामान्य	6
8		8	367 से 414 तक		
9		9	415 से 472 तक		
10		10	475 से 546क तक		
11		11	546ख से 634 तक		
12		12	634क से 671 तक		
13		13	671घ से 774क तक		
14		14	774ख से 870 तक		
15		15	879 से 956 तक		
16		16	957 से 1048 तक		
17		17	1050 से 802ख तक		
18		18	804 से 1059 तक		
19		19	1060 से 2140 तक		
20		20	2141 से अंत तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अघोरिया  (मिर्जापुरा ग्राम)	1	1 से 24 तक	अ0जा0	2
2		2	25 से 52 तक	अ0ज0जा0	1
3		3	53 से 69 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	70 से 88 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	90 से 98घ तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	99 से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	0 से 18 तक	महिला सामान्य	1
8		8	20 से 38घ तक		
9		9	39 से 63 तक		
10		10	64 से अंत तक		
1	पिपलियाकराडिया	1	1 से 39 तक	अ0जा0	3
2		2	40 से 79 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	82 से 116क तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	124 से 163 तक	महिला अ0जा0	2
5		5	164 से 209 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	210 से 243 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	244 से 265 तक	महिला सामान्य	4
8		8	266 से 287 तक		
9		9	288 से 314ग तक		
10		10	316 से 340 तक		
11		11	341 से 370 तक		
12		12	371 से 388ग तक		
13		13	400 से 423 तक		
14		14	426 से 450 तक		
15		15	452 से 468क तक		
16		16	471 से अंत तक		
1	सेमली	1	सेमली 1 से 26 तक	अ0जा0	2
2		2	28 से 42 तक	अ0ज0जा0	0
3		3	44 से 74 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	75 से 103 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	107 से 136 तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	137 से 160 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	161 से 184 तक	महिला सामान्य	4
8		8	आक्याफत्तु 1 से 29 तक		
9		9	33 से 57 तक		
10		10	58 से 80 तक		
11		11	81 से 86 तक		
12		12	हासली 1 से 15 तक		
13		13	16 से 39 तक		
14		14	40 से 53क तक		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दाउदखेडी	1	दाउदखेडी 2 से 30 तक	अ0जा0	1
2		2	32 से 37 तक	अ0ज0जा0	2
3		3	38 से 61 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	62 से 89 तक	महिला अ0जा0	1
5		5	90 से 117क तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	118 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	दौलतपुरा 1 से अंत तक	महिला सामान्य	4
8		8	हैदरवास 3 से 33 तक		
9		9	34 से 127 तक		
10		10	बुगलिया 0 से 21 तक		
11		11	22 से 40 तक		
12		12	42 से 66 तक		
13		13	67 से 80 तक		
14		14	81 से 101 तक		
15		15	103 से 133 तक		
16		16	134 से अंत तक		
1	धारियाखेडी	1	1 से 24 तक		
2		2	25 से 55 तक	अ0ज0	3
3		3	56 से 95ग तक	अ0ज0जा0	1
4		4	96 से 128 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
5		5	132 से 173क तक	महिला अ0जा0	2
6		6	177 से 204 तक	महिला अ0ज0जा0	1
7		7	205 से 241 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
8		8	242 से 278 तक	महिला सामान्य	4
9		9	278क से 302 तक		
10		10	302क से 323 तक		
11		11	324 से 353 तक		
12		12	353क से 372 तक		
13		13	372क से 398 तक		
14		14	399 से 434 तक		
15		15	436 से 457 तक		
16		16	460 से 477क तक		
17		17	477ख से 501 तक		
18		18	505 से 522 तक		
19		19	522क से 542 तक		
20		20	552क से 545 अंत तक		

## परिशिष्ट-5 (अ)

मंदसौर दिनांक 08 मई 2014

क/2678 पंचा.निर्वा./2014- मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

## खण्ड -गरोठ

## सारणी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	खडावदा	1 खडावदा	1 से 39 तक	अ0जा0	1
		2	40 से 65 तक	अ0ज0जा0	0
		3	66 से 99 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	100 से 119 तक	महिला अ0जा0	0
		5	121 से 142 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	143 से 164 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	165 से 192/1 तक	महिला सामान्य	7
		8	192/2 से 225/2 तक		
		9	226 से 259 तक		
		10	260 से 295 तक		
		11	296 से 320 तक		
		12	323 से 4 तक		
		13	5 से 21 तक		
		14	22 से 370 तक		
		15	371 से 395 तक		
		16 बान्याखेडी	1 से 428/1 तक		
		17 रूपपुरा	1 से 16 तक		
		18	17 से 33 तक		
		19	35 से 49/1 तक		
		20	51 से 63 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1.	सेमरोल	1	सेमरोल	1 से 26	अ0जा0	5
		2		27 से 41	अ0ज0जा0	0
		3		42 से 56	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		57 से 73	महिला अ0जा0	3
		5		74 से 94	महिला अ0ज0जा0,	0
		6		95 से 115	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		116 से 125	महिला सामान्य	5
		8		126 से 146		
		9		147 से 168		
		10		169 से 188		
		11		189 से 208		
		12		209 से 225		
		13		226 से 239		
		14		240 से 270		
		15		271 से 291		
		16		292 से 432		
1.	बरामा	17	चापल्याखेड़ी	01 से 11		
		18		13 से 32		
		19		33 से 50		
		20		51 से 85		
		1	बरामा	1 से 11 तक	अ0जा0	1
		2		12 से 31/1	अ0ज0जा0	0
		3		32 से 43 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	मजरा रामनगर	44 से 58 तक	महिला अ0जा0	0
		5		59 से 67 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6		68 से 84 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		85 से 97 तक	महिला सामान्य	4		
8	रामनगर बम्बोरी	98 से 120 तक				
9	बम्बोरी गढी	121 से 140 तक				
10	कानुपरा मलकाना	1 से 19 तक				
11	मलकाना राण का डेरा	20 से अंत तक				

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	सुरजना	1 सुरजना	1 से 26	अ0जा0	1
		2	28 क से 35	अ0ज0जा0	0
		3	52 से 167	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4 सुरजना	83 से 99	महिला अ0जा0	1
		5 सुरजना का खेड़ा	100 से 607	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	116 ख से 137	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	134 ख से 139	महिला सामान्य	4
		8 खेरखेड़ा भाट	1 से 11		
		9	12 से 24		
		10	25 से 35 अ		
		11	36 से 49		
		12	50 से 73		
		13	74 से 254		
1.	पिपलखेड़ा	1 पिपलखेड़ा	1 से 11/2 तक	अ0जा0	1
		2	12 से 28 ख	अ0ज0जा0	0
		3	29 से 49 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	50 से 64 तक	महिला अ0जा0	1
		5	65 से 69 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6 लाला का डेरा	70 से 101 क तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 मेघा का डेरा	94 से 103 तक	महिला सामान्य	2
		8 खेता का डेरा	104 से 128 तक		
		9 सेवा का डेरा	108 से 156 तक		
		10	157 से अंत तक		

अनु.कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	ढलमू	1 ढलमू	1 से 17	अ0जा0	4
		2	18 से 32	अ0ज0जा0	0
		3	33 से 70	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	71 से 89	महिला अ0जा0	2
		5	90 से 104	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	105 से 127	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	128 से 146	महिला सामान्य	5
		8	147 से 168		
		9	169 से 188		
		10	189 से 209		
		11	210 से 226		
		12	227 से 247		
		13	38 क से 97		
		14 गारियाखेडी	1 से 23		
		15	24 से 46		
		16	47 से 69		
		17	70 से 92		
		18	93 से 116		
		19	117 से 131		
		20	132 से 154 तक		
1.	चचावदापठारी	1 चचावदा पठारी	1 से 11 तक	अ0जा0	5
		2	13 से 25 तक	अ0ज0जा0	0
		3	26 से 39 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	40 से 50 तक	महिला अ0जा0	3
		5	50 क से 68 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	69 स 84 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	85 से 104 तक	महिला सामान्य	5
		8	105 से 122 तक		
		9	123 से 142 तक		
		10	143/1 से 158 तक		
			1 से 20 तक		
		11 साठिया			
		12	21/1 से 33/1 तक		
		13	33/2 से 43/2ख तक		
		14	44/1 से 57 तक		
		15	58 से 76 तक		
		16	77/1 से 93 तक		
		17	94 से 106 तक		
		18 चचावदा चौकटिया	1 से 15 तक		
		19	16 से 27 तक		
		20	29 से 83 तक		



अनु.कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	देथलीखुर्द	1 देथली खुर्द	1 से 23 तक	अ0जा0	0
		2	24 से 41 तक	अ0ज0जा0	0
		3	42 से 63 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	64 से 88 तक	महिला अ0जा0	2
				महिला	0
		5	89 से 109 तक	अ0ज0जा0,	
				महिला अन्य	3
		6	110 से 132 तक	पिछडा वर्ग	
		7	133 से 149 तक	महिला सामान्य	6
		8	150 से 176 तक		
		9	177 से 197 तक		
		10	198 से 215 तक		
		11	215/1 से 236 तक		
		12	237 से 259 तक		
		13	260 से 279 तक		
		14	280 से 305 तक		
		15	306 से 320 तक		
		16 गोपालपुरा	1 से 15 तक		
		17	16 से 38 तक		
		18	39 से 106/2 तक		
		19 नारायणी	4 से 76 तक		
		20	77 से 106/1 तक		
1.	आगर	1 आगर	1 से 23	अ0जा0	2
		2	24 से 43	अ0ज0जा0	0
		3	44 से 64	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	65 से 85	महिला अ0जा0	1
				महिला	0
		5	86 से 104	अ0ज0जा0,	
				महिला अन्य	2
		6	106 से 122	पिछडा वर्ग	
		7	123 से 145	महिला सामान्य	5
		8	147 से 172		
		9	173 से 208		
		10 खेरखेडी	1 से 12		
		11	13 से 30		
		12	31 से 49		
		13	50 से 70		
		14	71 से 94		
		15	95 से 115		
		16	116 से 133		

अनु.कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	पिपल्याराजा	1 पिपल्याराजा	01 से 14 तक	अ0जा0	3
		2	15 से 35 तक	अ0ज0जा0	0
		3	36 से 48 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	49 से 64 तक	महिला अ0जा0	2
		5	65 से 82 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	83 से 97 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 धामनिया झाली	01 से 19 तक	महिला सामान्य	3
		8	20 से 46 तक		
		9 धामनिया झाली	46 से 65/3 तक		
		10 धामनिया झाली	66 से 90 तक		
		11 धामनिया झाली	91 से 118 तक		
		12 धामनिया झाली	119 से 147 तक		
		13 धामनिया झाली	148 से 166 तक		
1.	देथलीबुजुर्ग	1 देथली बुजुर्ग	1 से 21	अ0जा0	3
		2	22 से 46	अ0ज0जा0	0
		3	47 से 63	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	64 से 80	महिला अ0जा0	2
		5	81 से 98	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	99 से 116	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	118 से 137	महिला सामान्य	6
		8	138 से 159		
		9	160 से 178		
		10	179 से 198		
		11	200 से 218		
		12	219 से 239		
		13	240 से 260		
		14	261 से 282		
		15	283 से 303		
		16	304 से 322		
		17	323 से 340		
		18	342 से 355		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बालोदा	1 बालोदा	1 से 11 तक	अ0जा0	2
		2	12 से 33/2 तक	अ0ज0जा0	0
		3	35 से 54 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	56 से 69 तक	महिला अ0जा0	1
		5	71 से 92 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	93 स 107 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	108/1 से 120/1 तक	महिला सामान्य	6
		9	120/2 से 136 तक		
		9	136/1 से 150 तक		
		10	150/1 से 166 तक		
		11	167 से 185/3 तक		
		12 उमरिया	1 से 15 तक		
		13	15/2 से 31 तक		
		14	32 से 48/1 तक		
		15	49 से 65 तक		
		16 भोजपुर	1 से 21 तक		
		17	22 से 37 तक		
1.	ढाबलामोहन	1 ढाबला मोहन	1-17क	अ0जा0	4
		2	18-28घ	अ0ज0जा0	0
		3	29-42	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	43-56	महिला अ0जा0	2
		5	57-66ग	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	67-79	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	80-93	महिला सामान्य	2
		8	94-104		
		9 आंकली	1-25		
		10	26-42		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	भामखेड़ी	1 भामखेड़ी	1/2 से 12 तक	अ0जा0	1
		2	13 से 31 ख तक	अ0ज0जा0	0
		3	32 से 47 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	49 से 61 तक	महिला अ0जा0	0
		5	62/1 से 74/1 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	74/2 से 77 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	78 से 89 तक	महिला सामान्य	5
		8 कोटडी	01 से 13 तक		
		9	14 से 44 तक		
		10 लखमखेड़ी	01 से 15 तक		
		11	16 से 34 तक		
		12	35 से 47 तक		
		13	48 से 65 तक		
1.	उदल्याखेड़ी	1 उदल्याखेड़ी	1 से 20	अ0जा0	1
		2	21 से 40	अ0ज0जा0	0
		3	41 से 59	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	59 क से 81	महिला अ0जा0	1
		5	82 से 106	महिला अ0ज0जा0,	0
		6 आनंदीपुरा	01 से 14	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	15 से 37	महिला सामान्य	3
		8	38 से 55		
		9 भुनकी	1 से 13		
		10	14 से 26		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	मोलाखेड़ीखुर्द	1 मोलाखेड़ी खुर्द	1 से 24	अ0जा0	1
		2	25 से 43	अ0ज0जा0	0
		3	44 से 64	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	65 से 81	महिला अ0जा0	1
		5	82 से '96	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	97 से 114	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	116 से 138	महिला सामान्य	4
		8 मोरडी	1 ग से 15		
		9	16 से 30 ख		
		10	31 से 42		
		11	43 से 54		
		12	55 से 66		
		13	67 से 84		
1.	लसुडिया	1 लसुडिया	1 से 17 तक	अ0जा0	4
		2	18 से 26 तक	अ0ज0जा0	0
		3	27 से 40 ख तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	41 से 54 तक	महिला अ0जा0	2
		5	55 से 68 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	69 से 89 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	90 से 104 क तक	महिला सामान्य	5
		8	105 से 129 तक		
		9	130 से 150 तक		
		10	151 से 170 तक		
		11	171 से 185 तक		
		12	186 से 203 तक		
		13	204 से 220 क तक		
		14	221 क से 419 तक		
		15 पुन्याखेडी	1 से 23 क तक		
		16	24 से 45 तक		
		17	46 से 69 तक		
		18 गोपालपुरा	1 से 27 तक		
		19	28 से 50 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	रलायती	1 रलायती	1 से 17 तक	अ0जा0	1
		2	18 से 35 तक	अ0ज0जा0	0
		3	36 से 53 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	54 से 75 क तक	महिला अ0जा0	0
		5	76 से 93 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	94 से 110 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	111 से 131 तक	महिला सामान्य	5
		8	1 से 18 तक		
		9	19 से 32 तक		
		10	33 से 48 तक		
		11	49 से 66 तक		
		12	67 से 83 तक		
		13	84 से 104 तक		
1.	देवरिया	1 देवरिया	01 से 16 तक	अ0जा0	2
		2	17 से 35 तक	अ0ज0जा0	0
		3	36 से 56 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	57 से 75 तक	महिला अ0जा0	1
		5	76 से 92 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	93 से 111 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	112 से 130 तक	महिला सामान्य	3
		8 देवरिया पाटीदारों की	131 से 140 तक		
		9	141 से 159 तक		
		10 देवरिया बंजारों की	160 से 173 तक		
		11	174 से 194 तक		

अनु.कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	मोलाखेड़ीबुजुर्ग	1 मोलाखेड़ी बुजुर्ग	1 से 22/3 तक	अ0जा0	3
		2	23 से 42 तक	अ0ज0जा0	0
		3	43 से 58 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	59 से 75 तक	महिला अ0जा0	2
		5 खेरखेडा	01 से 17 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	18 से 35 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	36 से 55 तक	महिला सामान्य	2
		8	56 से 79 तक		
		9 कराडिया का खेडा	01 से 15 तक		
		10	16 से 30 तक		
		11	31 से 47 तक		
1.	हतुनिया	1 हतुनिया	1 से 18	अ0जा0	4
		2	19 से 34	अ0ज0जा0	0
		3	35 से 62	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	63 से 79 क	महिला अ0जा0	2
		5	80 से 102	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	104 क से 120	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	121 क से 129	महिला सामान्य	5
		8	130 से 158		
		9	159 से 184		
		10	185 से 210		
		11	211 से 230 क		
		12	231 से 247		
		13	249 से 265		
		14	266 से 282		
		15	283 से 289		
		16 मुण्डला	1 से 20		
		17	21 से 46 क		
		18	47 से 66/4		
		19	67/1 से 86		
		20	87 से 113/1		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	फरासली (घाटा)	1 फरासली घाटा	1 से 22	अ0जा0	2
		2	23 से 44	अ0ज0जा0	0
		3	46 से 64	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	65 से 85	महिला अ0जा0	1
		5	86 से 105	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	106 से 125	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7 बकाना	1 से 18	महिला सामान्य	5
		8	19 से 32		
		9	33 से 47		
		10	48 से 66		
		11	67 से 86		
		12 बोरखेडी घाटा	1 से 23		
		13	24 से 38		
		14	39 से 65		
		15	66 से 91		
		16	92 से 109		
		17	110 से 127		
		18	128 से 146		
1.	बोरखेडी रेडका	1 बोरखेडी रेडका	1 से 19	अ0जा0	3
		2	20 से 34	अ0ज0जा0	0
		3	36 से 48	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	49 से 68	महिला अ0जा0	2
		5	69 से 90	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	91 से 106	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	107 से 128	महिला सामान्य	5
		8 रूपारेल	1 से 15/2		
		9	16 से 34		
		10	35 से 110		
		11 रूपारेल का डेरा	1 से 29		
		12	30 से 54		
		13 शंकररिया खेडी	1 से 23		
		14	24 से 44		
		15	45 से 64		
		16	65 से 90		
		17	91 से 117		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बर्डिया ऊंचा	1 बर्डिया उंचा	1 से 21	अ0जा0	2
		2	22 से 38	अ0ज0जा0	0
		3	39 से 50	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	41 से 62/1	महिला अ0जा0	1
		5	62/2 से 83	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	86 से 104	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 बर्डिया उंचा नई आबादी	1 से 21	महिला सामान्य	5
		8	22 से 36		
		9	37 से 53		
		10 मजरा देवगढ	1 से 20		
		11	21 से 35		
		12 मजरा अमरपुरा	1 से 24		
		13 आक्या	1 से 13		
		14	14 से 26		
		15 चिढी	1 से 24		
		16	25 से 59		
1.	चंदवासा	1 चंदवासा	01 से 42/4 तक	अ0जा0	2
		2	43 से 80 तक	अ0ज0जा0	0
		3	81 से 126 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	127 से 176/2 तक	महिला अ0जा0	1
		5	177 से 239 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	240 से 278 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	279 से 320 तक	महिला सामान्य	6
		8	321 से 357 तक		
		9	358 से 390 तक		
		10	391 से 434 तक		
		11	436 से 474 तक		
		12	475 से 511 तक		
		13	512 से 554 तक		
		14	555 से 601 तक		
		15	602 से 626 तक		
		16	627 से 664 तक		
		17	665 से 691 तक		
		18	692 से 744 तक		
		19	745 से 801 तक		
		20	803 से 836 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	भटुनी	1 भटुनी	1 से 20 तक	अ0जा0	3
		2	21 से 38/3 तक	अ0ज0जा0	0
		3	39 से 52 तक	अन्य पिछडा वर्ग	2
		4	53 से 70 तक	महिला अ0जा0	1
		5	72 से 92 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	93 से 114 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
		7	115 से 169 तक	महिला सामान्य	3
		8 घट्या	1 से 19 तक		
		9	20 से 40 तक		
		10	41 से 58 तक		
1.	गरडा	1 गरडा	2 से 17	अ0जा0	1
		2	18 से 32	अ0ज0जा0	0
		3	33 से 52	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	53 से 67	महिला अ0जा0	0
		5	68 से 85	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	86 से 104	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 वारनी	1 से 13	महिला सामान्य	6
		8	14 से 29		
		9	30 से 45		
		10	46 से 58		
		11	59 से 84		
		12 रणायरा	1 से 19		
		13	20 से 37		
		14	38 से 48		
		15 रणायरा डेरा	49 से 62		
1.	किलगारी	1 किलगारी	01 से 18 तक	अ0जा0	1
		2	19 से 31 तक	अ0ज0जा0	0
		3	32 से 41/1 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	42 से 56 तक	महिला अ0जा0	1
		5 आवरा	1 से 21 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	22 से 34/7 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	35 से 51 तक	महिला सामान्य	4
		8	52 से 69 तक		
		9	70 से 81 तक		
		10	82 से 89 तक		
		11	90 से 105 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	तोलाखेड़ी	1 तोलाखेड़ी	1 से 22 तक	अ0जा0	1
		2	23 से 42 तक	अ0ज0जा0	0
		3	43 से 63 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	64 से 81 तक	महिला अ0जा0	0
		5	82 से 103 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	104 से 117 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	118 से 136 तक	महिला सामान्य	3
		8	137 से 155 तक		
		9	156 से 175 तक		
		10	176 से 196 तक		
		11	197 से 207 तक		
1.	मेलखेड़ा	1 मेलखेड़ा	02 से 76	अ0जा0	2
		2	77 से 117	अ0ज0जा0	0
		3	118 से 149	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	151 से 212	महिला अ0जा0	1
		5	213 से 274	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	275 से 318	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	321 से 388	महिला सामान्य	6
		8	389 से 449		
		9	450 से 473		
		10	474 से 506		
		11	507 से 540		
		12	541 से 593		
		13	596 से 645 क		
		14	646 से 688 / 1		
		15	688 ख से 708		
		16	709 से 726		
		17	726 क से 763		
		18	764 से 805 क		
		19	805 ग से 838		
		20 संकरियाखेड़ी	1 से 22		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	भूण्डिया	1 भूण्डिया	1 से 17	अ0जा0	1
		2	18 से 37	अ0ज0जा0	0
		3	38 से 50	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	51 से 64/2	महिला अ0जा0	0
		5	65 से 81	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	82 से 104	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	105 से 120	महिला सामान्य	5
		8	121 से 144		
		9	145 से 169		
		10 रामखेडी	1 से 15		
		11	16 से 34		
		12	36 से 59		
		13	59 से 74		
1.	बरखेड़ा नायक	1 बरखेड़ा नायक	1 से 15 तक	अ0जा0	2
		2	16 से 27 तक	अ0ज0जा0	0
		3	28 से 47 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	48 से 68 तक	महिला अ0जा0	1
		5	69 से 88 ब तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	90 से 103 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	105 से 121 तक	महिला सामान्य	4
		8	122 से 134 क तक		
		9	135 से 150 तक		
		10	150 ख से 168 तक		
		11 सालरी	01 से 15 तक		
		12	16 से 34 तक		
		13	35 से 54 तक		
		14	55 से 77 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या विवरण प्रवर्ग
1	2	3	4	5
1.	पिछला	1 पिछला	2 से 17	अ0जा0
		2	18 से 27 ख	अ0ज0जा0
		3	27 ग से 42 तक	अन्य पिछडा वर्ग
		4	43 से 55 घ	महिला अ0जा0
		5	55 ड से 68	महिला अ0ज0जा0,
		6	69 से 80	महिला अन्य पिछडा वर्ग
		7 खारचा	1 से 19	महिला सामान्य
		8	20 से 40	
		9	41 से 58	
		10	59 से 6	
		11	10 से 31 ख	
		12 तलाई का डेरा	21 से 36	
		13 किशना का डेरा	37 से 6	
		14	6 से 28 क	
		15 छायन रूण्डी	26 ख से 16 तक	
1.	बर्डिया पूना	1 बर्डिया पूना	2 से 26 तक	अ0जा0
		2	27 से 44 तक	अ0ज0जा0
		3	46 से 67 तक	अन्य पिछडा वर्ग
		4	68 से 85 तक	महिला अ0जा0
		5	86 से 102 तक	महिला अ0ज0जा0,
		6	103 से 122 ख तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग
		7 भांगडी	1 से 9 तक	महिला सामान्य
		8	10 से 33 तक	
		9	36 से 51 तक	
		10	52 से 67 तक	
		11	68 से 83 तक	
		12 निपानिया	1 से 11 तक	
		13	13 से 20 तक	
		14	21 से 31 तक	
		15	32 अ से 51 ब तक	
		16	52 से 70 तक	

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या विवरण प्रवर्ग
1	2	3	4	5
1.	जमुनिया	1 जमुनिया	1 से 17 तक	अ0जा0 अ0ज0जा0
		2	18 से 36 तक	अन्य पिछडा वर्ग
		3	37 से 53 तक	महिला अ0जा0
		4	54 से 70 तक	महिला अ0ज0जा0,
		5	71 से 92 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग
		6	93 से 112 तक	महिला सामान्य
		7	113 से 143 तक	
		8	144 से 158 तक	
		9	159 से 177 तक	
		10	178 से 191 तक	
		11 भगोरी	1 से 16 तक	
		12	17 से 26 तक	
		13	27 से 40 तक	
		14	42 से 60 तक	
1	असावती	1 असावती	01 से 10/5 तक	अ0जा0 अ0ज0जा0
		2	10/6 से 28/2 तक	अन्य पिछडा वर्ग
		3	29 से 43/4 तक	महिला अ0जा0
		4	44 से 62 तक	महिला अ0ज0जा0,
		5	71 से 84 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग
		6	86 से 94/4 तक	महिला सामान्य
		7	95 से 107 तक	
		8	108 से 120/1 तक	
		9	121 से 135/2 तक	
		10	137 से 146 तक	
		11	147 से 159 तक	
		12	160 से 174 तक	
		13	175 से 191 तक	
		14	192 से 194/27 तक	
		15	197 से 218 तक	
		16	219 से 242 तक	
		17 बावडीखेडा	1 से 13 तक	
		18 लालपूरा	1 से 14/3 तक	
		19	15 से 32 तक	
		20	33 से 48 तक	

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	कुरावन	1 कुरावन	5 से 25 तक	अ0जा0	1
		2	26 से 60 तक	अ0ज0जा0	0
		3	62 से 81 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	82 से 109 तक	महिला अ0जा0	1
		5	110 से 133 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	134 से 155 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	158 से 177/3 तक	महिला सामान्य	6
		8	179 से 200 तक		
		9	201 से 235 तक		
		10	236 से 258 तक		
		11	259 से 312 ख तक		
		12	313 से 327 तक		
		13	328 से 354 तक		
		14	355 से 385 तक		
		15	386 से 408 तक		
		16	409 से 422 तक		
		17	423 से 440 तक		
		18	441 से 457 तक		
1.	बनी	19 मजरा हरिपुरा	457 से 485 तक		
		20	486 से 518 तक		
		1 बनी	1 से 20 तक	अ0जा0	1
		2	21 से 36 तक	अ0ज0जा0	0
		3	37 से 54 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	55 से 71 तक	महिला अ0जा0	0
		5	72 से 86 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	97 से 101 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	102 से 118 तक	महिला सामान्य	4
		8	119 से 135 तक		
		9	136 से 146 तक		
10	147 से 161 तक				
11	162 से 177 तक				

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	प्रवर्ग	6
1.	बापच्या	1 बापच्या	01 से 13 तक	अ0जा0	4
		2	14 से 36 तक	अ0ज0जा0	0
		3	42 से 63 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	64 से 79 तक	महिला अ0जा0	2
		5	80 से 98 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	99 से 116 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	118 से 133	महिला सामान्य	5
		8	134 से 149 तक		
		9	150 से 173 तक		
		10 गागसी	1 से 22 तक		
		11	23 से 41 तक		
		12	42 से 60 तक		
		13	61 से 81 तक		
		14	82 से 102 तक		
		15	103 से 123 तक		
		16	124 से 145 तक		
		17 आमली	1 से 24 तक		
		18	25 से 47 तक		
		19	48 से 80 तक		
		20	81 से 108 तक		
1.	टकरावद	1 टकरावद	1 से 21	अ0जा0	5
		2	22 से 43	अ0ज0जा0	0
		3	45 से 68	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	69 से 83	महिला अ0जा0	3
		5	84 से 101	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	102 से 117	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	118 से 133 ख	महिला सामान्य	4
		8	134 से 146 ग		
		9	147 क से 152		
		10	153 क से 165		
		11	166 से 178		
		12 जुंगरखेडी	1 से 19		
		13	20 से 33		
		14	34 से 52ख		
		15 देवरी	1 से 13		
		16	14 से 38		
		17	39 से 61		
		18	62 से 88		



अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बंजारी (चंदवासा)	1 बंजारी (चंदवासा)	01 से 19 तक	अ0जा0	1
		2	20 से 35 तक	अ0ज0जा0	0
		3	36 से 54 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	55 से 75 तक	महिला अ0जा0	1
		5	76 से 95 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	96 से 114 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 गोपालपुरा	01 से 19 तक	महिला सामान्य	3
		8	20 से 36 तक		
		9	37 से 50 तक		
		10	51 से 67 तक		
		11	68 से 89 तक		
1.	साठखेड़ा	1 साठखेड़ा	1 से 31	अ0जा0	2
		2	32 से 65 क	अ0ज0जा0	0
		3	66 से 100	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	101 से 133	महिला अ0जा0	1
		5	134 से 165	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	166 से 198	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	199 से 233	महिला सामान्य	6
		8	235 से 267		
		9	268 से 309		
		10	310 से 344		
		11	345 से 373 च		
		12	374 से 404		
		13	405 से 438		
		14	440 से 470 ख		
		15	472 से 495 भ		
		16 सेमलीरूपा	1 से 27		
		17	30 से 57		
		18	58 से 91		
		19	92से 117		
		20	18 से 145		

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	पनवाडी	1 पनवाडी	1 से 19	अ0जा0	1
		2	21 से 43	अ0ज0जा0	0
		3	44 से 68	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	70 से 86	महिला अ0जा0	1
		5	89 से 110	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	111 से 130	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	131 से 158	महिला सामान्य	4
		8	159 से 180		
		9	182 से 198 ख		
		10	199 से 218		
		11	219 से 233		
1.	कुण्डलाखुर्द	1 कुण्डला खुर्द	5 से 12	अ0जा0	2
		2	13 से 29	अ0ज0जा0	0
		3	30 से 42	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	43 से 57	महिला अ0जा0	1
		5	58 से 67 ख	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	68 से 80	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	81 से 180	महिला सामान्य	3
		8 कुण्डला बुजुर्ग	1 से 27		
		9	28 से 43		
		10	50 से 74		
		11	76 से 94		
1.	पण्डेरिया	1 पण्डेरिया	1 से 15 तक	अ0जा0	0
		2	16 से 30 तक	अ0ज0जा0	0
		3	31 से 50 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4 दीपा का डेरा	51 से 66 तक	महिला अ0जा0	0
		5 दुर्गा का डेरा	67 से 80 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6 सोनबर्डी	81 से 92 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	93 से 108 तक	महिला सामान्य	3
		8	110 से 128 तक		
		9 चौखा का डेरा	129 से 145 तक		
		10	146 से 162 तक		

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बघुनिया	1 बघुनिया	1 से 40	अ0जा0	4
		2	41 से 81	अ0ज0जा0	0
		3	82 से 121	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	123 से 164	महिला अ0जा0	2
		5	165 से 203	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	204 से 237	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	238 से 246 एवं 1 से 15	महिला सामान्य	5
		8	17 से 40		
		9	41 से 71		
		10	72 से 95		
		11	96 से 118		
		12	119 से 148		
		13	149 से 180 / 1		
		14	182 से 217		
		15	218 से 242		
		16	243 से 273		
		17	275 से 305		
		18	306 से 326		
		19 एरी	1/1 से 20 क		
		20	20 ख से 43		
1.	बरखेड़ा गंगासा	1 बरखेड़ा गंगासा	1 से 20 तक	अ0जा0	1
		2	21 से 40 तक	अ0ज0जा0	0
		3	41 से 59 तक	अन्य पिछडा वर्ग	6
		4	60 से 77 तक	महिला अ0जा0	0
		5	78 से 98 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	99 से 124 क तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	125 से 151 तक	महिला सामान्य	7
		8	152 से 167 तक		
		9	168 से 187 तक		
		10	188 से 208 तक		
		11	209 से 231 ख तक		
		12	232 से 252 तक		
		13	253 से 273 तक		
		14	274 से 301 तक		
		15	302 से 330 क तक		
		16	331 से 350 तक		
		17	351 से 368 तक		
		18	370 से 393 तक		
		19	397 से 417 क तक		
		20	418 से 433 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	एरिया	1 एरिया	1 से 31	अ0जा0	1
		2	34 से 50	अ0ज0जा0	0
		3	51 से 59 ख	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	59 ग से 82 ख	महिला अ0जा0	1
		5	82 ग से 99	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	100 से 123	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	124 से 151/4	महिला सामान्य	6
		8 ढाबा	152 से 167		
		9	167 क से 187 क		
		10	190 से 207 ख		
		11	208 से 243		
		12	244 से 271		
		13	272 से 298		
1.	पिपल्याजत्ति	1 पिपल्या जत्ति	1 से 20	अ0जा0	3
		2	23 से 51	अ0ज0जा0	0
		3	52 से 67	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	68 से 104	महिला अ0जा0	2
		5	105 से 126 क	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	127 से 253	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 बोरखेडी	1 से 25	महिला सामान्य	1
		8	27 से 51		
		9 जस्साखेडी	1 से 21		
		10	22 से 42		
1.	गुराडिया नरसिंह	1 गुराडिया नरसिंह	1 से 16	अ0जा0	1
		2	17 से 32	अ0ज0जा0	0
		3	33 से 48	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	49 क से 64	महिला अ0जा0	1
		5	66 से 81	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	82 से 100	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	101 से 119	महिला सामान्य	3
		8	120 से 135		
		9	136 से 151		
		10	152 से 172		
		11	173 से 191		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बासगोन	1 बासगोन	1 से 26	अ0जा0	2
		2	28 से 50	अ0ज0जा0	0
		3	51 से 79 क	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	80 से 106	महिला अ0जा0	1
		5	108 से 133	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	134 से 821	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 चंद्रपुरा	1 से 24	महिला सामान्य	2
		8	25 से 55 क		
		9	26 से 80		
		10	82 से 107		
1.	बरखेडा लोया	1 बरखेडा लोया	2 से 29/4	अ0जा0	2
		2	30 से 59 क	अ0ज0जा0	0
		3	60 से 81	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	82 से 117	महिला अ0जा0	1
		5	118 से 144	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	145 से 184	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	187 से 215	महिला सामान्य	6
		8	216 से 243		
		9	244 से 265		
		10	266 से 288		
		11	289 क से 551		
		12 बावडीखेडी	1 से 21		
		13 बरखेडी	1 से 14		
		14 आउट एरिया	1 से 99 क/1		
		15	100/1 से 119/13 ख		
		16	120 से 145 त/2		
		17	145 ड से विएस का		
		18	93 ख से 169/1		
		19	170 से 289		
		20	171 से 155		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बंजारी गरोठ	1 बंजारी	1 से 19	अ0जा0	1
		2	20 से 39	अ0ज0जा0	0
		3	40 से 58	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	59 से 83	महिला अ0जा0	1
		5	84 से 109	महिला अ0ज0जा0,	0
				महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		6	110 से 137		
		7	138 से 165	महिला सामान्य	4
		8	166 से 177 छ		
		9	181 क से 260		
		10 लालु का डेरा	178 से 203		
		11	204 से 222		
		12 भाना का डेरा	223 से 240		
		13	241 से 258		
1.	पिपल्या मिट्टेशाह	1 पिपल्या मिट्टेशाह	1 से 121 ख	अ0जा0	1
		2	22खसे 33घ	अ0ज0जा0	0
		3	34 से 46	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	47 से 61	महिला अ0जा0	0
		5	62 से 82/2	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	83 से 103	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	104 से 123	महिला सामान्य	5
		8	124 से 142		
		9	143 से 164		
		10 रूपरा	04से 13		
		11	14/2से 28/1		
		12	29 से 48		
		13	49 से 66		
		14	69 से 112		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1.	कुण्डालिया चरणदास	1 कुण्डालिया चरणदास	1/2 से 16	अ0जा0	2	
		2	17 से 27	अ0ज0जा0	0	
		3	29 से 41/4	अन्य पिछडा वर्ग	4	
		4	42/2 से 50	महिला अ0जा0	1	
		5	51 से 63/1	महिला अ0ज0जा0,	0	
			63/2 से 79	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
		6				
		7 जोडमी	01 से 13क	महिला सामान्य	6	
		8	14क से 31			
		9	32 से 52			
		10	53 से 67			
		11 जोडमा	01 से 13			
		12	14/क से 31			
		13	31क से 44 ख			
		14	45 से 59			
		15	59/1 से 70क			
		16	71 से 88			
		17 डिडोर	3 से 13			
18	14 से 23 क					
1.	आक्याकुंवरपदा	1 आक्या कुंवर पदा	1 से 24	अ0जा0	1	
		2	25 से 45	अ0ज0जा0	0	
		3	46 से 62	अन्य पिछडा वर्ग	3	
		4	63 से 82	महिला अ0जा0	0	
		5	83 से 105	महिला अ0ज0जा0,	0	
		6	106 से 129	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
		7	131 से 143	महिला सामान्य	4	
		8	145 से 172			
		9	173 से 194			
		10 हिंगोरिया	1 से 21			
		11 हिंगोरिया खेडा	1 से 11			
			12	12 से 30		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	खजुरीरुण्डा	1 खजुरी रुण्डा	01 से 31 क तक	अ0जा0	1
		2	32 से 61 तक	अ0ज0जा0	0
		3	62 से 92 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	93 से 129 तक	महिला अ0जा0	1
		5	130 से 155 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	156 से 184 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	185 से 208 तक	महिला सामान्य	3
		8	209 से 254 क तक		
		9	255 से 353 तक		
		10	354 से 379 तक		
		11	257 क से 305 तक		
		12	306 से 468 क तक		
1.	रणायरा	1 रणायरा	01 से 16	अ0जा0	2
		2	17 से 26	अ0ज0जा0	2
		3	27 से 34	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	35 से 44	महिला अ0जा0	1
		5	45 से 68	महिला अ0ज0जा0,	2
		6	73 से 110	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	76 से 110घ	महिला सामान्य	0
		8 कछालिया	01 से 21		
		9	22 से 37		
		10	38 से 51		
1.	बर्डिया अमरा	1 बर्डिया अमरा	1 से 31 तक	अ0जा0	5
		2	32 से 53	अ0ज0जा0	0
		3	54 से 72	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	73 से 104	महिला अ0जा0	3
		5	105 से 136	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	137 से 164	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	165 से 190	महिला सामान्य	5
		8	191 से 210		
		9	211 से 238		
		10	239 से 270		
		11	271 से 286		
		12	287 से 318		
		13	319 से 377		
		14	378 से 418		
		15	419 से 433		
		16	434 से 445		
		17 वारनी	1 से 14क		
		18	14ख से 30		
		19	31 से 51		
		20 गज्जाखेड़ी	2 से 19		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	दसोरिया	1 दसोरिया	1-15	अ0जा0	3
		2	16-30	अ0ज0जा0	0
		3	31-49	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	50-75	महिला अ0जा0	2
		5	76-106	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	107-133 क	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	134-146	महिला सामान्य	3
		8	147क-162		
		9	163-180		
		10	182-198 क		
		11	200-215		
		12	216-237		
		13	238-271		
1.	पिपल्यामोहम्मद	1 पिपल्य मोहम्मद	1 से 10 क	अ0जा0	2
		2	11 से 25	अ0ज0जा0	0
		3	26 से 38 क	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	39 से 48	महिला अ0जा0	1
		5	49 से 59	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	60 से 73	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	74 से 83	महिला सामान्य	2
		8 माणकी	1 से 11 ख		
		9	12 से 264 छ		
1.	सगोरिया	10 घट्ट्या	1 से 19		
		1 सगोरिया	1 से 15	अ0जा0	3
		2	16 से 31	अ0ज0जा0	0
		3	32 से 46	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	47 से 59	महिला अ0जा0	2
		5	60 से 79	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	81 से 97	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	98 से 120	महिला सामान्य	3
		8	121 से 142		
		9	143 से 162		
		10	163 से 179		
		11	180 से 197		
		12	198 से 218		
		13	219 से 234/2		
14	235 से 244				

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आकली शिवदास	1 आकली शिवदास	1 से 23	अ0जा0	3
		2	24 से 36/3	अ0ज0जा0	0
		3	37 से 50	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	51 से 61/2	महिला अ0जा0	2
		5	62 से 76	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	77 से 101	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	102 से 120/2	महिला सामान्य	3
		8	121 से 124/1		
		9	125 से 68/20		
		10 परासली	1 से 27/क		
		11	28 से 56		
		12 खांखरी	1 से 16/2		
		13	18 से 29		
		14	31 से 40		
1.	कुरलासी ,	1 कुरलासी	1 से 11	अ0जा0	2
		2	12 से 28	अ0ज0जा0	1
		3	29 से 45 क	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	46 से 66	महिला अ0जा0	1
		5	67 से 79	महिला अ0ज0जा0,	1
				महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		6	80 से 101		
		7	102 से 122	महिला सामान्य	4
		8	123 से 132		
		9	133 से 854		
		10	158 से 166		
		11 बरखेडी मिठ्ठू	1 से 6 क तक		
		12	6 ख से 19 तक		
		13	20 क से 30 तक		
		14	32 से 42 तक		
		15	43 से 52 तक		
		16	53 से 66 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का प्रवर्ग	विवरण संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	ढाकनी	1 ढाकनी	1 से 32	अ0जा0	3
		2	22 क से 37	अ0ज0जा0	0
		3	37 क से 51 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	52 से 64	महिला अ0जा0	2
		5	65 से 86	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	87 से 97	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	98 से 108	महिला सामान्य	3
		8	109 से 127		
		9	128 से 146		
		10	147 से 200		
		11 झिरन्या	1 से 15		
		12	16 से 84 न		
		13 चुकनी	1 से 23		
		14	24 से 39		
1.	बामनी	1 बामनी	01से 13	अ0जा0	1
		2	14 से 25ख	अ0ज0जा0	0
		3	26क से 42	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	42ख से 52	महिला अ0जा0	1
		5	53 से 68	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	70 से 84	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	85 से 96	महिला सामान्य	2
		8 रोज्या	01 से 10		
		9	11 से 22 ग		
		10	22घ से 43		
		11 बंजारो का डेरा	32 से 61		
		12 कंथारिया	01 से 91		
1.	पावटी	1 पावटी	1 से 14	अ0जा0	3
		2	15 से 38 क	अ0ज0जा0	0
		3	39 क से 64	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	65 क से 96	महिला अ0जा0	2
		5	97 से 121	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	123 ग से 358	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	115 क से 172	महिला सामान्य	5
		8	173 से 200		
		9	201 से 220 ख		
		10	221/1 से 237/1		
		11	237/1 से 247/2		
		12	249 से 267/1		
		13	271 से 293		
		14	283 से 312		
		15	313 से 332		
		16	333 से 355		
		17	356 से 386		
		18	387 से 418 क		
		19	419 से 470		
		20 रेल्वे स्टेशन	1 से 121		

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	चिकिन्या	1 चिकिन्या	1 से 12 तक	अ0जा0	1
		2	13 से 30 तक	अ0ज0जा0	0
		3	31 से 50 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	51 से 64 तक	महिला अ0जा0	0
		5	65 से 79 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	80 से 105 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	108 से 123 तक	महिला सामान्य	7
		8	124 से 141 तक		
		9	142 से 158 तक		
		10	159 से 185 तक		
		11	186 से 647 ख तक		
		12	192 से 208 तक		
		13	209 से 219 ग तक		
		14	219 घ से 225/2 क तक		
		15	226 से 252 क तक		
		16 सपानिया	1 से 21 ग तक		
		17	22 से 31/1 तक		
		18	31/2 से 45 तक		
		19	46 से 64 तक		
		20	65 से 82 क तक		
1.	बोलिया	1 बोलिया	1 से 43	अ0जा0	2
		2	44 से 91	अ0ज0जा0	0
		3	92 से 135	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	136 से 197	महिला अ0जा0	1
		5	198 से 242	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	244 से 303 ख	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	304 से 329	महिला सामान्य	6
		8	330 से 357 ख		
		9	358 से 407		
		10	408 से 462		
		11	464 से 509		
		12	510 से 580		
		13	581 से 636		
		14	637 से 710		
		15	711 से 752		
		16	753 से 817		
		17	818 से 870 घ		
		18	875 से 943		
		19	944 से 992		
		20	993 से 2870		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	चांदखेड़ी खुर्द	1 चॉदखेड़ी खुर्द	1 से 10 तक	अ0जा0	0
		2	11 से 22 तक	अ0ज0जा0	0
		3	23 से 40 तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	40 क से 51 तक	महिला अ0जा0	0
		5	52 से 62 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	62 क से 70 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 फरन्याखेडी	1 से 16 तक	महिला सामान्य	5
		8	17 से 30 तक		
		9	31 से 43 तक		
		10	44 से 62 तक		
		11 पिपल्या घाटा	1 से 18 तक		
		12	20 से 29 तक		
		13	30 से 45 तक		
1.	कोटड़ा बुजुर्ग	1 कोटडा बुजुर्ग	1 से 20 तक	अ0जा0	3
		2	21 से 43 तक	अ0ज0जा0	2
		3	44 से 79 तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	80 से 111 तक	महिला अ0जा0	1
		5	112 से 135 तक	महिला अ0ज0जा0,	2
		6	136 से 161 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	163 से 193 तक	महिला सामान्य	4
		8	194 से 229 तक		
		9	230 से 266 तक		
		10	267 से 309 तक		
		11	310 से 332 तक		
		12	334 से 363 तक		
		13	364 से 385 तक		
		14	387 से 415 तक		
		15	416 से 450 तक		
		16	452 से 492 तक		
		17	493 से 523 तक		
		18 बरखेडा अम्बेखा	1 से 21 तक		
		19	22 से 41 तक		
		20	42 से 76 तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	विशन्धा	1 विशन्धा	1 से 11 तक	अ0जा0	2
		2	12 से 28 तक	अ0ज0जा0	0
		3	29 से 40 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	41 से 55 तक	महिला अ0जा0	1
		5	56 से 71 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
				महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		6	72 से 88 तक		
		7	89 से 107 तक	महिला सामान्य	6
		8 सुराखेडी	1 से 11 तक		
		9	12 से 23 तक		
		10	24 से 41 तक		
		11	42 से 56 क तक		
		12	57 से 71 तक		
		13	72 से 89 तक		
		14 पालखण्डा	1 से 17 तक		
		15	18 से 41 तक		
		16	42 से 58 तक		
		17	59 से 11 तक		
1.	गुराड़ियामाता	1 गुराड़िया माता	1 से 15	अ0जा0	2
		2	16 से 34	अ0ज0जा0	0
		3	35 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	52 से 71	महिला अ0जा0	0
		5	72 से 91	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	92 से 111	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 चांदखेडी बुजुर्ग	1 से 9	महिला सामान्य	3
		8	10 से 21		
		9	21/1 से 32		
		10	33 से 45		
		11	46 से 57		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	खजुरीपंथ	1 खजुरीपंथ	1 क से 11	अ0जा0	3
		2	12 से 26	अ0ज0जा0	0
		3	27 से 41	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	42 से 55	महिला अ0जा0	1
		5	57 से 77	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	78 से 98	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	100 से 122	महिला सामान्य	6
		8	123 से 145		
		9	147 से 167		
		10	168 से 187		
		11	188 से 204		
		12	205 से 225		
		13	226 से 245 क		
		14	247 से 264		
		15	265 से 286		
		16	287 से 304		
		17	305 से 325		
		18	326 से 348 क		
		19	349 से 367		
		20	369 से 393		
1.	आकली दीवान	1 आकली दिवान	1 से 28	अ0जा0	3
		2	29 से 51	अ0ज0जा0	0
		3	52 से 72	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	73 से 110	महिला अ0जा0	2
		5	113 से 136	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	137 से 156	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	158 से 184	महिला सामान्य	2
		8	185 से 206		
		9	207 से 337		
		10	338 से 388		
		11 खेजड़िया	1 से 16		
		12	17 से 33		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	ढाबला गुर्जर	1 ढाबला गुर्जर	01 से 36 क तक	अ0जा0	3
		2	37 से 55 तक	अ0ज0जा0	0
		3	56 से 75 तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	76 से 95 क तक	महिला अ0जा0	2
		5	95 ख से 113 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	115 से 132 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	133 से 152 तक	महिला सामान्य	3
		8	153 से 172/4 तक		
		9	173 से 182 क तक		
		10	183 से 182 घ तक		
		11	193 से 205 तक		
		12	206 से 225 तक		
		13	226 से 246 तक		
		14	247 से 269 तक		
		15	270 से 286 क		
1.	हनुमंतिया	1 हनुमन्तिया	1 से 14	अ0जा0	2
		2	15से 32	अ0ज0जा0	0
		3	33 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	52 से 70	महिला अ0जा0	0
		5	71 से 90	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	91 से 109	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	110 से 128	महिला सामान्य	3
		8	130 से 148		
		9 तरावली	0 से 24		
		10	25 से 44		
		11	45 से 62		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	मकड़ावन	1 मकड़ावन	1 से 20	अ0जा0	4
		2	22 से 52	अ0ज0जा0	0
		3	54 से 74/1	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	76 से 100	महिला अ0जा0	2
		5	102 से 119	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	120 से 145	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 जूनापानी धोरन्या	1 से 21	महिला सामान्य	2
		08	23 से 38		
		09	40 से 64		
		10	65 से 88		
		11	89 से 111/1		
1.	बरखेड़ा राठौर	1 बरखेड़ा राठौर	1 से 31	अ0जा0	5
		2	32 से 55	अ0ज0जा0	0
		3	56 से 76	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	77 से 97	महिला अ0जा0	3
		5	98 से 128	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	129 से 147	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
		7	148 से 169	महिला सामान्य	2
		8	170 से 188		
		9	189 से 210/1		
		10	210 से 221		
1.	परासली दीवान	1 परासली दीवान	1 से 11	अ0जा0	2
		2	14 से 31	अ0ज0जा0	0
		3	32 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	52 से 71	महिला अ0जा0	1
		5 धतुरिया	1 से 13	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	14 से 30	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	31 से 68	महिला सामान्य	2
		8 कोटड़ी अक्खा	1 से 10		
		9	11 से 29		
		10	32 से 52		
1.	धामनिया दीवान	1 धामनिया दीवान	1 से 17	अ0जा0	2
		2	19 से 34	अ0ज0जा0	0
		3	35 से 53	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	54 से 68	महिला अ0जा0	1
		5	69 से 86	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	87 से 97	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	98 से 113	महिला सामान्य	2
		8	114 से 132/2		
		9	133 से 147/1		

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
1	2	3	4	प्रवर्ग	6
1.	सुरजना जुना	1 सूरजना जूना	1 से 21	अ0जा0	3
		2	22 से 36	अ0ज0जा0	0
		3	37 से 52	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4	53 से 75	महिला अ0जा0	2
		5	76 से 96	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	97 से 114	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	115 से 130	महिला सामान्य	5
		8	135 से 157		
		9	158 से 168		
		10 खार्खेडा	1 से 25		
		11	26 से 47		
		12	48 से 62		
		13	63 से 76		
		14 सूरजना नया	1 से 23		
		15	25 से 46		
		16	47 से 52		
		17 एमदी	1 से 26		
		18	28 से 53		
		19	1 से 64		
		20 खेरखेडी	1 से 24		
1.	सेमलीशंकर	01 सेमलीशंकर	01 से 11/2	अ0जा0	4
		2	12/1 से 22	अ0ज0जा0	0
		3	23 से 33	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	34 से 44/5	महिला अ0जा0	2
		5	45 से 58	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	59 से 07	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	08 से 34	महिला सामान्य	1
		08 नारिया खुर्द	01 से 11		
		9	13 से 17/5		
		10	18 से 26		

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बरखेड़ा उदा	1 बरखेड़ा उदा	1 से 21	अ0जा0	2
		2	22 से 45	अ0ज0जा0	0
		3	46 से 64	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	65 से 80	महिला अ0जा0	1
		5	82 से 96	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	97 से 108	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	109 से 126	महिला सामान्य	5
		8 छावन	1 से 28		
		9	28 क से 36 ग		
		10	38 से 60		
		11	61 से 76		
		12 माकड़ी चामुण्डा	1से 17		
		13	17 क से 33		
		14	34 से 55		
		15 सेमली हाड़ा	1 से 13		
		16	14 से 35		
1.	नारियाबुजुर्ग	1 नारिया बुजुर्ग	1 से 15 तक	अ0जा0	3
		2	16 से 40	अ0ज0जा0	0
		3	41 से 64	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	65 से 89	महिला अ0जा0	2
		5	90 से 105	महिला अ0ज0जा0,	1
		6	106 से 139	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	140 से 157 / 1	महिला सामान्य	2
		8	158 से 177		
		9	178 से 201		
		10 मानपुरा	1 से 24		
		11	25 से 42		
		12	43 से 71		
		13	72 से 106		
1.	फूलखेड़ा	1 फूलखेडा	1 से 16	अ0जा0	3
		2	17 से 36	अ0ज0जा0	0
		3	37 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	52 से 64	महिला अ0जा0	2
		5	65 से 77	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	78 से 92 क	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	93 से 121	महिला सामान्य	1
		8 रेल्वे स्टेशन गरोट	0 से 13 क		
		9 लाखाखेडी	0 से 10		
		10	11 से 108 ख		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नलखेड़ा	1 नलखेड़ा	1 से 18 तक	अ0जा0	3
		2	19 से 39 तक	अ0ज0जा0	0
		3	40 से 60 तक	अन्य पिछडा वर्ग	2
		4	61 से 78 तक	महिला अ0जा0	1
		5	79 से 88 तक	महिला अ0ज0जा0,	0
		6 जूनापानी (पावटी)	1 से 13 तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
		7	14 से 58 तक	महिला सामान्य	2
		8 सेमली दिवान	1 से 20 तक		
		9	21 से 41 तक		
		10	42 से 66 तक		
1.	खारखेड़ा	1 खारखेड़ा	1 से 15	अ0जा0	3
		2	16 से 30	अ0ज0जा0	0
		3	31 से 49	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	51 से 64	महिला अ0जा0	1
		5	65 से 83	महिला अ0ज0जा0,	0
		6	85 से 95क	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7 कोटडाखुर्द	1 से 16	महिला सामान्य	6
		8	17 से 39		
		9	41 से 59		
		10	60 से 75		
		11	76 से 90		
		12	92 से 103		
		13 कालाखेड़ा	1 से 18		
		14	20 से 38		
		15	39 से 54		
		16	55 से 71		
		17	72 से 82		

## कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) जिला हरदा मध्यप्रदेश

जिला पंचायत  
परिशिष्ट-5(ब)

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 5188-पं. निर्वा-2014.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये अंकित आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

## सारणी

अनु- क्रमांक	जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरदा	1	हंडिया, नयापुरा, हीरापुर, मांगरूल, रातातलाई, उवां भादुगांव, कोलीपुरा, खेड़ा, बेसवां, अजनासरैयत, बैडी, कचबैडी, रेलवां, देवतलाब, सिगोन, झाड़पा पश्चिम, पचोला, धनगांव, कायागांव, साल्याखेड़ी, बागरूल, कांकड़दा, झालवा.	अ. जा.	2
				अ. ज. जा.	3
				अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला अ. जा.	1
				महिला अ. ज. जा.	2
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 -
2		2	रिजगांव, अबगांवकला, करताना, कुहीगवाडी, तजपुरा भवरास, छीपानेर, सोनखेड़ी, नांदरा, आदमपुर, खेड़ीनीमा, भुनास, डगावानीमा, अबगांव खुर्द, पिड़गांव, गोगिया, हरदा खुर्द, गोंगागांव खुर्द, उड़ा सुरजना.		
3		3	उन्द्रकच्छ, धौलपुर कला, सन्यासा, चारखेड़ा, छिदगांवमेल, पोखरनी, बघवाड़, बिच्छपुर, अहलवाडा, नौसर, गोंदड़ी, बाजनिया, सामरधा, नयागांव, गाड़ामोड़कला, रायबोर, गोंदागांवकला, पीपल्याकला, गुल्लास, लछोरा, रूदलाय.		
4		4	नजरपुरा, रहटगांव, फुलड़ी, बरकला, गाड़ामोड़खुर्द, टेमागांव, डोलरिया, भादुगांव, सिरकम्बा, आलमपुर, दूधकच्छ, छिदगांव तमोली, पानतलाई, सोहागपुर, सोडलपुर, सौंताड़ा, मनियाखेड़ी, नांदवा, निमार्चाखुर्द.		
5		5	रैसलपुर, झाड़पा, मगरधा, धुरगाड़ा, मोहनपुर, गहला, नकवाड़ा, बालागांव, सिरकम्बा, सुखराम, खामापड़वा, कुकरावद, कनारदा, खिड़कीवाला, खमगांव, भाटपेटिया, रन्हाई कला, रहटाखुर्द, बून्दड़ा, जिजगांव खुर्द.		
6		6	सोनतलाई, पांचातलाई, करनपुरा, छिड़गांव, नीमगांव, कड़ोलाउवारी, पलासनेर, मसनगांव, बीड़, कमताड़ा, रोलगांव, डगांवाशंकर, बारंगी, खमलाय, बारंगा, कल्या खेड़ी, केलनपुर, सामरधा, हनीफाबाद, बिछोलामाल, मरदानपुर, बैरागढ़, कालकुण्ड.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7		7	सारंगपुर, पाहनपाट, कुड़ावा, मांदला, सक्तापुर, मुहालकला, चौकड़ी, पोखरनी, पीपल्या भारत, पड़वा, पहटकला, बावड़िया, डेडगांवमाल, कानपुरा, चारुवा, नगावामाल, कालधड़, बम्हनगांव, धनवाड़ा, सारसूद, कड़ोला राघौ, बड़नगर.		
8		8	सांगवामाल, टेमलावाड़ी, प्रतापपुरा, मक्तापुर, छुरीखाल, जूनापानी (भवरदी), मोरगढ़ी, रामटेक, कुकड़ापानी, सांवलखेड़ा, हसनपुरा, सोमगांवकला, भगवानपुरा, नहालीकला, दीपगांवकला, आमासेल, ढोलगांवकला, बेड़ियाकला, जटपुरामाल, जयमलपुरा, लोलांगरा.		
9		9	जिनवानिया, रामपुरा, सिराली, धनकार, मेहन्द्रगांव, पीपल्या (खूदिया), खूदिया, जूनापानी (मकड़ाई), जामन्याखुर्द, चिकलपाट, सांवरी, मकड़ाई, पटालदा, गोमगांव, आमाखाल, जामुखो, महाड़िया, रहटकला.		
10		10	कचनार, केली, मालेगाव, रातामाटी, कायदा, रवांग, टेमरूबहार, चन्द्रखाल, लाखादेह, बोरी, राजाबरारी, बड़झिरी, कायरी, बड़वानी, कासरनी, छीरपुरा, झाड़बीड़ा, कपासी, बोरपानी, आमसागर, बांसपानी, बंशीपुरा, बोथी, पाटियाकुआ, लोधीढाना.		

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

जनपद पंचायत  
परिशिष्ट-5( ब )

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 5188-पं. निर्वा-2014.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खंड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	टिमरनी जिला हरदा	1	लाखादेह, बड़झिरी, बंशीपुरा, बांसपानी,	अ. जा.	4
2		2	मालेगांव, रातामाटी, बोरपानी, केली	अ. ज. जा.	9
3		3	कचनार, पाटियाकुआं, रवांग, लोधीढाना	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	राजाबरारी, टेमरूबहार	महिला अ. जा.	2
5		5	कायदा, चंद्रखाल, बड़वानी	महिला अ. ज. जा.	5
6		6	छीरपुरा, बोथी, कायरी, बोरी	महिला अ.पि.व.	-
7		7	कासरनी, आमसागर, खमगांव	महिला सामान्य	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	टिमरनी, जिला हरदा	8	टेमागांव, डोलरिया, नांदवा, कपासी		
9		9	सिरकबा, उद्राकच्छ, सौताड़ा		
10		10	छिदगांवमेल, भादूगांव, रायबोर		
11		11	धौलपुरकलां, सामरधा, पीपल्याकलां		
12		12	पोखरनी, बिच्छापुर		
13		13	बाजनिया, नयागांव, बघवाड़		
14		14	गोदडी, गाडामोडकलां, कुहीगवाडी		
15		15	गोंदागांवखुर्द, छिपानेर, लछोरा		
16		16	भवरास, गुल्लास, सन्यासा		
17		17	करताना, तजपुरा, रूंदलाय		
18		18	अहलबाडा, गोंदागांवकला, नौसर		
19		19	चारखेड़ा, वरकलां, निमाचाखुर्द		
20		20	मनियाखेड़ी, सोहागपुर, खिड़की		
21		21	सोडलपुर		
22		22	छिदगांवतमोली, दुधकच्छ, पानतलाई		
23		23	फुलडी, गाडामोडखुर्द, आलमपुर		
24		24	नजरपुरा, झाड़बीडा		
25		25	रहटगांव		

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

जनपद पंचायत  
परिशिष्ट-5( ब )

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 5188-पं. निर्वा-2014.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खंड पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु क्रमांक	जनपद/जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खिरकियां	1	चौकडी, पाहनपाट, सारंगपुर	अ. जा.	4
		2	धनवाडा, कुड़ावा, नगावामाल	अ. ज. जा.	9
		3	खमलाय, बड़नगर, काल्याखेडी, बम्हनगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	मादंला, बारंगी, बारंगा	महिला अ. जा.	2
		5	पोखरनी, पड़वा, कालधड	महिला अ. ज. जा.	5
		6	चारूवा	महिला अ.पि.व.	0
		7	कानपुरा, टेमालाबाडीमाल, डेडगांवमाल, जयमलपुरा	महिला सामान्य	5
		8	प्रतापपुरा, जूनापानीभवरदी, मक्तापुर		
		9	मोरगढी, छुरीखाल, कुकडापानी		
		10	चिकलपाट, सावंरी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	खिरकिया	11	जूनापानी मकडाई, जामन्याखुर्द		
		12	मकडाई, जमुखो, पटाल्दा, आमाखाल		
		13	खुदिया, गोमगांव, पीपल्याखुदिया		
		14	महेन्द्रगांव, धनकार		
		15	सिराली		
		16	जिनवानिया, नहालीकलां		
		17	आमासेल, लोलांगरा, ढोलगांवकलां		
		18	भगवानपुरा, सोमगांवकलां, हसनपुरा		
		19	दीपगांवकलां, रामपुरा, सांवलखेडा		
		20	जटपुरामाल, रामटेकरैयत		
		21	रहटाकलां, कालकुण्ड, मुहाडिया		
		22	मुहालकलां, पीपल्याभारत, पहटकलां		
		23	सांगवामाल, कडोलाराघौ, सारसूद, बाबडिया		
		24	बैडियाकला, सक्तापुर, मरदानपुर		

## सारणी

अनु- क्रमांक	जनपद/जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरदा	1	मसनगांव, कमताड़ा	अ. जा.	5
		2	मोहनपुर, गहाल, धुरगाड़ा	अ. ज. जा.	7
		3	डगांवाशंकर, रोलगांव	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
		4	रैसलपुर, झाड़पा, नकवाड़ा	महिला अ. जा.	3
		5	जिजगांवखुर्द, बूंदड़ा, बालागांव	महिला अ. ज. जा.	4
		6	खामा पड़वां, केलनपुर, सुखरास	महिला अ.पि.व.	3
		7	रन्हाईकला, कुकरावद, कनारदा	महिला सामान्य	3
		8	मगरधा, सिरकम्बा		
		9	उड़ा, भाटपरेटिया		
		10	कडोला उवारी, रहटाखुर्द, बैरागढ़		
		11	हरदा खुर्द, पिड़गांव		
		12	आदमपुर, रिजगांव, नादंरा, गोगिया		
		13	अबगांवकला, भुन्नास		
		14	अबगांवखुर्द, डगावानीमा, सोनखेडी		
		15	सुरजना, खेड़ीनामा, हीरापुर, बागरूल		
		16	हंडिया, मागरूल		
		17	सिगोन, उवां, साल्याखेडी		
		18	भादुगांव, देवतलाब, कोलीपुरा		
		19	रेलवां, अजनास रैयत, खेड़ा		
		20	बिछोलामाल, हनीफाबाद, काकडदा		
		21	रातातलाई, पचोला, बेसवा, नयापुरा		
		22	सोनतलाई, करनपुरा, कचबैडी, झालवा		
		23	छिड़गांव, पांचातलाई, धनगांव		
		24	बीड़, पलासनेर, नीमगांव		
		25	सामरधा कायागांव, बैड़ी, झाड़पा (नवीन)		



ग्राम पंचायत  
परिशिष्ट-5(अ)

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 5188-पं. निर्वा-2014.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला हरदा मध्यप्रदेश, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	खमलाय	1	खमलाय	1	कमला बट्टीप्रसाद	8/1 सुशीला अनोखीलाल	अ. जा.	3
	—	2	—	9	प्यारेलाल राधू	23 मनीषाबाई	अ. ज. जा.	3
	—	3	—	23/1	रमेश रामप्रसाद	39 दिनेश कुमार	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	—	4	—	39	हरिशंकर रामगोपाल	54 निशाबाई	महिला अ. जा.	2
	—	5	—	55	हजारी पोखर	74 अनसुईयाबाई	महिला अ. ज. जा.	2
	—	6	—	75	प्रकाश रामचंद्र	91 प्रियंकाबाई	महिला अ.पि.व.	2
	—	7	—	91/1	लखनलाल	108 शोभाबाई	महिला सामान्य	2
	—	8	—	109	भीम कृष्णचंद	127 कंचनबाई		
	—	9	—	129	उमेश घासीराम	150 अनिलकुमार		
	—	10	—	151	शांता बाई	167 लोकेश		
	—	11	—	168	गोपाल गिरधारी	180 वर्षा		
	—	12	—	181	गुलाबबाई लक्ष्मीनारायण	192 अंत तक		
	—	13	हरपालिया	1	रमेश्वर बालाराम	15क कमलाबाई कचरया		
	—	14	—	16/2	रामभरोष सिकदार	32/2 रजनीबाई		
	—	15	—	33	अनारबाई	42/2 मनीषाबाई		
	—	16	—	43/1	नारायण मांगीलाल	56 सुनिताबाई		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	बारंगा	1	बारंगा	1	गुलाब नारायण	12 रिकी विपिन	अ. जा.	2
	—	2	—	13	ब्रजमोहन रामदास	27 नीरू राजेश	अ. ज. जा.	5
	—	3	—	29	गुलाबबाई पन्नालाल	38 जयंति प्रेमनारायण	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	—	4	—	39	गजराजसिंह शिवराम	61 सकुनतला भगवान	महिला अ. जा.	1
	—	5	—	63	कुंजीलाल गोविन्द	76/1 तुलसबाई बलीराम	महिला अ. ज. जा.	3
	—	6	—	77	रमेश भीका	98 पंकज प्रभूदयाल	महिला अ.पि.व.	0
	—	7	—	99	बसंतीबाई श्रीराम	112 मेगा सुनिल	महिला सामान्य	2
	—	8	—	113	मंशाराम कालू	121 अरूणा राजकुमार		
	—	9	—	122/1	अर्जुन सुखराम	142 सोमति गंजानंद		
	—	10	झांझरी	21	उर्मिला लखनलाल	26ज मालती रूपसिंग		
	—	11	—	26झ	रामकुंवर रामलाल	44 अनिता राजेन्द्र		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	धनवाड़ा	1	धनवाड़ा	1	रेखाबाई ओमप्रकाश	15	कोमल ब्रजेश	अ. जा.	2
	-''-	2	-''-	16	लक्ष्मीनारायण रामकिशन	28	मालती गोविन्द	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	30	तुलसीराम बोदर	40/1	संगीता रामकृष्ण	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	41	रामनारायण नाथुराम	55	ललता चन्दूलाल	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	56	धापूबाई रंगलाल	72	रेशम शंकर	महिला अ. ज. जा.	1
	-''-	6	-''-	74	पन्ना बुद्ध	87/1	राहुल रामौतार	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	88/1	नाथुराम बाबूलाल	104/1	सुभाष रामाधार	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	105	राधेश्याम जागेश्वर	117	मनीषा जगदीश		
	-''-	9	-''-	118	गेदालाल उमराव	131	भारतीय भागवत		
	-''-	10	-''-	131/1	जोरोन धन्नालाल	150	सुलोचना चन्द्रराज		
	-''-	11	-''-	151	राजाराम सुखराम	163	सरस्वती दौलत		
	-''-	12	-''-	164	संतोष भीका	170/2	मुंशी श्यामसिंग		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	चौकड़ी	1	चौकड़ी	1	मथुराबाई गेंदालाल	23	ब्रजलाल प्रहलाद	अ. जा.	3
	-''-	2	-''-	23/1	श्यामलाल मनोरी	40	शिवप्रसाद रामकिशन	अ. ज. जा.	4
	-''-	3	-''-	41	तुलसीराम रामकिशन	62क	भागवती राधेलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	62ख	सुरेश राधेलाल	84	राधेश्याम रामप्रसाद	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	84क	कैलाश मोती	110	रेवाबाई रामबक्श	महिला अ. ज. जा.	2
	-''-	6	-''-	111क	रगुनाथ माधव	135	प्रमोद रामकिशन	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	136	ओमप्रकाश तुलसीराम	151क	शिवप्रसाद दलसिंग	महिला सामान्य	3
	-''-	8	-''-	152	मांगीलाल नन्हू	159	पार्वतीबाई रंगलाल		
	-''-	9	-''-	160	बिशन नत्थू	174/1	पारूलबाई विजयकुमार		
	-''-	10	-''-	175/2	रामसिंह नंदराम	197	महेश अमृतलाल		
	-''-	11	-''-	198	रामेश्वर खेमा	221	लच्छीबाई गेंदालाल		
	-''-	12	-''-	221क	हरिशंकर बाबूलाल	230	कमल देवाजी		
	-''-	13	-''-	231	गीताबाई लक्ष्मीनारायण	254	गरीबा रंगलाल		
	-''-	14	-''-	256	नन्दू बल्ला	273	अशोक कोमल		
	-''-	15	-''-	274	ब्रजलाल हरनाथ	293/2	किशोरा बाजूलाल		
	-''-	16	-''-	294	रामभरोष माधव		अंत तक.		
	-''-	17	लोध्याखेड़ी	1	बोदर पन्नालाल	22	संजूबाई रामविलास		
	-''-	18	-''-	24	अमरसिंह मोहनलाल	39	भारत रामेश्वर		
	-''-	19	-''-	40	रनछोड मयाराम	63	देवलाल रामकरण		
	-''-	20	-''-	64	मांगीलाल रामकरण		अंत तक.		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	मांदला	1	मांदला	1	नत्थू झापू	36	लक्ष्मीबाई शिवप्रसाद	अ. जा.	4
	-''-	2	-''-	37	लक्ष्मी नारायण नत्थू	62	जगन्नाथ मांगीलाल	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	63	दिनेश सूरजा	117	साउ छोगोलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	118	रामकली रंगलाल	137	हंसराज वंशगोपाल	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	138	रेहना अब्दुल	162	लक्ष्मीनारायण हरदेव	महिला अ. ज. जा.	1
	-''-	6	-''-	163	रमेश गुलाब	197/10	दीपा अशोक	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	198	हैदरशाह रमजानशाह	224	मनोहर कुंजीलाल	महिला सामान्य	4
	-''-	8	-''-	225	रामप्रसाद दुल्ला	259	मरुबाई लक्ष्मीनारायण		
	-''-	9	-''-	260	वंशीलक्ष्मीनारायण	299	मांगीलाल रामकरण		
	-''-	10	-''-	300	रामेश्वर रामकरण	330	रामभरोष शिवराम		
	-''-	11	-''-	333	रामचंद शिवराम	360	रामलाल शिवराम		
	-''-	12	-''-	361	रामचरण जगन्नाथ	392	जगदीश दुलीचंद		
	-''-	13	-''-	394	जागेश्वर पून्या	442	मांगीलाल प्रेमसिंह		
	-''-	14	-''-	443	प्रहलाद जगन्नाथ	475	विनोद रामलाल		
	-''-	15	हिवाला	1	रूपाबाई मोतीराम	14	कमलसिंह कन्हैया		
	-''-	16	-''-	15	गीता कन्हैया	24/1	गरीबदास भागीरथ		
	-''-	17	-''-	24/2	रामदास भागीरथ	37/3	मुन्नालाल चंदन		
	-''-	18	-''-	38	मथुराबाई राधेश्याम	48	भैयालाल रामकिशन		
	-''-	19	-''-	49	गुडरबाई गगाविशन	61	रामेश्वर उमराव		
	-''-	20	-''-	62/1	गंगाराम रतनसिंह	91	भारत भवरसिंह		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	मुहालकलां	1	मुहालकलां	1	राधेश्याम रामसिंह	19	राजेन्द्र प्रसाद कालूराम	अ. जा.	6
	-''-	2	-''-	20	रमेश लक्ष्मीनारायण	40	रामबाई फत्तू	अ. ज. जा.	1
	-''-	3	-''-	42	गोकुल कालूराम	62	सावित्री रामप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	63	लक्ष्मीनारायण	80	चम्पालाल बिहारी	महिला अ. जा.	3
	-''-	5	-''-	81	रामकली ओकारप्रसाद	99	राधेश्याम प्रहलाद	महिला अ. ज. जा.	1
	-''-	6	-''-	100	उमराव फत्तू	117	रूपसिंह जागेश्वर	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	118	कुवेर जागेश्वर	137/2	चम्पालाल	महिला सामान्य	3
	-''-	8	-''-	137	क शिवप्रसाद हरिकिशन	148	सुंदरलाल सुखदेव		
	-''-	9	-''-	150	विसमिल्ला शेरमोहम्मद	163	केवल दयाराम		
	-''-	10	-''-	164	भगवती हरिप्रसाद	176/2	प्यारेलाल बाबूलाल		
	-''-	11	-''-	178	दुर्गाप्रसाद शंकर	206	लीलाधर रामगोपाल		
	-''-	12	-''-	207	सुखराम रामगोपाल	235	चतरया चैन्या		
	-''-	13	-''-	236	कृपाराम हरीराम	259	गणेश रामलाल		
	-''-	14	नीमसराय	207	रमेशचंद्र हरिकिशन	220/1	गुलाबचंद्र परसराम		
	-''-	15	-''-	220/2	अतर परसराम	237	शिवप्रसाद भगवानदास		
	-''-	16	-''-	239	गंगाविशन लक्ष्मण	253/1	रामभाऊ परसराम		
	-''-	17	-''-	254	मांगीलाल रामलाल	264/2	शिवनारायण शोभाराम		
	-''-	18	-''-	266	गीता विशन	286	शांता सीतराम		
	-''-	19	-''-	287	रामा कन्हैया	303	सरजू गेंदालाल		
	-''-	20	-''-	303/1	गिरीश कैलाशचंद्र	808	राहुल जगदीश		
	-''-	-	इगरिया						

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	रहटॉकलॉ	1	रहटॉकलॉ	1 अशोक रामभरोष	18 बालकृष्ण रामरतन	अ. जा.	4
	--	2	--	19 नाथूराम चौधरी	33 प्रेमनारायण रामेश्वर	अ. ज. जा.	6
	--	3	--	34 सुंदरलाल कन्हैयालाल	49 रामविलास कन्हैयालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	--	4	--	50 रामविलास हृदयराम	55 नानकराम आत्माराम	महिला अ. जा.	2
	--	5	--	56 रामकृष्ण घासीराम	68 रामचंद्र हृदयराम	महिला अ. ज. जा.	3
	--	6	--	59 बाबूलाल गिरधारी	75ख जमनादास चम्पालाल	महिला अ.पि.व.	3
	--	7	--	77/1 श्यामलाल रामप्रसाद	93 शंकरलाल गोपाल	महिला सामान्य	2
	--	8	--	94 बालकृष्ण रामेश्वर	107 संदीप बट्टीप्रसाद		
	--	9	--	107 कल्लू राधेलाल	125 हरीराम गोकुलराम		
	--	10	--	126 प्रेमनारायण रामदयाल	141 लखनलाल शिवकरण		
	--	11	--	142 दुर्गाप्रसाद नारायण	154 पृथ्वीराज कमलसिंह		
	--	12	--	155 विष्णुप्रसाद नर्मदाप्रसाद	167 लक्ष्मीनारायण कन्हैयालाल		
	--	13	--	168 रामगुलाम शिवप्रसाद	183 रमेश राधेश्याम		
	--	14	--	184 सीताराम मांगीलाल	199 छननू गबू		
	--	15	--	201 भीमराज बाबूलाल	219 रामदास रामलाल		
	--	16	--	220 तुलसीराम बगडया	234 रामदीन शिवप्रसाद		
	--	17	--	234/1 संतोष राधेश्याम	253 तेजराम बगडया		
	--	18	--	254 कोमल शिवकरण	272 मांगीलाल पन्नालाल		
	--	19	--	273 गुलाबदास पटेल	307 ताराचंद नन्हू		
	--	20	--	308 कन्हैयालाल शिवकरण	532 रामदास नंदू		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	बेडियाकलां	1	बेडियाकलां	1 हरकिशन जगन्नाथ	25 नर्मदाप्रसाद रामेश्वर	अ. जा.	4
	--	2	--	26 सत्यनारायण जगन्नाथ	42 शिवचरण मोतीराम	अ. ज. जा.	0
	--	3	--	46 गेदाबाई पन्नालाल	65 प्रेमनारायण बाबूलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	--	4	--	66 शिवनारायण जयकिशन	84 गुलकीबाई झाबूलाल	महिला अ. जा.	2
	--	5	--	84/2 भागीरथ रामलाल	104 पदमसिंग रतन	महिला अ. ज. जा.	0
	--	6	--	105 अनारबाई दीना	118 भरोष बाबूलाल	महिला अ.पि.व.	2
	--	7	--	121 सुखदेव रामेश्वर	140 महेश रामगुलाम	महिला सामान्य	2
	--	8	--	141 बाबूलाल मोतीराम	158 मोहन कालूराम		
	--	9	--	159 अमरदास रामप्रसाद	176 मनोहर रणछोड़		
	--	10	--	178/1 मुंशी रामकिशन	189 ओमप्रकाश रघुनाथ		
	--	11	भीमपुरा	1 राधेश्याम राजाराम	15 छोगालाल श्रवण		
	--	12	--	16क राजकुमार नर्मदाप्रसाद	79 योगेश करणसिंह		



अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	पड़वा	1	पड़वा	1/2 हरेराम छोमेलाल	11 नीला भागीरथ	अ. जा.	3
	-''-	2	-''-	12/1 उमेद सिंह	27 मांगीलाल	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	28 राधेश्याम	42/1 प्रेमनारायण	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	42/2 सत्यनारायण	52/1 गयाप्रसाद	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	53 शारदाबाई	72 श्रीकिशन	महिला अ. ज. जा.	1
	-''-	6	-''-	73 गोकुल	93 हरनारायण	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	94 रामेश्वर	113 धर्मराज	महिला सामान्य	4
	-''-	8	-''-	113क अमरदास	121क गायत्रीबाई		
	-''-	9	-''-	123/1 सूरजसिंह	141 गयाप्रसाद		
	-''-	10	-''-	141क अर्जुन	163 शारदा बाई		
	-''-	11	-''-	165 बलीराम	180 नीतेश		
	-''-	12	-''-	181/1 लक्ष्मीबाई	192 सूरज		
	-''-	13	-''-	193 नन्हीबाई	204/1 उमेशसिंह		
	-''-	14	-''-	205 लीलाबाई	215ख राजेन्द्र		
	-''-	15	-''-	216 जगदीश	230 गोपाल		
	-''-	16	-''-	231/1 मोहन	249 लखन		
	-''-	17	-''-	252 शिवनारायण	266 शिवशंकर		
	-''-	18	-''-	282 कोमल	313 रामप्रसाद		
	-''-	19	-''-	1082 भागवत	1112 रघुनाथ		
	-''-		- तारापुर (वीरान)				
			अंतरालिया				
			(वीरान) हतनोरी				
			(वीरान)				
			हरीपुरादमामी				
			(वीरान)				

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	टेमलावाड़ीमाल	1	टेमलावाड़ीमाल	1/1 आधारसिंह हरिराम	15 गेंदालाल विसन	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	16/1 मुंशी हीरालाल	24/4 माला खेराज	अ. ज. जा.	10
	-''-	3	-''-	25 महेश श्रीराम	44/1 सुरेश कुमार	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	45 रामगोपाल खिल्या	59/2 हजारी	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	60 मथुराबाई उमेद	85 लक्ष्मीनारायण राधेश्याम	महिला अ. ज. जा.	5
	-''-	6	-''-	87 रामप्रसाद लल्लू	104 लक्ष्मीनारायण प्रह्लाद	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	106 झब्बारखां मालेखां	120/11 रामकुंवरबाई	महिला सामान्य	4
	-''-	8	-''-	123 कुसुमबाई मोहनलाल	139 बिहारी गंजा		
	-''-	9	-''-	140 रमाबाई शांतिलाल	151 मंगलसिंह मातिग		
	-''-	10	-''-	152 कालईबाई नत्थू	159/2 रूपसिंग रतन		
	-''-	11	-''-	160 सोरठबाई खेमा	172/2 रामकिशोर पटेल		
	-''-	12	-''-	173 राधेश्याम सोमा	182/2 गुलबीबाई शोभाराम		
	-''-	13	-''-	183 यशोदाबाई	197 रुपायबाई रिंगा		
	-''-	14	-''-	198 मांगीलाल सददू	210/5 धनसिंग घासीराम		
	-''-	15	-''-	210/6 भागीरथ जागेश्वर	471/1 करीम सलीम		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
टेमलावाड़ी	16	टेमलावाड़ी	1	मदन घासीराम	21	हीरालाल दादू
-''-	17	रैयत	22	रम्भोबाई	35	मांगीलाल पटेल
-''-	18	-''-	35/1	शिवराम सूबेदार	51	सजनबाई दरियाव
-''-	19	-''-	52/1	कमलसिंग गुलाबसिंह	62	कालूराम शिवराम
-''-	20	खेड़ी	1	कमलसिंह राधेलाल	17	मोतीराम सीताराम
		सरकूलर.				

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
1	चारुवा	1	चारुवा	1/1 गुलाबबी अब्दुलरजाक	44	बद्रीप्रसाद मांगीलाल	अ. जा.	5
-''-	-''-	2	-''-	46 राजेन्द्र मांगीलाल	83घ	वीरेन्द्र जीवन	अ. ज. जा.	2
-''-	-''-	3	-''-	85/1 उषाबाई रणछोड	131/1	मोहन हरीशंकर	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
-''-	-''-	4	-''-	131/3 गेदालाल बाजूलाल	165	चन्द्रशेखर लक्ष्मीनारयण	महिला अ. जा.	3
-''-	-''-	5	-''-	167 अशोककुमार शंकरलाल	196	ओमप्रकाश धन्नालाल	महिला अ.ज.जा.	1
-''-	-''-	6	-''-	197 लखनलाल बाबूलाल	240	धन्नालाल रामप्रसाद	महिला अ.पि.व.	3
-''-	-''-	7	-''-	243 दिनेश घासीराम	279	रामचरण सोन्या	महिला सामान्य	3
-''-	-''-	8	-''-	280 उमराव कोदर	329	रूखडू खुमानसिंह		
-''-	-''-	9	-''-	330 अशोक पन्नालाल	387/1	रामभाऊ गेदालाल		
-''-	-''-	10	-''-	387/2 ब्रजलाल गेदालाल	422	अकबर ईस्माईलखां		
-''-	-''-	11	-''-	426 बदरूनबी रसीदखां	453ख	रामकिशन नरसिंह		
-''-	-''-	12	-''-	454 हरकिशन बाबूलाल	480	मंगलाकान्त रामप्रसाद		
-''-	-''-	13	-''-	482 दिनेश कुंजीलाल	505	गणेश मांगीलाल		
-''-	-''-	14	महलपुरामाल	2	भगवानसिंह हलदू	120	मंगलसिंह हीरालाल	
-''-	-''-	15	जादोपुरा	1ख	धर्मेन्द्र प्रताप	100	सुखलाल दंतीलाल	
-''-	-''-	16	-''-	111	देवीसिंह नंदकिशोर	152	तीजाबाई किशोरी	
-''-	-''-	17	प्रतापपुरा सेठ	1क	नारायण नन्हू	141/2	पूनमराव केशवराव	
-''-	-''-	18	-''-	42/2	मिश्रीबाई मांगीलाल	100/1	हरिशंकर सीताराम	
-''-	-''-	19	हरीपुरामाल	1	दशरथ श्यामलाल	61क	हेमराज शिवप्रसाद	
-''-	-''-	20	-''-	63	जगन्नाथ गंगाराम	180	विरेन्द्र अशोक	

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	सांगवामाल	1	सांगवामाल	1	पार्वती दरियाव	12	गेदाबाई रामभरोष	अ. जा.	2
-''-	-''-	2	-''-	13	रामेश्वर कुंजीलाल	26	अजय गजराज	अ. ज. जा.	5
-''-	-''-	3	-''-	28	रामनारायण मोतीराम	40	उमाबाई रंगलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
-''-	-''-	4	-''-	41/1	बंद्री रामरतन	52	संजय लक्ष्मीनारायण	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	53	प्रेमनारायण गजराज	131	भूरूलाल रामाधार	महिला अ.ज.जा.	3
-''-	-''-	6	रूनझुन	1	गेदालाल उमराव	22/2	तरनुमबी कुर्बान	महिला अ.पि.व.	2
-''-	-''-	7	-''-	23	अमरसिंग शंकरलाल	36	बसंती रमेश	महिला सामान्य	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	सांगवामाल	8	रूनझुन	38/1	गोरेलाल तुलसीराम	53	आशा विजेश
	-''-	9	-''-	53/1	मांगीलाल सीताराम	67	ज्योति कन्हैयालाल
	-''-	10	-''-	67/1	अनोखीलाल मंगल	82	रेखा सत्यानारायण
	-''-	11	-''-	83	मोहन बुदु	101	अनिता गंगाराम
	-''-	12	-''-	102	सुरेश करणसिंह	165	सुंदरबाई गजराज
	-''-	13	अंजरूदमाल	1	विश्राम पून्या	14	नगीन घासीराम
	-''-	14	-''-	15	फललू कन्हैयालाल	25	राजू भगवान
	-''-	15	-''-	26	हरिराम मांगीलाल	35च	जीवन सेवाराम
	-''-	16	सांगवा सरकूलर	1	सोमा सुखराम		जगदीश सीताराम

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	मोरगढी	1	मोरगढी	2	भाउ टाटू	9	चंद्रसिंग सोमा	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	10	सालकराम बाटू	26	मांगीलाल बुदु	अ. ज. जा.	12
	-''-	3	-''-	27	नथियाबाई हरिराम	38	नंदा तुमला	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	39	जसलू बुदु	52	रमकू सोमा	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	53	नाना कालू	63ख	मोजी कालू	महिला अ.ज.जा.	6
	-''-	6	-''-	65	सीताराम तुमला	73	रूखमणी अनोखी	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	74	मांगीलाल गंगाराम	86	चंद्रसिंग परसू	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	87/1	नंदकिशोर गणपतराम	99क	प्रेमबाई मुकुद		
	-''-	9	-''-	99ख	निजामउददीन	120	सोमा सुखराम		
	-''-	10	-''-	121	मिश्रीबड़ा हीरा	132	जावेद शेर मोहम्मद		
	-''-	11	-''-	133	मूलचंद हीरालाल	154	चम्पालाल वनसिंग		
	-''-	12	-''-	155	सुखलाल जुल्मा	168	राम सावत		
	-''-	13	-''-	169	करीमखां शमशेरखां	193	जमनाबाई बुदु		
	-''-	14	-''-	193ख	शिवालाल भाउ	205ख	रामरतन शिवराम		
	-''-	15	-''-	206	रामकिशन कालू	222	विरजू खानू		
	-''-	16	-''-	223	लक्ष्मण सुखराम	236	कुर्बान रमजान		
	-''-	17	-''-	237	हनीफ घंघूखां	253	सत्तारखां सिकदारखां		
	-''-	18	-''-	254	नसरूउदीन बिल्लू	अंततक	जावेदशाह जालिमशाह		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	प्रतापुरा	1	प्रतापुरा	1	रेवाशंकर लक्ष्मीनारायण	12	रामदास रामेश्वर	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	13	प्रेमबाई हीरालाल	28/1	ब्रजलाल बुदु	अ. ज. जा.	5
	-''-	3	-''-	28/2	नर्मदाप्रसाद बुद्ध	41	रामजी आत्माराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	-''-	4	-''-	42	मथुराबाई रामाजी	54/1	हरनारायण मोहनलाल	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	56	जगदीश राजाराम	74	कमलसिंह परसराम	महिला अ.ज.जा.	3
	-''-	6	-''-	74/1	गुलाब परसराम	84/1	रघुराजसिंह बरजोर	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	85	पिटूबाई साबूलाल	92/2	शंकर मोतीलाल	महिला सामान्य	2



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	प्रतापपुरा	8	गोपालपुरा	1	शंकरलाल जागेश्वर	14	गुलाबसिंग जगन्नाथ
	-''-	9	-''-	15	शारदाबाई मांगीलाल	27	रामाधार भाउ
	-''-	10	-''-	28	फुतलबाई बोंदर	38ख	लाडकीबाई सुरेश
	-''-	11	-''-	40	कृष्णाबाई रामनाथ	56	सोनाबाई लखनलाल
	-''-	12	-''-	56क	दयाराम मल्लू	72	फगनू मोती
	-''-	13	-''-	72ख	रामाधार बालचंद	91क	भगवानसिंह रामकरण
	-''-	14	-''-	92	राधेश्याम रामलाल	105	शांतिलाल श्यामलाल
	-''-	15	भवरदी	1	हरिशंकर शिवप्रसाद	25	रविशंकर ताराचंद

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	जूनापी भवरदी	1	जूनापी भवरदी	1	ब्रजलाल	15/2	रामरतन	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	18	भगवानदास	30	श्रीराम	अ. ज. जा.	10
	-''-	3	-''-	30/1	रमाबाई	48	चिरोजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	49	समोतीबाई	60	रामकरण	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	61	सोमा	77	आत्माराम	महिला अ.ज.जा.	5
	-''-	6	-''-	77/2	परसराम	94/1	मांगीलाल	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	94/2	बुदियालाल	107	रमेश	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''-	108	गेंदालाल	119	अनिल		
	-''-	9	-''-	119/1	शंकर	139	कोदर		
	-''-	10	-''-	140	मनोहरी	156	ओमप्रकाश		
	-''-	11	भवरदी रैयत	1	दल्ला	15	रामप्रसाद		
	-''-	12	-''-	16	भागीरथ	27	नारायण		
	-''-	13	-''-	28	किशोरी	40	अंत तक		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	जूनापानी मकड़ई	1	जूनापानी मकड़ई	1	मुंशीलाल चेतू	13	अनिल प्यारेलाल	अ. जा.	0
	-''-	2	-''-	14	छननूलाल रामसू	31	लीलाबाई कालूसिंग	अ. ज. जा.	17
	-''-	3	-''-	32	शिवचरण लछीराम	49	लक्ष्मीबाई आनंदसिंग	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	50	दशरथ मंगू	70	सेवंतीबाई सियाराम	महिला अ. जा.	0
	-''-	5	लाल्याचापड़	1	संतराम कन्हैया	10	सावित्रीबाई शैतानसिंग	महिला अ.ज.जा.	9
	-''-	6	-''-	11	समियाबाई राजाराम	207	कल्लू मीरालाल	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	रिछाडिया	1	परसराम बाबू	11क	अशोक हरलाल	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''-	12	मोती भूरा	21क	सायसिंग मेवालाल		
	-''-	9	-''-	22	राजाराम बाटू	35	रेखाबाई		
	-''-	10	-''-	36क	गेंदालाल मंगल	45	सुरेश सरदार		
	-''-	11	ननीमकड़ाई	1	रामकेवल छोटेताल	15	फतूबाई मोतीराम		
	-''-	12	-''-	16	रामदयाल हीरालाल	29	मगरायबाई नानकराम		
	-''-	13	-''-	30	चतरू सालकराम	40	मुगनीबाई गुलाबदास		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जूनापानी मकड़ई	14	जूनापानी मकड़ई	41	राजाराम पेचला	52	पार्वतीबाई शिवराम
-''-	15	-''-	53	कुंजीलाल सोमा	66	मुगनीबाई सकिराम
-''-	16	सोनपुरा	1	सुकराम मांगीलाल	10	ज्योतिबाई जागेश्वर
-''-	17	-''-	11	गंगाराम बुद्धु	19	रूखमणीबाई रामशंकर
-''-	18	-''-	20	रूपायबाई स्यानु	29	नर्बदीबाई नाथूराम
-''-	19	-''-	30	बाबूलाल हीरा	52	सुनिता भूरू

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	चिकलपाट	1	चिकलपाट	1/1	तुलसीराम बुद्धु	14/2	मोतीराम	अ. जा.	0
-''-	-''-	2	-''-	16	पतिराम	28/1	गेंदलाल	अ. ज. जा.	16
-''-	-''-	3	-''-	28/2	सुकलाल	45	पार्वतीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	46/1	काशीप्रसाद	56	शोभाराम	महिला अ. जा.	0
-''-	-''-	5	-''-	57	खेमा	72	समोतीबाई	महिला अ.ज.जा.	8
-''-	-''-	6	गेनाढाना	1	सोखीलाल बाबूलाल	14	पूनम	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	15	सुखराम बाबूलाल	27	भागीरथ	महिला सामान्य	1
-''-	-''-	8	-''-	28	अनोखीलाल	40	मुन्ना		
-''-	-''-	9	-''-	41	श्यामलाल	56	देवीसिंह		
-''-	-''-	10	सुंदरपानी	1	सुन्दरबाई	14	सूरज		
-''-	-''-	11	-''-	15	विसायबाई	24	रामकिशन		
-''-	-''-	12	-''-	25	नाथूराम	45	शिवलाल		
-''-	-''-	13	-''-	46	मोतीलाल	63	नेहाललाल		
-''-	-''-	14	कुंभीखेड़ा	1	सोमा	17	देवा भगन		
-''-	-''-	15	-''-	18	आलमसिंह	36	नत्थू साल्कू		
-''-	-''-	16	-''-	37	मुन्ना सोमलाल	47	पाण्डू खानू		
-''-	-''-	17	-''-	48	सुकराम	67	मांगीलाल हीरालाल		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	कुंकड़ापानी	1	कुंकड़ापानी	1	दादू गंटू	16	छोटेला बुदु	अ. जा.	0
-''-	-''-	2	-''-	17	रूपाय बोदर	29	गंगाबाई गोविन्द	अ. ज. जा.	16
-''-	-''-	3	-''-	30	चिरोजीलाल राजाराम	41	मुंशी गंगाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	42	नत्थू कडमा	52	चम्पालाल सुखराम	महिला अ. जा.	0
-''-	-''-	5	-''-	54	रामकरण मंगल	69	श्रीराम गेंदलाल	महिला अ.ज.जा.	8
-''-	-''-	6	-''-	70	चम्पालाल खातू	83	जीवू गंगाराम	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	84	मोती सालकराम	96	रूखीबाई	महिला सामान्य	1
-''-	-''-	8	-''-	97	सोमा सालकराम	107	भूरा ओंकार		
-''-	-''-	9	-''-	108	घासीराम खानू	122	मुकेश बुदु		
-''-	-''-	10	भीमपुरा	1	सोमा मन्नु	9	गंगाबाई सुखराम		
-''-	-''-	11	-''-	10	सुकू कुंजी	22	रूपाय ओंकार		
-''-	-''-	12	-''-	23	मोती गूंगा	36	धर्मात कालू		
-''-	-''-	13	-''-	38	मगायबाई बासू	51	सुखराम कालू		
-''-	-''-	14	लफांगढाना	1	समोती चम्पालाल	10	बाबूलाल गंगाराम		
-''-	-''-	15	-''-	11	तेजराम बाबूलाल	26	सोमलाल गंगाराम		
-''-	-''-	16	-''-	27	रामा जयतू	36	भोजूलाल बाबू		
-''-	-''-	17	-''-	37	ओंकार जयतू	48	ज्ञानसिंह मंशाराम		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
1	सोमगांवकलां	1 सोमगांवकलां	3/2	अनिता दिनेश	24	निर्भयदास रामकरण	अ. जा.	1
	-''-	2 -''-	25	जुगलकिशोर तेजराम	35	राधेश्याम	अ. ज. जा.	4
	-''-	3 -''-	36	गणपत मांगीलाल	53	मांगीलाल सुखराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4 -''-	54	गुलाब चैनसिंग	70	परसराम सीताराम	महिला अ. जा.	1
	-''-	5 -''-	71	निर्मला अनोखी	95	परसराम मुंशी	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6 -''-	96	निर्मला रतन	119	दुरपता नानकराम	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7 -''-	120	हरिशंकर साबूलाल	139	राधेश्याम हीरालाल	महिला सामान्य	1
	-''-	8 -''-	140	अशोक	159	सुंदर कोमल		
	-''-	9 -''-	160	देवीसिंग रामलाल	174	निर्भयदास मांगीलाल		
	-''-	10 -''-	175	निर्भयदास गेंदालाल	185	रामाधार तेजराम		
	-''-	11 -''-	187	मंगेश बिहारी	202	अनार रामप्रसाद		
	-''-	12 -''-	203	रामलाल पून्या	740	लक्ष्मण		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
1	आमासेल	1 आमासेल	1	तेजराम मोहनलाल	16	लक्ष्मीबाई	अ. जा.	4
	-''-	2 -''-	17	राजेश	37	इमरतलाल	अ. ज. जा.	2
	-''-	3 -''-	38	सावित्रीबाई	53ख	प्रताप	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4 -''-	54	राधामोहन	68	नत्थू	महिला अ. जा.	2
	-''-	5 -''-	69	बसकरबाई	85	गरीबदास	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6 -''-	86	शिवप्रसाद	111	समोता	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7 -''-	112	दिनेश	131	रमेश	महिला सामान्य	3
	-''-	8 -''-	132	रामबाई	150	कोमलराम		
	-''-	9 -''-	151	रामप्रसाद	170	रामकुंवर		
	-''-	10 -''-	171	गुलाबबाई	184	रामकिशन		
	-''-	11 -''-	186	लखनलाल	196	रमेश		
	-''-	12 -''-	197	गुलाबसिंह	208	पन्नालाल		
	-''-	13 -''-	209	कमलाबाई	225	रामबाई		
	-''-	14 -''-	226	शिवराम	242	मांगीलाल		
	-''-	15 -''-	243	नर्मदाप्रसाद	263घ	दिनेश		
	-''-	16 -''-	264	हरीराम	270	हरीप्रसाद		
	-''-	17 -''-	271	सुंदरलाल	284	धनजी		
	-''-	18 -''-	284/1	निर्भयसिंह	393	रघुवीर		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)

1	खुदिया	1 खुदिया	1	कैलाश छोटेनाथ	20/2	चिरोजी सालकराम	अ. जा.	2
	-''-	2 -''-	21	जुगर रामप्रसाद	47/2	गजाधर सालकराम	अ. ज. जा.	3
	-''-	3 -''-	48/2	मथर अनूप	63	रमेश जोखीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
खुदिया	4	खुदिया	64	सागरबाई रामाधार	83	यारस्त्री रामप्रसाद	महिला अ. जा.	1
-''-	5	-''-	85	भूरिया जगेश्वर	98	शंकर गंगाराम	महिला अ.ज.जा.	2
-''-	6	-''-	99/1	रामभरोष गंगाराम	118/3	मांगीलाल छीतर	महिला अ.पि.व.	2
-''-	7	-''-	119	संतोष गंगाविशन	139	कुसुम सुरेश	महिला सामान्य	1
-''-	8	-''-	141	सुमंत्रा लक्ष्मण	157/2	मयाराम कन्हैयालाल		
-''-	9	-''-	158	लक्ष्मीनारायण रामेश्वर	172	रमेश रामेश्वर		
-''-	10	-''-	173	शिवनारायण रामेश्वर	187/2	बसंती बलराम		
-''-	11	-''-	189	गोविन्द बाबूलाल	200क	आधार मूलया		
-''-	12	-''-	201	लाडली शिवप्रसाद	215	रूखमणी पूनम		
-''-	-	हिंदलवाड़ (वीरान).						

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	सिराली	1	सिराली	1	फकीरचंद भागीरथ	44ड	गायत्री अनारसिंग	अ. जा.	2
-''-	-''-	2	-''-	45	सरोज नर्मदाप्रसाद	92	शारदा ताराचंद	अ. ज. जा.	2
-''-	-''-	3	-''-	93	रामनाथ शिवप्रसाद	141/1	अनिता गोकुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
-''-	-''-	4	-''-	142	संतोष मोतीराम	184	कैलाश हरेसिंह	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	185	धन्नालाल नाथूराम	236	सुषमा भारत	महिला अ.ज.जा.	1
-''-	-''-	6	-''-	237	कोकिला नर्मदाप्रसाद	282	चन्द्रीका हरदराम	महिला अ.पि.व.	3
-''-	-''-	7	-''-	284	ओंकारप्रसाद रामरतन	322/6	कविता सियाराम	महिला सामान्य	5
-''-	-''-	8	-''-	322/8	कैलाश मन्लाल	362	सायराबानो आजादखां		
-''-	-''-	9	-''-	363	सत्यनारायण मिट्टूलाल	393	ममताबाई सर्वेश		
-''-	-''-	10	-''-	396	लोकेश बालकृष्ण	435/क	सविता केशवप्रसाद		
-''-	-''-	11	-''-	436	रामदास गोपाल	466	छाया दीपक		
-''-	-''-	12	-''-	466	बालाराम सुखराम	516	दिव्या प्रवीण		
-''-	-''-	13	-''-	516	हुकुमचंद रंगलाल	561	किर्ती विजय		
-''-	-''-	14	-''-	563	कैलाश नाथूराम	609	दिनेश भारत		
-''-	-''-	15	-''-	611	कुंजीलाल चतरया	684/1	फरीदखान फारूख		
-''-	-''-	16	-''-	648/2	मुबारिक अमीरखान	684	नामजीन इस्ताख		
-''-	-''-	17	-''-	685	इस्माईल अहमीद	731	आकांक्षा योगेश		
-''-	-''-	18	-''-	732	गरीबदास मोतीराम	784	क्षमा अशोक		
-''-	-''-	19	-''-	784	शिवप्रसाद बाबूलाल	808	पायल विजय		
-''-	-''-	20	-''-	809	गोविन्द अमरसिंह	878	अनिता हरिराम		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	मुहाड़िया	1	मुहाड़िया	1	प्रहलाद	18क	दुर्गाप्रसाद	अ. जा.	3
-''-	-''-	2	-''-	19	जयनारायण	31	विजयसिंह	अ. ज. जा.	3
-''-	-''-	3	-''-	32/1	राकेश	45/2	सोहन	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
-''-	-''-	4	-''-	46	कलीराम	58	गुलखीबाई	महिला अ. जा.	2
-''-	-''-	5	-''-	59	दुर्गाप्रसाद	73	चन्द्रगोपाल	महिला अ.ज.जा.	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
मुहाड़िया	6	मुहाड़िया	74	कोमल	92	शिवप्रसाद	महिला अ.पि.व.	2
-''-	7	-''-	93	केशर	99/3	लक्ष्मीनारायण	महिला सामान्य	2
-''-	8	-''-	100	पन्नालाल	109	ईमरतीबाई		
-''-	9	-''-	110	लालू	119	निर्मलाबाई		
-''-	10	-''-	120	भागवत	138	गोदावरी		
-''-	11	-''-	144क	माखनसिंह	159	बाबूलाल		
-''-	12	बंदी	1	कृपाबाई	9	दगडू		
-''-	13	-''-	9/1	दिनेश	23	रणछोड		
-''-	14	घोघड़ाखुर्द	1	सुरेश	12	राजेश		
-''-	15	-''-	12/1	रामाधार	26	नर्मदीबाई		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	महेन्द्रगांव	1	महेन्द्रगांव	1	विष्णु	14	बद्रीप्रसाद	अ. जा.	3
-''-	-''-	2	-''-	16	रामाधार	38	मांगीलाल	अ. ज. जा.	5
-''-	-''-	3	-''-	41	विष्णु	73	माखन	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
-''-	-''-	4	-''-	79	वत्सला	98	सावित्री	महिला अ. जा.	2
-''-	-''-	5	-''-	100	रेवाराम	125	ओमप्रकाश	महिला अ.ज.जा.	3
-''-	-''-	6	-''-	128	परसराम	150	संतोष	महिला अ.पि.व.	3
-''-	-''-	7	-''-	151क	महेश रामबक्श	173	शिवराम	महिला सामान्य	2
-''-	-''-	8	-''-	178/1	रामाधार	191/3	रामभरोष		
-''-	-''-	9	-''-	193/1	शिवनारायण	212	सुशीला		
-''-	-''-	10	-''-	214/1	सोहन	235/2	रघुवीर		
-''-	-''-	11	-''-	240/1	जोखीलाल	258	मांगीलाल		
-''-	-''-	12	-''-	259	धनराज	281	हरिशंकर		
-''-	-''-	13	चौकडी	282/1	लक्ष्मीनारायण	रामचरण	21	रामविलास हरिराम	
-''-	-''-	14	खुटवाल	1	कैलाश	11	राधू किशोरी		
-''-	-''-	15	-''-	12/2	महेश मंगल	21/4	मांगीलाल		
-''-	-''-	16	बाबड़िया	3	सरजू रामदास	15	कोकिला घासीराम		
-''-	-''-	17	-''-	17	अनोखी	25	प्रहलाद		
-''-	-''-	18	-''-	26	बाबूलाल	38/1	कमलकांत		
-''-	-''-	19	-''-	39/1	गोकुल	54/1	निर्भयदास भीकाजी		
-''-	-''-	20	-''-	55	लक्ष्मीनारायण नत्थू	539क	घासीराम मांगीलाल		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	मकड़ाई	1	मकड़ाई	1	रतिराम मितापसिंग	18/1	भूपेन्द्र शाह	अ. जा.	0
-''-	-''-	2	-''-	20	हकीमाबी		रंजना अनिल	अ. ज. जा.	8
-''-	-''-	3	दुगालिया	1	सीटू बाबू	17/1	सुकिया तुलसी	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	18	हरेसिंह दशरथ	34	मांगीलाल चिरोजी	महिला अ. जा.	0
-''-	-''-	5	दूगपालपुर	1	रविकुमार पूनम		रामाधार	महिला अ.ज.जा.	4
-''-	-''-	6	भुराली	1	रामेश्वर शिवलाल	10	हरोलीबाई	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	11	मांगीलाल दादू	32	जयश्री	महिला सामान्य	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मकड़ई	8	पीपलपानी	1	पार्वतीबाई	49 सुखलाल
-''-	9	-''-	59	इशाकशाह अहशान	118/1 हरिसिंह नत्थू
-''-	10	वारानाला	1	लीलाबाई	मीरा मंगलू
-''-	-	टंटूडाना			

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	सावंरी	1	सावंरी	1	दादू राजराम	22/2	जमनाबाई रामसिंह	अ. जा.	0
-''-	-''-	2	-''-	23	सीताराम बादू	38/2	बाबू मन्हु	अ. ज. जा.	17
-''-	-''-	3	-''-	39	भोया रोहणा	47/1	राजाराम पटेल	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	48/2	भोमका टोगे	58	नानीबाई रिगा	महिला अ. जा.	0
-''-	-''-	5	झिरपी	1	जलील महाजन	16	अनोखी दीपालाल	महिला अ.ज.जा.	9
-''-	-''-	6	-''-	17	सामू भाउ	29/2	गोपाल सुखराम	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	30/1	काली नाथूराम	47/2	विश्राम जिराती	महिला सामान्य	1
-''-	-''-	8	-''-	49	भारत रतन	66/1	मोतीराम पटेल		
-''-	-''-	9	बासीगढ	1	हजारीलाल भायलू	12	राजाराम शिवलाल		
-''-	-''-	10	-''-	13	भुदली ओंकार	66	मीराबाई मंगलू		
-''-	-''-	11	आरया	1	सालकराम बालू	20	नत्थू तुमला		
-''-	-''-	12	-''-	21	लाला तुमला	57	रतनलाल साबूलाल		
-''-	-''-	13	कालाकहू	1	आसाराम ओंकार	15	सोनईबाई चुन्नीलाल		
-''-	-''-	14	-''-	16	गोपीकिशन भोग्या	29	नर्मदा प्रसाद रामेश्वर		
-''-	-''-	15	-''-	31	नत्थू भग्गा	44	परसराम बाबूलाल		
-''-	-''-	16	-''-	45	साबूलाल सीताराम	55	बलीराम हीरालाल		
-''-	-''-	17	-''-	56	गंगाराम हीरालाल	63/3	मांगीलाल बरजू		
-''-	-''-	18	खारी	1	जुगरीबाई गजराज	11	कमलाबाई कमलसिंह		
-''-	-''-	19	-''-	12	जागेश्वर सोमू	24	कल्लू दुर्ग		
-''-	-''-	20	-''-	25	बाबूलाल मुंशी	59	गुलाबसिंह गेंदालाल		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	जामुखो	1	जामुखो	1	छोटू दादू	10	हरेराम कालू	अ. जा.	0
-''-	-''-	2	-''-	11	केसू भाउ	18	शिवराम धनू	अ. ज. जा.	11
-''-	-''-	3	-''-	19	परसू जंगू	26	राजू रामगोपाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	27	गजरी सबूदार	33	सददू लक्ष्मण	महिला अ. जा.	0
-''-	-''-	5	-''-	33क	जासोबाई नंदूराम	36 ड	लखनलाल गजराज	महिला अ.ज.जा.	6
-''-	-''-	6	-''-	37	रामकरण गंगाराम	41	संजू परसू	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	41क	मनीराम फागू	83/2	अमृतलाल हरसिंह	महिला सामान्य	0
-''-	-''-	8	मोरतलाई	1	ग्यारसराम रामकिशन	13	श्रवणसंह मंशाराम		
-''-	-''-	9	-''-	14	लीलाबाई शंकरलाल	21	राधेश्याम रामेश्वर		
-''-	-''-	10	मगरया	1	भारतसिंग दशरथ	17	सम्मल सजन		
-''-	-''-	11	-''-		छोटू गोटया		गोरेलाल नीबू		
-''-	-''-	-	जामुनवरी वीरान.						

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	गोमगॉव	1	2ख	कयूब ययूब	12	कादरखान कालू	अ. जा.	1	
	-''-	2	-''-	13	जानू भूरा	26	जगराम रामा	अ. ज. जा.	11
	-''-	3	-''-	27	केवलराम	40	राधाबाई मोजीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	41	विष्णुप्रसाद	51	श्रीकिशन घनश्याम	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	52	हुकुमसिंह	62	धनू सूरा	महिला अ.ज.जा.	6
	-''-	6	-''-	63	बालकिशन घासीराम	75	रमजान वसीर	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	76	जुग्गा वसीर	90	छोटेला	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	91	राधेश्याम किशन	98	नन्हू		
	-''-	9	-''-	99	रामसिंह	110	रामनिवास		
	-''-	10	-''-	111	नर्मदाप्रसाद		अंत तक.		
	-''-	11	रामपुरी	1	मोना	11	हीरालाल		
	-''-	12	-''-	12	माखनलाल	18	रामाधार नंदू		
	-''-	13	-''-	20	भगवानदास		अंत तक		
	-''-	14	उमरी	1	मनीष कैलाशनाथ	11/2	दादू		
	-''-	15	-''-	12	शोभाराम	21क	काल्या		
	-''-	16	-''-	22	विसराम	38	रमेश		
	-''-	17	-''-	39	शोभाराम	49ख	चंपालाल		
	-''-	18	-''-	50	हीरा		अंत तक.		
	-''-	-	काशीपुरा						

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	जिनवानिया	1	5	दिनेश बाबूलाल	33/1	शारदाबाई शिवराम	अ. जा.	4	
	-''-	2	-''-	33/2	लक्ष्मण चुन्नीलाल	55/2	शिवनारायण चंदरसिंह	अ. ज. जा.	4
	-''-	3	-''-	56	इंदरबाई भागीरथ	86	गणेश शिवकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	88	गजराजसिंह रामकरण	122/2	लालूप्रसाद रामप्रसाद	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	123/2	रामकुंवरबाई रामकिशन	148ग	प्रहलादसिंह बाबूलाल	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6	-''-	149/1	द्वारकाबाई नर्मदाप्रसाद	168/1क	गंगाविशन कुंजीलाल	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	168/1ख	साउबाई रामाधार	181	अमरदास गंगाराम	महिला सामान्य	3
	-''-	8	-''-	182	राजाराम रामाजी	207/1	प्रेमराज कुंजी		
	-''-	9	-''-	208	किशोरी सीताराम	234/1	रामनाथ शिवदान		
	-''-	10	-''-	235	भागीरथ सिकदार	257	सुमनबाई राधेश्याम		
	-''-	11	-''-	258/1	नारायणराव श्यामराव	279	अमृतलाल गेदालाल		
	-''-	12	-''-	280	समोताबाई शंकर	305	मनोहरराव रामाराव		
	-''-	13	-''-	306	गीताबाई गंगाविशन	328	चंद्रशेखर सालकराम		
	-''-	14	-''-	329	उमेश भाउ	354	गरीबदास जगन्नाथ		
	-''-	15	-''-	354/1	श्यामसंदर भागीरथ	366	मथुराप्रसाद कांताप्रसाद		
	-''-	16	-''-	367	जगदीश रामनारायण	394	ग्यारसराम करसन		
	-''-	17	मानपुरा	1	गरीबदास जगन्नाथ	19घ	दिनेश गेदालाल		
	-''-	18	-''-	20	मांगीलाल बाबू	40	शोभाराम रोना		
	-''-	19	-''-	41	सत्यनारायण कुंजीलाल	49/3	राधेश्याम रेवाराम		
	-''-	20	-''-	49/3	शिवलाल मल्लू		अंत तक कमलसिंह विसराम		
	-''-	-	पटकला, (बीरान) मंडीसेल (बीरान).						

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	(4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	भगवानपुरा	1	भगवानपुरा	1	सरजूबाई गजाधर	13	सुखलाल	अ. जा.	1
-''-	-''-	2	-''-	19	शिवनारायण दशरथ	31	रामदास	अ. ज. जा.	13
-''-	-''-	3	-''-	32	तुलसाबाई प्रतापसिंग	48	गुलाबबाई गेदालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	49	दशरथ गेदालाल	65	पंचम रामाजी	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	66	अर्जुनसिंह पूजाराज	84	आत्माराम शोभाराम	महिला अ.ज.जा.	7
-''-	-''-	6	-''-	85	जसोदाबाई रामेश्वर	107	हरिराम मांगीलाल	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	108	शोभाराम गूंगा	123	विशराम भूरा	महिला सामान्य	2
-''-	-''-	8	-''-	124	गंगूबाई पटेल	146	ब्रजलाल मोहनलाल		
-''-	-''-	9	-''-	147	राजराम गंगाराम	713	मिश्रीलाल		
-''-	-''-	10	बहाड़ुरैयत	1	हुसैन चुन्नी	20	अब्दुल रफीक		
-''-	-''-	11	-''-	21	महरुननिशा शेख हुसैन	53	मुबारिकखान		
-''-	-''-	12	बिचपुरीरैयत	1	मोती सीताराम	9	राजारजा		
-''-	-''-	13	-''-	10	हरिराम	23	कमलसिंह		
-''-	-''-	14	बिचपुरी	1	पतिराम सोमा	21	फत्तू मोतीराम		
-''-	-''-		सरकूलर.						
-''-	-''-	15	-''-	22	रेवाराम फत्तू	47	गेदालाल		
-''-	-''-	16	-''-	48	आशाराम मोती	70	रामसिंह		
-''-	-''-	17	-''-	71	चिरोजीलाल मोना	103	गंगाबाई		
-''-	-''-	18	केवलारी	1	अमरसिंह रोहणा	24	राजाराम		
-''-	-''-	19	-''-	26	विश्राम डोगरिया	41	हरेसिंह		
-''-	-''-	20	-''-	66	गोविन्द चंदरसिंह	87	रामदास		
-''-	-''-	-	बहाड़ामाल (वीरान).						

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	(4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	जटपुरामाल	1	जटपुरामाल	1	जयनारायण शिवराम	13	दुलारीबाई कुंजीलाल	अ. जा.	2
-''-	-''-	2	-''-	15	रामप्यारी सीताराम	29	चम्पालाल शिवकरण	अ. ज. जा.	7
-''-	-''-	3	-''-	32	अरूणाबाई दलसिंह	48	तुलसीराम रामप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
-''-	-''-	4	-''-	49	शिवशंकर भागीरथ	60	शिवप्रसाद रामभाउ	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	61	गयाप्रसाद शिवकरण	80	देवीप्रसाद रामप्रसाद	महिला अ.ज.जा.	4
-''-	-''-	6	-''-	81	कांताप्रसाद रामप्रसाद	97	राधा रामलाल	महिला अ.पि.व.	3
-''-	-''-	7	-''-	98	ओंकार कन्हैया	117	सोमा गंगाराम	महिला सामान्य	2
-''-	-''-	8	-''-	118	मोतीराम हरिकरण	146	दयाराम मोहनसिंह		
-''-	-''-	9	जटपुरारैयत	1	रामाधार रामभाउ	18	सेरिया खुबू		
-''-	-''-	10	खेडीमाल	2	चम्पालाल कुंजीलाल	11	ओंकार पन्ना		
-''-	-''-	11	-''-	12	हरनारायण चैनसिंह	20/6	मुन्नालाल सोमा		
-''-	-''-	12	-''-	22	ताराबाई नंदू	42	भागीरथ चंदर		
-''-	-''-	13	सोनपुरा	1	रामशंकर रामलाल	26	मधुराप्रसाद राम्या		
-''-	-''-	14	-''-	29	घुडया रामेश्वर	41/2	रामकृष्ण राजाराम		
-''-	-''-	15	-''-	41/3	गोविन्द राजाराम	55/2	जगदीश बट्टलाल		
-''-	-''-	16	-''-	57	गुलकीबाई रामाधार	71क	चैनसिंह सुखराम		
-''-	-''-	17	-''-	72	जयनारायण साबूलाल	89/3	दानू हीरालाल		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	जटपुरामाल	18	सोनपुरा	90	बुद्धलाल भाउ	105/1	गुलाबसिंह मंगल
	-''-	19	-''-	106	जयनारायण मंगल	114क	दयाराम नाथूराम
	-''-	20	-''-	114ख	शंकरलाल सुखराम	136	गुलाबसिंह बिहारीलाल

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	डेडगाँवमाल	1	डेडगाँवमाल	0	राजेश राठौर	20/2	निलाबाई	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	21	सरजूबाई	39/2	किरणबाई	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	41	घोसीबाई	49	अमरदास मुकाती	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	51	दुजियाबाई	69	बालाराम	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	70	नत्थीबाई	94/1	समोताबाई	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	95	कल्लू	111/1	रामचंद्र	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	111/2	रामदयाल	124/1	हरकिशन	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	125/2	ओमप्रकाश	149	हरेराम		
	-''-	9	-''-	151	हेमराज	170	प्रेमनारायण		
	-''-	10	दामोदरपुरा	1/2	मोहन	11/4	गंगाप्रसाद		
	-''-	11	-''-	12/1	शकुबाई	19/1	सुखदेव		
	-''-	12	-''-	19/2	गंगाविशन	31	मोहन		
	-''-		डेडगाँव सरकुलर.						

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	ढोलगाँवकलौं	1	ढोलगाँवकलौं	1	चंपालाल केशव	13	चेनसिंह	अ. जा.	2
	-''-	2	-''-	14	जयनारायण घासीराम	33क	रामविलास	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	34	लक्ष्मीबाई	49	ब्रजलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	50	किशोरी	64/1	ओमप्रकाश	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	66	धनराज	81	प्रहलाद रतनलाल	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	82	सुभ्रदा	98/1	सुशिला जगदीश	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	98क	सुमंत्रा	118	कमलाबाई सुखराम	महिला सामान्य	5
	-''-	8	-''-	119	कुसुमबाई	145	नर्मदाप्रसाद		
	-''-	9	बेड़ियाखुर्द	1	लक्ष्मीनारायण चम्पालाल	16	शांताबाई		
	-''-	10	-''-	17	संतोष	32	सुरेश रामेश्वर		
	-''-	11	-''-	34/1	आशाराम	44	शिवनारायण		
	-''-	12	-''-	45	अमरसिंह	73	गोटू राजाराम		
	-''-	13	-''-	74	सोमा	99	जागेश्वर		
	-''-	14	ढोलगाँवखुर्द	1	रामकिशन कन्हैया	13	भगवानसिंह		
	-''-	15	-''-	14	भागवतसिंह	30	अजबसिंह		
	-''-	16	-''-	31	अंतरबाई	46	मनोज राधेश्याम		
	-''-	17	-''-	47	लक्ष्मीबाई	59	मांगीबाई गरीबा		
	-''-	18	-''-	60	सखाराम	72	हरिप्रसाद		
	-''-	19	-''-	73	गिरीशकुमार	88	लक्ष्मीनारायण भागीरथ		
	-''-	20	-''-	89	रामदास	109	मोहनलाल कन्नू		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	पहटकलॉ	1	पहटकलॉ	1	शंकरलाल बालाराम	13	धनू नत्थू	अ. जा.	2
	-''-	2	-''-	14	जसवंत नाथूराम	35	त्रिवेणी बट्टी	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	36	हरिओम राजाराम	48	कमलसिंह नत्थू	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	-''-	4	-''-	49	तुलसीराम बाबूलाल	64	परसराम सीताराम	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	65	जल्लाद राजाराम	87	फुलबाई रामेश्वर	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	87	उमेदसिंह मांगीलाल	107	सुमित्रा शिवराम	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	108	भागवती रामेश्वर	118	राधाबाई रामलाल	महिला सामान्य	4
	-''-	8	-''-	119	अनोखीलाल हरनारायण	130	भारत फलू		
	-''-	9	-''-	131	जयनारायण रामदास	149	गोकुल रामकिशन		
	-''-	10	-''-	152	सीकू भीका	163	रामलाल हरकिशन		
	-''-	11	-''-	165	बाबूलाल रामप्रसाद	179	रूपकुंवर लखीसिंह		
	-''-	12	-''-	181	दलसिंह रामकरण	199	मयाराम रामलाल		
	-''-	13	-''-	200	दयाराम रामलाल	212	मोहन काशीराम		
	-''-	14	-''-	213	सुरेश रनछोड	228क	ताराचंद रामेश्वर		
	-''-	15	-''-	229	मांगीलाल प्रहलाद	239	शिवशंकर फत्तू		
	-''-	16	-''-	240	अजुध्याबाई गिरधारी	260	पवन हंसराज		
	-''-		पटली वीरान						

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	बाबड़िया	1	बाबड़िया	1	शिवचरण	17	सूरजसिंह	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	19	गंगाराम	40	रुखमणी	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	41	रामदास	45	किशोर	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	50	पारूबाई	65	हरिराम	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	66	बरजोर	81	शेराबाई	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	82	दयाराम	100	रामप्रसाद	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	101	राजूबाई	118	सुशिला	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	119	बदाम	142	मांगीलाल		
	-''-	9	-''-	143	छोटेलाल	148	रामशंकर		
	-''-	10	-''-	149	चम्पालाल	165	देवराज जोशी		
	-''-	11	जूनापानी	1	रामेश्वर	15	भैयालाल		
	-''-	12	-''-	16	श्रीकिशन	199	राधाकिशन		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	रामपुरा	1	रामपुरा	1/1	मूलचंद गेदालाल	10	जगदीश रामसिंह	अ. जा.	4
	-''-	2	-''-	12	मनोहर रामसिंह	26	रामभाउ गुमान	अ. ज. जा.	4
	-''-	3	-''-	27/1	कालूराम बाबूलाल	42	मेहश केश्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''-	43	जुगरबाई जागेश्वर	54/1	राधाकिशन रामप्रसाद	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	54/2	गंगाविशन आधारसिंह	59	धापूबाई प्रहलाद	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6	-''-	60	सलीमखां रसूलखां	70/1	फैजू राजबक्श	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''-	70/2	शब्बीरखां दिलदारखां	78ख	आजादखां	महिला सामान्य	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	रामपुरा	8	रामपुरा 78ग	सुमंत्राबाई रतनलाल	83	महेशचंद बाजूलाल
	-''-	9	-''- 83/3	मधुसुदन महेशदास	97	किशोरसिंह शिवकारण
	-''-	10	-''- 98	संतोष गुलाब	106	संतोषसिंह गुलाबसिंह
	-''-	11	-''- 107	हरनाथ लक्ष्मण	115/2	किशोरसिंह प्रहलाद
	-''-	12	गोमगांववली 116	विजयसिंह रामेश्वर	3	रघुनाथ फत्तू
	-''-	13	विक्रमपुरकलौ 1	किशोरसिंह जगन	9/2	भगवान चम्पालाल
	-''-	14	-''- 10/1	मांगीलाल भगन	16	प्रेमनारायण बाबूलाल
	-''-	15	-''- 17	बाबूलाल रामलाल	27	शिवप्रसाद प्रहलाद
	-''-	16	-''- 28	रामौतार जगन्नाथ	38	किशन डालू
	-''-	17	-''- 38/1	रामजीवन रामाधार	49/1	ब्रजलाल बाबूलाल
	-''-	18	-''- 49/2	उमशसिंह बाबूलाल	62	भगवान गोपाल
	-''-	19	-''- 63	संतोष किशोर	77	जगदीश रामबक्श
	-''-	20	-''- 81	शिवप्रसाद रामदीन	102	सीताबाई मांगीलाल

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
1	मरदानपुर	1	मरदानपुर 1	कमलाबाई श्रीकिशन	15	मांगीलाल विंदा	अ. जा.	6
	-''-	2	-''- 18	रमेश मोहन	37	जयकिशन रामगोपाल	अ. ज. जा.	1
	-''-	3	-''- 38	राधानारायण	54	संतोष मंशाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	-''-	4	-''- 55	गंगाविशन नन्हू	65	ईश्वरदास रामहेत	महिला अ. जा.	3
	-''-	5	-''- 66	रामाधार रामचंद्र	82/1	अमृतलाल रामविलास	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''- 82/2	गुलकी राजाराम	105	रामौतार बहादर	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	धूपकरण 1	कमलसिंह भीमसिंह	14	रामनाथ बाबूलाल	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''- 15	कमला जगन्नाथ	35	देवीसिंह गंगाराम		
	-''-	9	-''- 36	दम्भू जगन	56	प्यारेलाल पन्ना		
	-''-	10	-''- 57	केवलराम कन्हैया	72	शंकरलाल ताराचंद		
	-''-	11	-''- 72क	सालकराम गोकुल	88	सूरजसिंह गुलाबसिंह		
	-''-	12	-''- 89	भगवानसिंह प्रहलाद	121	अमराबाई हरनारायण		
	-''-	13	पंधानिया 1	किशनलाल हरिप्रसाद	21	रामदास बलीराम		
	-''-	14	-''- 22	जयकिशन गिरधारी	51	गंगादीन हजारीलाल		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
1	पीपल्याभारत	1	पीपल्याभारत 1	कन्हैया	14/1	संध्या	अ. जा.	4
	-''-	2	-''- 14/2	जस्सू	29/1	कल्पना	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''- 30	शौभाराम चंदर	38/1	रामाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	-''-	4	-''- 38/2	आत्माराम	48	विमला	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''- 49	राधाकिशन करणसिंह	61	कोकिला	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''- 62	शेराबाई अजबसिंह	70	उदय	महिला अ.पि.व.	3
	-''-	7	-''- 71	अरुणा	106	हजारी	महिला सामान्य	3
	-''-	8	काकडकच्छ 1	भगवान	18/3	सोहनलाल		
	-''-	9	-''- 19/1	किशोरीसिंह बद्रीप्रसाद	24/2	वीरसिंह		
	-''-	10	-''- 25/1	कलीबाई गंगाराम	37	लालसिंह		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पीपल्याभारत	11	तिमाचा	1	गेदालाल लच्छीराम	30	ज्योति
-''-	12	लोनी	1	सुशीलाबाई चैनसिंह	8	रिंकी
-''-	13	-''-	10	बाबूलाल रतन	24	अमावती
-''-	14	-''-	25/2	फत्तूखां कादरखां	43	माया
-''-	15	-''-	44	शांताबाई भगवानसिंह	60	अरविंद
-''-	16	-''-	61	सालकराम रामप्रसाद	81	जितेन्द्र
-''-	17	-''-	82	भागवतसिंह गेदालाल	89	संगीता
-''-	18	-''-	90	गंगाविशन छीतर	102	शर्मिला

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	वारंगी	1	वारंगी	1	चंद्रभागा पन्नालाल	16/3	नबूबाई सुरेशसिंह	अ. जा.	4
-''-	-''-	2	-''-	18	शारदा रामकिशन	30	ममता रामदास	अ. ज. जा.	1
-''-	-''-	3	-''-	31	कबीरदास	60	रामलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
-''-	-''-	4	-''-	63/1	रामाधार	82	गिरजा	महिला अ. जा.	2
-''-	-''-	5	-''-	83	वंदना	100	सुमेर	महिला अ.ज.जा.	1
-''-	-''-	6	-''-	101	रामेश्वर	117	सुनिता	महिला अ.पि.व.	2
-''-	-''-	7	-''-	118	सुभाष	130च	राधाबाई	महिला सामान्य	2
-''-	-''-	8	-''-	130ड	अमरदास	147	मनीष		
-''-	-''-	9	-''-	148	बसंतीबाई	745	भजनलाल		
-''-	-''-	10	कमताड़ी	1	भागीरथ	23	दिपिका		
-''-	-''-	11	-''-	24	शहीदखां	40	जयाबाई		
-''-	-''-	12	-''-	40/1	आनंद	59	आमीन		
-''-	-''-	13	-''-	60	समीमखां	78	उमेश		
-''-	-''-	14	-''-	78क	दातारसिंह	132	इस्लामखां		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	पाहनपाट	1	पाहनपाट	1	दयाराम	21	मांगीलाल	अ. जा.	1
-''-	-''-	2	-''-	22	मदनलाल	33/3	श्यामलाल	अ. ज. जा.	3
-''-	-''-	3	-''-	34	शंकरलाल	48	घासीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
-''-	-''-	4	-''-	50	गणपत	59	आधारसिंग	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	60	भारतसिंह	74	उमाबाई	महिला अ.ज.जा.	2
-''-	-''-	6	-''-	75	कन्हैयालाल	83/4	रामनारायण	महिला अ.पि.व.	2
-''-	-''-	7	-''-	84	चम्पालाल	94/2	दिनेश कुमार	महिला सामान्य	1
-''-	-''-	8	-''-	95/2	भीमसिंह	109/3	बलीराम		
-''-	-''-	9	-''-	110	जगदीश	126	भवरबाई		
-''-	-''-	10	-''-	127	लक्ष्मीनारायण	150	चम्पालाल		
-''-	-''-	11	-''-	153	गजराज	166	रामकृष्ण		
-''-	-''-	12	-''-	167	मांगीलाल		अंत तक		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	कुडावा	1	कुडावा	2/1	गजराज रामगोपाल	25	शांताराम रामाजी	अ. जा.	3
	-''-	2	-''-	27	मुकेशसिंह गुलाबसिंह	41	संतोष मांगीलाल	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	43	अमरसिंह रामलाल	57/1	शेरसिंह जगन	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	-''-	4	-''-	57/2	शिवनारायण राजाराम	73	हरिसिंह रेवाजी	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	74	दौलतसिंह दयाराम	92/1	देवीसिंह रामेश्वर	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	92/2	हरेसिंह रामेश्वर	114	रेवाराम जागेश्वर	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	115	राधेश्याम जागेश्वर	125/3	राधेश्याम रामकरण	महिला सामान्य	4
	-''-	8	-''-	126	रेवाराम शिवलाल	145/1	लक्ष्मीनारायण शिवप्रसाद		
	-''-	9	-''-	145/2	अमरसिंह शिवप्रसाद	167/2	सत्यनारायण दलसिंह		
	-''-	10	-''-	168	गोविन्द बाबूलाल	178/2	मुकेश सेवाराम		
	-''-	11	-''-	179/1	रामहेत लक्ष्मीनारायण	197/2	हब्बू मोहन		
	-''-	12	-''-	197/3	रमेश नंदू	214	भागवत जगन्नाथ		
	-''-	13	-''-	216	जयसिंह भीकाजी	231/3	रामनिवास अजबसिंह		
	-''-	14	-''-	232	यशवंत गगाराम	254/1	कृष्णकांत भगवान		
	-''-	15	-''-	254/3	शिवनारायण दलसिंह	277	संतोष मांगीलाल		
	-''-	16	-''-	277/4	फत्तू कुंजीलाल	290	प्रेमेन्द्र नर्मदाप्रसाद		
	-''-	17	मुहालखुर्द	292	दयाराम शिवचरण	341	नरेन्द्र शिवनारायण		
	-''-		- झिरन्या विरान						

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	पीपल्याखुदिया	1	पीपल्याखुदिया	1	बाबूलाल	20ख	नारायण	अ. जा.	5
	-''-	2	-''-	20ग	नर्मदा	43	रामनारायण	अ. ज. जा.	3
	-''-	3	-''-	44	गगाविशन	63	रामचरण	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	66	रुखमणी	87	चैती	महिला अ. जा.	3
	-''-	5	-''-	88	शिवप्रसाद	109	बसंती	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6	-''-	110	रामनाथ	129	नर्मदा	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	130	पुनिया	140	गुलाब	महिला सामान्य	4
	-''-	8	-''-	141	रामदुलारी	155	भागीरथ		
	-''-	9	-''-	157	श्रीराम	165	नर्मदा		
	-''-	10	-''-	166	सरजू	176	शिवनारायण		
	-''-	11	-''-	177	राधेश्याम	193	मदनलाल		
	-''-	12	-''-	194	प्रकाश	206क	राजेश		
	-''-	13	-''-	207	चंद्रगोपाल	224	सुकू		
	-''-	14	-''-	224/1	शिवेन्द्रशाह	240	पूनमचंद्र		
	-''-	15	-''-	241	फगनी	262	सतोका		
	-''-	16	-''-	263	आधारसिंह	278क	रामू		
	-''-	17	-''-	279	रामदास		अंत तक		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	बम्हनगांव	1	बम्हनगांव	2	संतोष पूरनसिंह	14	गणेश रामचरण	अ. जा.	3
	-''-	2	-''-	16	रामाधार नत्थू	25	सुमन अर्जुन	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	25/1	कोकिला लक्ष्मीनारायण	32	शंकरालाल लक्ष्मीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	33	शिवराम रामप्रसाद	50	रामलाल रतनया	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	51	शिवराम सीताराम	70	लखनलाल रामप्रसाद	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	73	जशोदा मांगीलाल	90	रहमान रमजान	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	91	हजारी गिरधारी	103	सुखराम दरीगा	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''-	104	पूनम गबू	133	मोहन मांगीलाल		
	-''-	9	-''-	133/1	शिवराम राहूजी	148	शिला श्यामलाल		
	-''-	10	बोंडगाँव	1	राजेश भीका	19	कमलसिंह रामप्रसाद		
	-''-	11	-''-	20	कृष्णाबाई गौरीशंकर	42	द्रोपताबाई नारायण		
	-''-	12	बिचपुरीसेठ	1	रामलाल अल्लू	136	मुकेश शिवराम		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	सारंगपुर	1	सारंगपुर	1	सारिका	10/2	शिवनारायण	अ. जा.	2
	-''-	2	-''-	10/3	रामदास	25	गणेशराम	अ. ज. जा.	3
	-''-	3	-''-	26	साउबाई	44	राधेश्याम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	45	सवलसिंह	62	ग्यारसीबाई	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	63	कडूबाई	88	भागवतसिंह	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6	-''-	90	कैलाश	103	लखनलाल	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	104	मुकेशकुमार	117/2	हरिराम	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''-	119	जानकीबाई	133/2	लक्ष्मीबाई		
	-''-	9	-''-	134	मिश्रीलाल	146	संतोष		
	-''-	10	-''-	147	सदाराम	168	रामजय		
	-''-	11	-''-	169	सीमाबाई	195	शंकर		
	-''-	12	-''-	196	रमेश		अंत तक		
	-''-	-	खरड वीरान						

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	मक्तापुर	1	मक्तापुर	1	पार्वती शंकर	14	सुनिता ओमप्रकाश	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	15	बसूबाई कोमलराम	31	खैरून अब्बास	अ. ज. जा.	5
	-''-	3	-''-	32	सुल्तान शेखलाल	43	रोहित महेशकुमार	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	44	निर्भयदास रामेश्वर	63	शोभा शांतिलाल	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	65	विरजू हीरालाल	80	अनिता सुखराम	महिला अ.ज.जा.	3
	-''-	6	-''-	81	रफीक प्यारूखां	95/1	रामदास जगन्नाथ	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	96	शंकरलाल फतू	110	अहमद सुभान खां	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''-	110/1	रामकृष्ण गेदालाल	131	सादिक दिलावर		
	-''-	9	-''-	131	सुधाबाई रामनारायण	146	साबराबी मेहबूब खां		
	-''-	10	भवरदीमाल	1	पन्नालाल रामभाउ	15	सरस्वती सत्यनाराण		
	-''-	11	-''-	16	दजिया मनोरी	29	अजय श्यामलाल		
	-''-	12	-''-	30	समोताबाई छगन	42	रिंकी लक्ष्मण		
	-''-	13	-''-	43	गुलकीबाई मोती	54	राजाराम भीका		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	छुरीखाल	1	मोजीराम जिददू	11	सुखराम भुजाग	अ. जा.	1
	-''-	2	मीरा श्यामलाल	29	रमलीबाई जंगू	अ. ज. जा.	8
	-''-	3	सुखराम नाना	30	रामभरोष दयाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	रामचरण रामेश्वर	11	बसू सोमा	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	अमरसिंह सोमा	22	प्रमोद हुकुमचंद	महिला अ.ज.जा.	4
	-''-	6	गिरधारी ओंकार	32	सीताराम देवकरण	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	द्वारका लच्छीचंद	44	बसंती हजारी	महिला सामान्य	1
	-''-	8	कंगली बाबू	54	जगदीश हुकुमचंद		
	-''-	9	कलीराम रामा	65	ब्रजलाल लखन		
	-''-	10	राधेश्याम रामप्रसाद	75/1	सोमा बाटू		
	-''-	11	साबूलाल सोमा	81	भागवतीबाई बुदु		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	धनकार	1	द्वारका गेदालाल	8	गेदालाल दरियाव	अ. जा.	6
	-''-	2	लालसिंह	25	विजयसिंह	अ. ज. जा.	4
	-''-	3	सागर देवकरण	43	शिवप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	घीसी	60	संजूबाई	महिला अ. जा.	3
	-''-	5	प्रेमबाई	71	राजाराम बोदर	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6	श्यामबाई	86	पार्वती	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	सुशिला	105	गायत्री	महिला सामान्य	5
	-''-	8	आनंदकुमार	105/5	भागीरथ		
	-''-	9	लखनलाल बाबूलाल	11	आधारी		
	-''-	10	अरूणकुमार	27ग	नर्मदा		
	-''-	11	ब्रजमोहन	46क	तेजराम		
	-''-	12	तुलसीराम	61	अनारसिंह		
	-''-	13	शोभाराम शिवकरण	89घ	बासूदेव रामप्रसाद		
	-''-	14	प्रवीण रामभरोष	12	मांगीलाल भाउ		
	-''-	15	लक्ष्मी शिवकरण	32	पूनम		
	-''-	16	तुलाराम	49	अमरसिंह		
	-''-	17	मनीष	65	नर्मदाप्रसाद		
	-''-	18	जगदीश	77	सुशिला		
	-''-	19	नर्मदाबाई	239घ	कविताबाई		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	रामटेकरैयत	1	भोग्या सुखराम	6	बाबूलाल	अ. जा.	0
	-''-	2	रामोबाई	14	रेमायबाई	अ. ज. जा.	19
	-''-	3	जोखीलाल	25	जयराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	मोजीराम	25/2	मांगीलाल	महिला अ. जा.	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
	रामटेकरैयत	5	रामटेकरैयत	36	चम्पालाल	44/1	गुलाबसिंह	महिला अ.ज.जा.	10
	-''-	6	-''-	44/2	नंदराम	57	सालकसम	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	59	मांगीलाल	75	जीपलीबाई	महिला सामान्य	0
	-''-	8	-''-	76	जशोदाबाई	84	सालकराम		
	-''-	9	-''-	84/1	कालूराम	96	मांगीलाल		
	-''-	10	-''-	97	कृंजीलाल	107	बुथियाबाई		
	-''-	11	-''-	108	सीताबाई	121	बाबईबाई		
	-''-	12	-''-	123	सीटुबाई	138	प्रदीपदास		
	-''-	13	अंजरूदरैयत	1	चंद्रसिंह	9	गेदालाल गोमा		
	-''-	14	-''-	10	किशोरीलाल	17	लालचंद सोमा		
	-''-	15	-''-	18	चम्पीबा	28	काल्या चिपलू		
	-''-	16	-''-	29	कमलसिंह	38	मुंशी		
	-''-	17	-''-	39	नत्थू	47	गोगाय		
	-''-	18	-''-	48	सुकियाबाई	57	मोजीराम		
	-''-	19	-''-	57क	प्यारीबाई	62	चंदाबाई		
	-''-	20	-''-	62/2	परसराम	68	परसराम मुंशी		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	जामन्याखुर्द	1	जामन्याखुर्द	1	गीना बिलदारसिंह	12	झुनई तुमला	अ. जा.	0
	-''-	2	-''-	13	रामगोपाल पातिंग	30	मन्तो मंगलू	अ. ज. जा.	14
	-''-	3	-''-	31	शिवप्रसाद रंगलाल	57	मनोहर शोभाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	डाब्या	1	जारसिंग समुरिया	11	दूना कुटवार	महिला अ. जा.	0
	-''-	5	-''-	12	फुलवतीबाई बाबूलाल	23	बाबूलाल सुखलाल	महिला अ.ज.जा.	7
	-''-	6	-''-	24	सालकराम साबूलाल	34	पूनम खानदेव	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	35	लाबू भूरा	46	लक्ष्मण सुखराम	महिला सामान्य	1
	-''-	8	-''-	47	शोभाराम मेहतू	60	कमलसिंह सुखदेव		
	-''-	9	घोडापाट	1	झनकी मोतीराम	14/1	हरिप्रसाद साबूलाल		
	-''-	10	-''-	15	जसोबाई सोमा	25	वशी हजारी		
	-''-	11	-''-	26	विरजा मंगल	42	कल्लू फालतू		
	-''-	12	-''-	44	रजनी राधेश्याम	61	दिनेश लालताप्रसाद		
	-''-	13	भवरपानी	1	ओमप्रकाश मांगीलाल	14	रामचंद्र बोदर		
	-''-	14	कोमथी	1	श्याम तेजराम	23	आत्माराम घासीराम		
	-''-	15	-''-	24	हरिराम सुखदेव	38	मोतीराम सुखराम		
	-''-	16	-''-	39	अमरसिंह पुन्या	66	हरिशंकर राजाराम		

नजरपुरावीरान

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1	हसनपुरा	1	हसनपुरा	1	राहुल	8/2	चम्पालाल	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	9/2	शोभाराम	20	साबूलाल	अ. ज. जा.	15
	-''-	3	-''-	21	लच्छू	31/1	केवलराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	हसनपुरा	4	हसनपुरा 37	भागवतीबाई 47	श्रीकिशन	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''- 48	मांगीलाल 56	मोती	महिला अ.ज.जा.	8
	-''-	6	-''- 56/1	मुंशी 64	गंगाबाई	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''- 65	बुदु 73	अमरदास	महिला सामान्य	0
	-''-	8	-''- 74	मुंशी 82/1	नागू		
	-''-	9	-''- 83	बाबूलाल 96	हीरा		
	-''-	10	-''- 97	खुशहाल 124	बुदु		
	-''-	11	-''- 125	बाबूलाल 138	गोरईबाई		
	-''-	12	-''- 139	अनारसिंग 202	रविशंकर		
	-''-	13	रकट्या 1	सुनिल 17	चम्पा		
	-''-	14	-''- 18	साबूलाल 28	रमेशचंद्र		
	-''-	15	-''- 29	सुखलाल 41	कलीराम		
	-''-	16	-''- 42	शोभाराम 58	बुदु		
	-''-	17	-''- 59	सुक्रियाबाई 74	शोभाराम		
	-''-	18	-''- 75	गेदालाल 189	हरनारायण		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	सांवलखेड़ारैयत	1	सांवलखेड़ारैयत 1	सुखचंद भैयालाल 8ख	आशाराम	अ. जा.	2
	-''-	2	-''- 10	बाबूलाल कुंजीलाल 19	कालू सलकू	अ. ज. जा.	15
	-''-	3	-''- 20	भूरा सलकू 33	गणेश गंगाविशन	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''- 34	फुलकईबाई मोतीराम 40	अर्जुन मांगीलाल	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''- 41	बाबूलाल डोकरा 52क	समोतीबाई बंशीलाल	महिला अ.ज.जा.	8
	-''-	6	-''- 54	चम्पालाल रामू 64	मुंशी ओंकार	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''- 65	जिमाईबाई बाबू 70क	रतिराम मोतीराम	महिला सामान्य	0
	-''-	8	-''- 71	मंगल मोती 77	शिवराम मुन्सी		
	-''-	9	-''- 78	छोटेलाल सीताराम 83	गंगाराम ओंकार		
	-''-	10	-''- 84	सुकियाबाई साबूलाल 93	नंदराम सुखराम		
	-''-	11	-''- 94	हरिराम रिंगा 98ग	रामलाल विश्राम		
	-''-	12	-''- 99	बुदु गंगाराम 106	कोलई फालतू		
	-''-	13	-''- 107	चिरोजीलाल दादू 419	गोपाल हीरालाल		
	-''-	14	मुहाल 1	राजाराम नंदराम 15	ललताबाई रामकरण		
	-''-	15	सरकूलर 16	जयनारायण हीरालाल 28	शोभाराम शिकारी		
	-''-	16	-''- 28क	सुंदर पन्नालाल 40	कलईबाबू बाबूलाल		
	-''-	17	-''- 41	सोमाजी सोमा 56	श्यामलाल बुदु		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	नहालीकलों	1	नहालीकलों 1	बाबूलाल 22	रामभरोष	अ. जा.	2
	-''-	2	-''- 23	देवीसिंह 43	लखनलाल	अ. ज. जा.	8
	-''-	3	-''- 43क	पृथ्वीसिंह 55	सुमंत्राबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
नहालीकलॉ	4	नहालीकलॉ	56	शंकरलाल	71	पार्वतीबाई	महिला अ. जा.	1
-''-	5	-''-	72	राधेलाल	83	चम्पालाल	महिला अ.ज.जा.	4
-''-	6	-''-	84	राजाराम	110क	पांडू	महिला अ.पि.व.	0
-''-	7	-''-	110ख	चंपालाल	152	बाबूलाल	महिला सामान्य	4
-''-	8	बिचुरीमाल	1	बाबूलाल	12/1	बाबू		
-''-	9	-''-	13	कृष्णाबाई	24	चुन्नीलाल		
-''-	10	-''-	27	बलीराम	40	सुखलाल		
-''-	11	-''-	40ख	प्यारीबाई	53	कालूराम		
-''-	12	-''-	55	सोनाजी	408	गोविन्द		
-''-	13	मुंडासेल	1	पून्या	11	धापूबाई		
-''-	14	-''-	12/1	मथूराबाई	21	गंगाविशन		
-''-	15	-''-	22	प्रेमबाई	30	मोती		
-''-	16	-''-	30क	बंशीलाल	40	शंकूर खां		
-''-	17	-''-	42/1	बशीरखां	49	नवाब खां		
-''-	18	-''-	49क	वहीदखां	86	द्वारकाबाई		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	बडनगर	1	बडनगर	1	डालूजी लादूजी	18/1	कोमलराम श्रीकिशन	अ. जा.	2
-''-	-''-	2	-''-	18/2	पार्वतीबाई श्रीकिशन	44	तुलसीराम घासीराम	अ. ज. जा.	5
-''-	-''-	3	-''-	45	गुलाबसिंग निर्भयसिंह	59	गीताबाई जालाजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	60	लीलाबाई मोतीराम	77/1	चैनसिंह सुखराम	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	77/2	प्रतापसिंग चैनसिंग	85	जसमल सुखराम	महिला अ.ज.जा.	3
-''-	-''-	6	-''-	87	प्रेमबाई मांगीलाल	99	गेंदालाल सुखलाल	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	102	सजनबाई हीरासिंह	112/ख	बाबूलाल दशरथ	महिला सामान्य	1
-''-	-''-	8	-''-	112ग	भूरीबाई अनेक		अंत तक		
-''-	-''-	9	सालाबैडी	1/1	समोती शंकर	13	महेश श्यामलाल		
-''-	-''-	10	-''-	13/1	रामदीन झाबू		अंत तक		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)			
1	सक्तापुर	1	सक्तापुर	1	कमल	10/1	महताप	अ. जा.	5
-''-	-''-	2	-''-	11	मनोहर	17	फत्तू	अ. ज. जा.	1
-''-	-''-	3	-''-	17/1	जमनादास	27	प्रहलाद	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
-''-	-''-	4	-''-	28	रामनाथ	40/1	हेमनारायण	महिला अ. जा.	3
-''-	-''-	5	-''-	41	रमशे	49	राधेश्याम	महिला अ.ज.जा.	1
-''-	-''-	6	-''-	50	अनिलकुमार	57	जागेश्वर	महिला अ.पि.व.	2
-''-	-''-	7	-''-	58	राधेश्याम	66/1	दशरथ	महिला सामान्य	1
-''-	-''-	8	-''-	67	पार्वती	92स	विजेश		
-''-	-''-	9	धौलपुर	66	उमाशंकर	89	मयाराम		
-''-	-''-	10	नहालीखुर्द	85	ब्रजबाई	96	रामशंकर		
-''-	-''-	11	बाफला	1	जगदीश	21	गंगाविशन		
-''-	-''-	12	-''-	22	शिवनारायण	46	पुन्नाबाई		
-''-	-''-	13	-''-	46/1	सत्यनारायण	80	संतोष		

लोधीपुरावीरान

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	(4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	कालकुंड	1	कालकुंड	1	हरनाथ	17	दौलत	अ. जा.	3
	-''-	2	-''-	18	कलावती	27	रामनाथ	अ. ज. जा.	1
	-''-	3	-''-	28	नर्मदाप्रसाद	42क	हरिराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	-''-	4	-''-	43	नन्हेलाल	54	शिवप्रसाद	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	55	शिवनारायण	72क	कैलाश	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	73	लक्ष्मण	108	गोवर्धन	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	डगावाभट्ट	1	चादबी	31	गुलामबी	महिला सामान्य	2
	-''-	8	भटपुरा	1	हनीफखा	7	खुदाबक्श		
	-''-	9	-''-	8	आलाबक्श	15	कालूखां		
	-''-	10	-''-	16	बालूखां	23	मुन्नूखां		
	-''-	11	-''-	23/2	चुन्नूखां	28	मुवारिकखां		
	-''-	12	-''-	29	बानोबी	36	आजादखां		
	-''-	13	-''-	37	फातमाबी	47	रामजीवन		
	-''-	14	-''-	48	रामकृष्ण	75/4	नेकआलमखां		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	(4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	कानपुरा	1	कानपुरा	1	शिवनारायण प्रहलाद	18	रामा भारत	अ. जा.	4
	-''-	2	-''-	19	सोनाबाई रामगोपाल	31	शारदाबाई भागीरथ	अ. ज. जा.	3
	-''-	3	-''-	32	सोना बट्टी	47/2	रामबक्श रामभाउ	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	47/3	विमलाबाई शिवराम	62	बुदिया बिहारी	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	62क	सुनिता राजू	77ख	राधेश्याम अनोखी	महिला अ.ज.जा.	2
	-''-	6	-''-	78/1	लक्ष्मीबाई अनोखी	95	धनसिंग बाबूलाल	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	96	भारतीबाई पर्वतसिंग	114	ध्यानसिंग गुलाबसिंग	महिला सामान्य	3
	-''-	8	-''-	114/1	उमेदसिंग गुलाबसिंग	140	भवूतनाथ उमेदनाथ		
	-''-	9	-''-	141	शारदाबाई मंगलनाथ	165	महेतापसिंग मोतीसिंग		
	-''-	10	-''-	170	कुवरपालसिंह नंदकिशोर	191	गायत्री नंदलाल		
	-''-	11	शोभापुर	1	पतगबाई हरिराम	11	रमेश गोप्या		
	-''-	12	-''-	12	नारायण रामकरण	21	महेशकुमार शिवकरण		
	-''-	13	-''-	22	लक्ष्मीनारायण रामरतन	35/1	रामू श्रीकिशन		
	-''-	14	-''-	35/2	नंदराम सुखराम	48	श्री कशन कुडया		

अनु क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	(4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	काल्याखेड़ी	1	काल्याखेड़ी	1/1	डालू गजराजसिंग	4/2	कृष्णाबाई आशाराम	अ. जा.	1
	-''-	2	-''-	6/1	रामदास गुलाबसिंग	17/2	विष्णु घनश्याम	अ. ज. जा.	12
	-''-	3	-''-	17/3	मोहनलाल कन्हैया	28	तेजराम शिवराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	29	वेनीसिंह धनसिंह	42क	महेश रामाधार	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	44	दूरपाल सुंदरलाल	58	पूनमचंद्र	महिला अ.ज.जा.	6
	-''-	6	नीमखेडामाल	1	समोती रामप्रसाद	12/2	जगदीश चंद्र	महिला अ.पि.व.	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	काल्याखेड़ी	7 नीमखेडामाल	13 सोमा नाना	22 कमलाबाई गब्बू	महिला सामान्य	0
	-''-	8 -''-	23 प्यारसिंह मंगल	32 अमरसिंह गन्हू		
	-''-	9 -''-	33 गुलाबसिंह सोमा	34/1 परसराम भागीरथ		
	-''-	10 नीमखेडामाफी	1 धनसिंह देवाजी	18 गुलाबसिंह नम्भू		
	-''-	11 -''-	19 दगडें गोरेलाल		गोपाल मोहन	
	-''-	12 साक्टया	1 चम्पालाल महताप	13 हरिकिशन सुभाष		
	-''-	13 -''-	14 सुभेरसिंह चैनसिंह	28 संतोष जगन्नाथ		
	-''-	14 -''-	29 नबूबाई पूनम	47 ममताबाई रामनिवास		
	-''-	- बिचपुरीचौकी वीरान.				

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	पटाल्दा	1	पटाल्दा	1 रतनलाल दामू	16 रायजू सम्मल	अ. जा.	0
	-''-	2	-''-	17 रायसिंह झूरी	28 अब्दुल हाफिज	अ. ज. जा.	10
	-''-	3	-''-	29 बुदिया	38/2 पंचम सोमा	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	39 सददू भूरा	54 भूता जलाम	महिला अ. जा.	0
	-''-	5	-''-	55 रामकली फुलचंद	72 दीना	महिला अ.ज.जा.	5
	-''-	6	नीमढाना	2 नारायणदास	15 गंगाबाई सीताराम	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	16 कबई झानू	27 फुलचंद मंगल	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	28 विश्राम मंगल	40 सोनायबाई		
	-''-	9	-''-	41 मालजी मातिग	57 शिवराम		
	-''-	10	झापनादेह	1 चम्पालाल हीरालाल	13/1 मोती मंगल		
	-''-	11	-''-	13/2 शिवराम मोती	24 प्यारीबाई भैयालाल		
	-''-	12	-''-	25 नानकराम दादू	36 राधेलाल बाबू		
	-''-	13	-''-	37 श्यामलाल बाबू	54 गोविन्द		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			मकान नं. से (4)	मकान नं. तक	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
1	आमाखाल	1	आमाखाल	2 दिनेश श्यामलाल	15 अब्दुलअजीज अब्दुल हफीज	अ. जा.	0
	-''-	2	-''-	16 पतिराम भूरा	31 सुकुमाबाई मोहन	अ. ज. जा.	14
	-''-	3	-''-	32 जागेश्वर मोतीराम	40क अर्जुन चिरोजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	40ख वब्बू कुंजी	51 मिश्रीलाल	महिला अ. जा.	0
	-''-	5	-''-	51क भूरईबाई सवरसिंह	61 हजारी भूरसा	महिला अ.ज.जा.	7
	-''-	6	-''-	62 मंवाली दादू	76 राजाराम कुंजी	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	77 सकाराम राजाराम	91 अंत तक	महिला सामान्य	0
	-''-	8	रतनपुर	1 सुखराम मातिग	15 सावित्री चिरोज		
	-''-	9	-''-	16 जुगूलाल छोटेलाल		अंत तक	
	-''-	10	जामान्यकलॉ	1 रामकुंवर बाटू	8 नन्ही पतिराम		
	-''-	11	-''-	9 मंगल डूका	23 रूखमा रामकरण		
	-''-	12	-''-	24 गेदू राजाराम	37 बुदियाबाई लक्ष्मण		
	-''-	13	-''-	38 सुखलाल सोमा	51 भुरई गेदालाल		
	-''-	14	-''-	51क बाबूलाल पिन्टा		अंत तक	
	-''-	-	घोघालपुर वीरान				

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	नगावामाल	1	नगावामाल	1	बालसिंह भीमा	14	लाडकीबाई प्यारसिंह	अ. जा.	2
	-''-	2	-''-	15	गजबसिंह कमोद	27	ग्यारसराम दलसिंह	अ. ज. जा.	7
	-''-	3	-''-	28	सुशीला हरिराम	41	शोभाराम श्रवण	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	43	सायराबाई बाबूलाल	56	गुलाबसिंह कनकसिंह	महिला अ. जा.	1
	-''-	5	-''-	57	भूरा नत्थू	69	कलीबाई सुखदेव	महिला अ.ज.जा.	4
	-''-	6	-''-	70/1	तुलसाबाई मोहन	81	तुलसीराम रूखडया	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	82	कमलाबाई बाबूलाल	91	लेखराम मांगीलाल	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	92	शिवराम गंगाराम	108	प्रेमबाई रंगलाल		
	-''-	9	-''-	109	सागरबाई रामसिंग	139	ओमप्रकाश घासीराम		
	-''-	10	नगावा	1	काशीराम दरियाव	44	बबिताबाई रामकिशन		
	-''-		सरकूलर						
	-''-	11	देवपुर	1	अजय उदयसिंह	27	नेमीचंद गंगाराम		
	-''-	12	-''-	28	राधेश्याम रामकिशन	49	संतु अमरचंद		
	-''-	13	-''-	51	विश्राम नंदराम	81क	सुभाबाई मुकेश		
	-''-	14	-''-	82	देवीसिंह रेवाराम	105	दुर्गालाल मनोहर		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	कालधड़	1	कालधड़	1	शंकर प्रहलाद	14	मिश्रीलाल	अ. जा.	5
	-''-	2	-''-	16/1	गुलाबसिंह शिवप्रसाद	32/1	जगदीश	अ. ज. जा.	1
	-''-	3	-''-	32क	सत्यानारायण	41/2	गणेश	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	-''-	4	-''-	42	जगदीश	53/1क	गणेश	महिला अ. जा.	3
	-''-	5	-''-	54	शंकरलाल	69क	गुलाबदास	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	70	सुखराम	80	घनश्याम	महिला अ.पि.व.	0
	-''-	7	-''-	81	प्रताप	93	मंशाराम	महिला सामान्य	2
	-''-	8	-''-	94	कलीबाई	110	गौरीशंकर		
	-''-	9	-''-	112	जोगीलाल	126	रमेश		
	-''-	10	-''-	127	हजारी	497ख	विपतसिंह		
	-''-	11	-''-	498क	मोजीराम	570	राधेश्याम		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से		मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1	लैलांगरा	1	लैलांगरा	1	हरनाथ शिवराम	18	भारतसिंह रामेश्वर	अ. जा.	3
	-''-	2	-''-	19	आनंदसिंह गोदालाल	31	देवीसिंह बहादुरसिंह	अ. ज. जा.	2
	-''-	3	-''-	31/1	उमेदसिंह देवीसिंह	41	रणछोड कुजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	-''-	4	-''-	42	अनोखी गुलाब	49	नवलसिंह शोभाराम	महिला अ. जा.	2
	-''-	5	-''-	50	मिश्रीलाल बाबूलाल	58	पतिराम रामाधार	महिला अ.ज.जा.	1
	-''-	6	-''-	58/1	साडबाई रामाधार	70/1	मनोहरसिंह धनसिंह	महिला अ.पि.व.	2
	-''-	7	-''-	70/2	गीताबाई गुलाबसिंह	107	महेश उमराव	महिला सामान्य	0
	-''-	8	विक्रमपुरखुर्द	1	रामसहाय मांगीलाल	19	श्रीराम किशोरीलाल		
	-''-	9	-''-	21	कैलाश मदनलाल	39	रूखमणी मांगीलाल		
	-''-	10	-''-	40	भगवानदास रामया	61	राजाराम मोती		

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
1	सारसूद	1	सारसूद	1	सत्यनारायण जोखीलाल	20	अ. जा.	4
-''-	-''-	2	-''-	21	कलाबाई राधेश्याम	36/1	अ. ज. जा.	2
-''-	-''-	3	-''-	37	सत्यनारायण रामेश्वर	52	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	53	गणेश बाबू	67	महिला अ. जा.	2
-''-	-''-	5	-''-	68	मथुराबाई जागेश्वर	88	महिला अ.ज.जा.	1
-''-	-''-	6	-''-	89	जमनादास रामदास	106	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	108	लालसिंह सुखदेव	131	महिला सामान्य	2
-''-	-''-	8	-''-	133	किशोरी मुकन्द	156		
-''-	-''-	9	-''-	157	रामगोपाल रामभाउ	187		
-''-	-''-	10	-''-	188	भागवतसिंह शंभूदयाल	800/1	राजेन्द्र रामदास	

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
1	जयमलपुरा	1	जयमलपुरा	1	शोभाराम ताराचंद	16	अ. जा.	2
-''-	-''-	2	-''-	17	रमेशकुमार श्रीकिशन	30	अ. ज. जा.	3
-''-	-''-	3	-''-	31	श्रीराम जगन्नाथ	41	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
-''-	-''-	4	-''-	42	नगीनचंद दगडूलाल	58	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	60	मिश्रीलाल पून्या	76/1	महिला अ.ज.जा.	2
-''-	-''-	6	-''-	76क	मांगीलाल शिवराज	83	महिला अ.पि.व.	2
-''-	-''-	7	-''-	84	सत्यसाईकृष्ण छत्रसिंह	94/2	महिला सामान्य	0
-''-	-''-	8	-''-	94/3	रामकृष्ण बाबूलाल	109क		
-''-	-''-	9	-''-	110	बाबू आडू	133		
-''-	-''-	10	हीरापुर	1	नेमीचंद जयसिंह	88	सलीता संतोष	
-''-	-''-	-	गंजीपुरावीरान					

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			मकान नं. से	मकान नं. तक	प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
1	कडोलाराघौ	1	कडोलाराघौ	2	रमेश चुन्नीलाल	20/1	अ. जा.	2
-''-	-''-	2	-''-	22	सीताराम सिंगदार	44/1	अ. ज. जा.	4
-''-	-''-	3	-''-	44क	सोमजी समरू	59	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
-''-	-''-	4	-''-	60	सावित्री रघुनाथसिंह	80	महिला अ. जा.	1
-''-	-''-	5	-''-	81	सोनाबाई प्रहलाद	108	महिला अ.ज.जा.	2
-''-	-''-	6	-''-	108/1	रामदास शिवप्रसाद	117	महिला अ.पि.व.	0
-''-	-''-	7	-''-	118	कुवरशाह किशन	137	महिला सामान्य	2
-''-	-''-	8	-''-	137क	भारतसिंह गुमानसिंह	145/1		
-''-	-''-	9	-''-	146	भरोष रतन	148/4		
-''-	-''-	10	चौकी	1	तोताराम विश्राम	27	राजेश शिवराम	

## कार्यालय, कलेक्टर ( पंचायत ) जिला हरदा, मध्यप्रदेश

## परिशिष्ट-5( अ )

हरदा, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 5188-पं. निर्वा.-31-2014.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

## सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्र. (3)	सीमा मकान नम्बर से मकान नम्बर तक परिवार के मुखिया के नाम सहित (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सोनखेड़ी	1	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक	अ. जा.	4
		2	सुशीला/मंशी से कैलाश/गब्बू के मकान तक	अ. ज. जा.	4
			म. नं. 13 से म. नं. 26 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		3	जगदीश/मांगीलाल से सुक्कू/जगू के मकान तक	महिला अ. जा.	2
			म. नं. 27 से म. नं. 41 तक	महिला अ. ज. जा.	2
		4	जगन्नाथ/भगवान से हरनारायण/ओमकार के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
			म. नं. 42 से म. नं. 55/2 तक के मकान तक	महिला अन्य	3
		5	हरलाल/रामलाल से सुमन/जगदीश के मकान तक		
			म. नं. 56 से म. नं. 64/1		
		6	नाथी/भीका से रेवाराम/खेताजी के मकान तक		
			म. नं. 65/1 से म. नं. 86 तक		
		7	राधेश्याम/हरनारायण से कैलाश/गंगू के मकान तक		
			म. नं. 87 से म. नं. अन्त तक		
		8	सुरज/दगडया से जगदीश/शिवराम के मकान तक		
			म. नं. 2 से म.नं. 20/2 तक		
9	सुनील/मधुसूदन से रेवाराम/रामचन्द्र के मकान तक				
	म. नं. 20/3 से म. नं. 37 तक				
10	गंगा/रामचंद्र से जगदीश/मोती के मकान तक				
	म. नं. 38 से म. नं. 51/1 तक				
11	गुलाब/अमर से श्रीराम/नत्थू के मकान तक				
	म. नं. 52 से म. नं. 60 तक				
12	रेवाराम/धन्नालाल से कैलाश/शिवराम के मकान तक				
	म. नं. 61 से म. नं. 76 तक				
13	रामोतार/भुगान से रामबाई/दायराम के मकान तक				
	म. नं. 77 से म. नं. 90 तक				
14	मनु/हीरासिंग से आनोखी/जगराम के मकान तक				
	म. नं. 91 से म. नं. 110 तक				
15	संतोष/जगराम से हरीशंकर/गंगाविशन के मकान तक				
	म. नं. 111 से म. नं. 118 तक				
		रामोतार/लक्ष्मण से भाउ/जैता के मकान तक			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16	म. नं. 119 से म. नं. 135/1 तक बोंदर/मोती से नारायण/गोपाल के मकान तक		
		17	म. नं. 136 से म. नं. अन्त तक सोना/अन्तर सिंग से राधारमेश के मकान तक.		
		आगरा वीरान			
2	डगावानीमा	1	डगावानीमा म. नं. 1 से म. नं. 18 तक रामबिलास हब्बा से बलराम गंगाराम के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	4 0
		2	म. नं. 20 से म. नं. 34 तक रामचंद सुखलाल से दुलारी यशवंत के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	3 2
		3	म. नं. 35 से म. नं. 47/5 तक सावित्री मेहताब से कमल सिंह नन्दु के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0 2
		4	म. नं. 48 से म. नं. 60/2 तक भागीरथ सुखराम के भागवती हजारी के मकान तक	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 61/1 से म. नं. 74/3 तक बलराम भाउजी से महेश प्रहलाद के मकान तक		
		6	म. नं. 75 से म. नं. 94 तक शिवप्रसाद टुकडया से किशोर सुखदेव के मकान तक		
		7	म. नं. 95 से म. नं. 116/2 तक जडिया घासीराम से मोतीराम बालाराम के मकान तक		
		8	म. नं. 119 से म. नं. अन्त तक मुल्लु रामकरण से दौलतदास मुडीदास के मकान तक		
	जिजगांवकला	9	म. नं. 1 से म. नं. 22 तक बलराम श्रीराम से रामचंद बाबूलाल के मकान तक		
		10	म. नं. 23 से म. नं. 36 तक भागवत सिंह देवकरण से सीतारामकरण के मकान तक		
		11	म. नं. 37 से म. नं. 54 तक बाबूलाल रामकरण से करण रामनारायण के मकान तक		
		12	म. नं. 55 से म. नं. अंत तक कलाबाई पन्नालाल से गोविन्द नारायण के मकान तक		
3	भुन्नास	1	भुन्नास म. नं. 1 से म. नं. 15 तक महेश/जगन्नाथ से शिवप्रसाद/राधेलाल के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	3 3
		2	म. नं. 17 से म. नं. 31 तक नारायणी/हजारी से गबू/हरिराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	5 2
	—	3	म. नं. 32 से म. नं. 55 तक जियालाल/फल्लु से धन्नाबाई/नर्मदाप्रसाद के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 3



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	भुन्नास	4 भुन्नास	म. नं. 56 से म. नं. 73 तक सत्यनारायण/मोजीराम से कमरान खां के मकान तक	महिला अन्य	3
		5	म. नं. 78 से म. नं. 91 तक अनोखीलाल/घुडया से हरिशंकर/दयाराम के मकान तक		
		6	म. नं. 93 से म. नं. 116/1 तक रविशंकर/गणेशशंकर से प्रभुदयाल/पूनमचंद के मकान तक		
		7	म. नं. 117 से म. नं. 130 तक कमाल/शमशेर खां से भुजराम/रामकरण के मकान तक		
		8	म. नं. 131 से म. नं. 144 तक संतोष/छितर से गबरू/बद्रीजी के मकान तक		
		9	म. नं. 148 से म. नं. 166 तक रमेशचंद/हीरालाल से बोंदर/मोहम्मद के मकान तक		
		10	म. नं. 167 से म. नं. 180 तक बलराम/रामोतार से पासा बाई/शिवचरन के मकान तक		
		11	म. नं. 182/1 से म. नं. 197/3 तक गंगाराम/रामलाल से सुभान/शहरूक के मकान तक		
		12	म. नं. 199 से म. नं. 224 तक अनवर/अल्लाबेली से नबाब खां/इमाम खां के मकान तक		
		13	म. नं. 225 से म. नं. 240 तक मालेखां/इमान खां से सुगना/गोंदालाल के मकान तक		
		14	म. नं. 241 से म. नं. 252 तक रविशंकर/हेमराज से नारायण/हीरालाल के मकान तक		
		15	म. नं. 253 से अन्त तक कैलाश/हीरालाल से रेवाराम/जयराम के मकान तक		
	आलनपुर	16	म. नं. 2 से म. नं. 15 तक गोदालाल/कचरिया से नाथूराम/घासीराम के मकान तक		
		17	म. नं. 17 से म. नं. 36 तक बलरामदास से सुगना/शिवराम के मकान तक		
		18	म. नं. 37 से म. नं. 58/1 तक सखाराम/रामचन्द्र से संतोष/राधाकिशन के मकान तक		
		19	म. नं. 59 से म. नं. 73 तक शांता/कचरया से लक्ष्मीनारायण/भीका के मकान तक		
		20	म. नं. 74 से म. नं. अन्त तक नर्मदी/नेदाजी से वंशीलाल/प्यारेलाल के मकान तक		
4	अबगांवखुर्द	1	म. नं. 2 से म. नं. 21 तक शंकरलाल/दवाजी से गुलाब/सालकराम के मकान तक	अ. जा.	3
		2	म. नं. 24 से म. नं. 33 तक नर्मदा/लच्छीराम से लक्ष्मीनारायण/गोकुल के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	1 5
		3	म. नं. 34 से म. नं. 52 तक जगदीश/शिवनारायण से अमीर/स के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 1
		4	म. नं. 52/1 से म. नं. 62 तक इमरतलाल/रामप्रसाद से गोकुल/मिश्रीलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	3 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अबगांवखुर्द	5 अबगांवखुर्द	म. नं. 63/1 से म. नं. 81/2 तक चम्पालाल/प्रहलाद से दिनेश/जागेश्वर के मकान तक		
		6	म. नं. 82 से म. नं. 98 तक मिश्रीलाल/हजारीलाल से रामदास/छीतर के मकान तक		
		7	म. नं. 99 क से म. नं. 114 तक लीला/बोन्दर से रेवाशंकर/रमेशचंद के मकान तक		
		8	म. नं. 115/1 से म. नं. 126/1 क तक कमला/अनोखी से बाबूलाल/गोवर्धन के मकान तक		
		9	म. नं. 127 से म. नं. 138 क तक रामशरण/उग्रामी से हरलाल/शिवराम के मकान तक		
		10	म. नं. 141 से म. नं. 152 तक कोकिला/पृथ्वीसिंह से गंगाधर/बृजमोहन के मकान तक		
		11	म. नं. 154 से म. नं. 160 तक रामदीन/कचरू से गजराज/नन्दू के मकान तक		
		12	म. नं. 160 क से म. नं. 167 तक रामाधार/रामप्रसाद से मोहन/मांगीलाल के मकान तक		
		13	म. नं. 169 से म. नं. 183 तक रामकृष्णा/हजारी से संतोष/हेमराज के मकान तक		
		14	म. नं. 185 से म. नं. 196 तक जगन्नाथ/बिहारी से राजेश/नर्मदाप्रसाद के मकान तक		
		15	म. नं. 196 क से म. नं. 203 तक कैलाश/देवजी से कमल/हजारीलाल के मकान तक		
		16	म. नं. 203/1 से म. नं. 207 क तक रमेश कुमार/रामचरण से अशोक/रमेश के मकान तक		
		17	म. नं. 208 से म. नं. 223 तक कैलाश/घुडया से रामबिलास/गयाप्रसाद के मकान तक		
		18	म. नं. 224 से म. नं. 238 तक रेवाराम/नारायण से चंद्र सिंह/बाबूलाल के मकान तक		
		19	म. नं. 239 से म. नं. 244 तक पर्वत सिंह/जगन्नाथ से विनोद/गंगाविशन के मकान तक		
		20	म. नं. 245 से म. नं. 256 तक रामदीन/रामप्रसाद से बहादुर/भादूसिंह के मकान तक		
5	हरदाखुर्द	1 हरदाखुर्द	म. नं. 0 से म. नं. 21 तक महेश से मनीषा के मकान तक	अ. जा.	3
		2	म. नं. 22 से म. नं. 44 तक नवल सिंह से रोहित के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 5
		3	म. नं. 45 से म. नं. 94 तक जमना से सुनिता के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 2
		4	म. नं. 95 से म. नं. 131 तक ओंकार से पवन के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		5	म. नं. 132 से म. नं. 154 तक रामौतार से पवन के मकान तक	महिला अन्य	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरदाखुर्द	6	हरदाखुर्द	म. नं. 154/1 से म. नं. 185/2 तक शिवलाल से सुनिता के मकान तक	
		7		म. नं. 186 से 199 क तक देवीलाल से जयश्री के मकान तक	
		8		म. नं. 200 से म. नं. 210क तक बसन्ती से श्रवण के मकान तक	
		9		म. नं. 220 र से म. नं. 224 तक ममता से अनिता के मकान तक	
		10		म. नं. 226 से म. नं. 200/18 तक काशीराम से शिखा के मकान तक	
		11		म. नं. 200/19 से म. नं. 219/4 तक वंशीलाल से ज्योति के मकान तक	
		12		म. नं. 219 क से म. नं. 200/6 तक भूपेन्द्र सिंह से सावित्री के मकान तक	
		13		म. नं. 2005 से म. नं. 110 तक कुशुम से ममता के मकान तक	
		14		म. नं. 9 से म. नं. 201/24 तक सविता से महेन्द्र के मकान तक	
		15		म. नं. 201/25 से म. नं. 1502 तक रविन्द्र कुमार से प्रीति के मकान तक	
		16		म. नं. 0 से म. नं. 2056 तक रसोनाबाई से सुखलाल के मकान तक	
		17		म. नं. 20अ से म. नं. 205/2 तक विवेक से मनीषा के मकान तक	
		18		म. नं. 205/3 से म. नं. 212 क तक गोविन्द से सुनिल के मकान तक	
		19		म. नं. 212 ख से म. नं. 285 तक अमीर खान से अनीता के मकान तक	
	एवं रिछाड़िया	20		म. नं. 285/2 से म. नं. अन्त तक सुनेन्द्र सिंह से गणेश के मकान तक	
6	पिडगांव	1	पिडगांव	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक हरनारायण/कुंजीलाल से बलराम/छननू के मकान तक	अ. जा. 3
		2		म. नं. 13/1 से म. नं. 26 तक जगदीश/वरुवा से कैलाश जगन्नाथ के मकान तक	अ. ज. जा. 2
		3		म. नं. 25 से म. नं. 36 तक शांता बाई/रघुनाथ से जगदीश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग 5
		4		म. नं. 37 से म. नं. 50/2 तक विष्णु प्रसाद/गयाराम से हरिसिंह/पून्या के मकान तक	महिला अ. जा. 2
		5		म. नं. 50 से म. नं. 64 तक सुनीता/दिविजय से रणछोड़/पन्नालाल के मकान तक	महिला अ. ज. जा. 1
					महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 3
					महिला अन्य 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पिडगांव	6 पिडगांव	म. नं. 65 से म. नं. 82/1 तक मेगराज/आन्या से मुकेश/रेवाराम के मकान तक.		
		7	म. नं. 83 से म. नं. 91 तक जगदीश/हीरालाल से मिठिया बाई/बालाराम के मकान तक		
		8	म. नं. 93 से म. नं. 101 तक करीम खां/बाबुलाल से मोहनलाल/रामेश्वर के मकान तक		
		9	म. नं. 102 से म. नं. 114 तक अनोखीलाल/शिवलाल से भगवान/जोगीलाल के मकान तक		
		10	म. नं. 115 से म. नं. 127 तक रामदयाल/मांगीलाल से अलाबकस/हैदर खां के मकान तक		
		11	म. नं. 128 से म. नं. 146 तक बिसमिल्ला बाई/गुल्लु से प्रहलाद/गौरीशंकर के मकान तक		
		12	म. नं. 152 से म. नं. 186 तक चन्द्रशेखर/खेमराज से रामलाल/बाबूलाल के मकान तक		
		13	म. नं. 187 से म. नं. अन्त तक संतोष कुमार/बाखया से अजयसिंह/जिन्द्रपाल सिंह के मकान तक		
		14 मझली	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक दिनेश कुमार/राधाकिशन से राम/भागीरथ के मकान तक		
		15	म. नं. 12 से म. नं. 21 तक रामभरोस/नत्थू से रामकृष्ण/आत्माराम के मकान तक		
		16	म. नं. 22 से म. नं. 36/4 तक रामसिंह/भीखाजी से रज्जन कुमार/शिवराम के मकान तक		
		17	म. नं. 37/4 से म. नं. 46 तक हबीब खां/रहमान खा से गायत्री/बाबूलाल के मकान तक		
		18	म. नं. 46 क से म. नं. 55 तक जगदीश प्रसाद/भगवान से शिवनारायण/भागीरथ के मकान तक		
		19	म. नं. 56 से म. नं. 75 क तक भगवान सिंह/कर्णसिंह से शांता बाई/राधेश्याम के मकान तक		
		20	म. नं. 78 से म. नं. अन्त तक शिवराम/कुन्जी से राजेन्द्र कुमार/बाबुलाल के मकान तक		
7	उडा	1 उडा	म. नं. 1 से म. नं. 15 तक राधेश्याम/हरी से महेश/सीताराम के मकान तक	अ. जा.	6
		2	म. नं. 16/1 से म. नं. 24 तक धापू बाई से महेश/नाथूराम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 5
		3	म. नं. 24/1 से म. नं. 40 तक विष्णु/नाथूराम से मनीष/मदनलाल के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3 2 3
		4	म. नं. 40/1 से म. नं. 64 तक गोराबाई/शिवराम से गफूर/खुदाबक्स के मकान तक	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 65 से म. नं. 88 तक गरीबा/सीताराम से राधेश्याम/मंगू के मकान तक		
		6	म. नं. 89 से म. नं. 110/2 तक रामोतार/बुद्ध से बादर खां/नज्जूखां के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	उडा	7 उडा	म. नं. 113 से म. नं. 131/3 तक गेदालाल/रघुनाथ से मथरा/मौजीराम		
		8	म. नं. 131/4 से म. नं. 147 तक रमेशचंद से श्यामलाल/रामप्रसाद के मकान तक		
		9	म. नं. 148/1 से म. नं. 160 तक धीरज/लक्ष्मीनारायण से नितिन/अत्माराम के मकान तक		
		10	म. नं. 161/1 से 172/5 तक शिवशंकर/लक्ष्मी से पार्वती/पप्पू के मकान तक		
		11	म. नं. 172/6 से म. नं. 183 तक शोभाराम/बोहरा से रामकृष्णा/पूनम के मकान तक		
		12	म. नं. 184 से म. नं. 199/1 तक मदनलाल/तुलसीराम से सुषमा के मकान तक		
		13	म. नं. 199/2 से म. नं. 214/2 तक रामदास/रामेश्वर से सुशीला के मकान तक		
		14	म. नं. 215 से म. नं. 248/1 तक कस्तुरीबाई/हीराजी से नितेश के मकान तक		
		15	म. नं. 249/2 से 264/5 तक अपना/रामगुलाम से राकेश के मकान तक		
		16	म. नं. 264/4 क से म. नं. 272 तक मुन्नालाल/भाउ से मधु/मुकेश के मकान तक		
		17	म. नं. 273 से म. नं. 287 तक उमेश/राम से संगीता/पप्पू		
		18	म. नं. 288/1 से म. नं. 304 तक जगदीश/महादेव से सोनम के मकान तक		
		19	म. नं. 305 से म. नं. 322 तक कलावती/परमेश्वर से मनीष के मकान तक		
		20	म. नं. 324 से अन्त तक छोटी बाई/रामदुलारे से अंत तक के मकान तक		
8	भाटपरेटिया	1 भाटपरेटिया	म. नं. 1 से म. नं. 10 तक लक्ष्मीनारायण/जगन्नाथ से नन्हेलाल/धनलाल के मकान तक	अ. जा.	4
		2	म. नं. 11 से म. नं. 22 तक शारदाबाई/उमाशंकर से पृथ्वीलाल/कालूराम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	2 4
		3	म. नं. 23 से म. नं. 31 तक अर्चना/अनिल से गेंदालाल/आनंदराम के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 1
		4	म. नं. 32 से म. नं. 42 तक पृथ्वीलाल/अनवर से गीता बाई/पंनालाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	2 4
		5	43 से 56 तक सुदरबाई/रणछोड से भगवान/मोहन के मकान तक		
		6	म. नं. 57 से म. नं. 70 तक लक्ष्मीनारायण/मोहन से अमरसिंह/सोनु के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	भाटपरेटिया	7	भाटपरेटिया	म. नं. 71 से म. नं. 86 तक जीवन/लच्छू से कांतीबाई/चंपालाल के मकान तक		
		8		म. नं. 87 से अंत तक छगनलाल/बद्रीप्रसाद से प्रीतम/बाबुलाल के मकान तक		
	रूपीपरेटिया	9	रूपीपरेटिया	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक यूसूफखान/ईवाहिम खान से सुखलाल/सुंदरलाल के मकान तक		
		10		म. नं. 15 से म. नं. 30 तक मांगीलाल/रणछोड से श्रीराम/रामदास के मकान तक		
		11		म. नं. 31 से म. नं. 43 तक आत्माराम/जागेश्वर से श्यामसिंह/गुलजारी के मकान तक		
		12		म. नं. 44 से म. नं. 53/1 तक रामकृष्ण/नानकराम से तुकाराम/शिवचरण		
		13		म. नं. 54 से म. नं. 74 तक रेवाराम/रामा से कैलाश/नत्थू के मकान तक		
		14		म. नं. 76 से म. नं. अंत तक आशाबाई/शेर खा से इमरान/नुरू खा		
	कोटल्याखेडी	15	कोटल्याखेडी	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक रमेश/जयराम से मलखान/श्रीराम के मकान तक		
		16		म. नं. 15 से म. नं. अंत तक कोकिलाबाई/यशवंतसिंह से सुबोध/गोरीशंकर के मकान तक		
	दुधकच्छ	17	दुधकच्छ	म. नं. 1 से म. नं. अंत तक दशरथ/ मानसिंह से रामकिशोर/कन्हैयालाल के मकान तक		
9	कुकरावद	1	कुकरावद	म. नं. 1 से म. नं. 19 तक अनोखी/देवा से अमरावती/किशोर के मकान तक	अ. जा.	6
		2		म. नं. 20 से म. नं. 33 तक बसकर/किशन से जयपाल/मेघराज के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 5
		3		म. नं. 34 से म. नं. 49 तक शंकरलाल/तुलसीराम से सुलीता/श्रीराम के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	3 2
		4		म. नं. 50 से म. नं. 63 तक रामरतन/बालाराम से आरती/सत्यनारायण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	3 2
		5		म. नं. 64 से म. नं. 81 तक बालाराम/रामदास से प्रमिला/धन्नालाल के मकान तक		
		6		म. नं. 83 से म. नं. 94 तक हरीप्रसाद/गिरधारी से क्षमा/प्रवीण के मकान तक.		
		7		म. नं. 95 से म. नं. 108 तक राधेलाल/शिवलाल से नर्मदा/हीरा के मकान तक		
		8		म. नं. 118 से म. नं. 128/2 तक अन्तरसिंग/जनमत से मुकेश/रामोतार के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कुकरावद	9 कुकरावद	म. नं. 129 से म. नं. 140 तक प्रह्लाद/उमराव से आरती/सोनु के मकान तक		
		10	म. नं. 140 ख से म. नं. 150 तक राजू/भय्यालाल से राहुल/महेश के मकान तक		
		11	म. नं. 152 से म. नं. 179 तक रमा/सत्यनारायण से ओमप्रकाश/शंकरदयाल के मकान तक		
		12	म. नं. 180 से म. नं. 199 तक मांगीलाल/पन्नालाल से प्रमीला/गणेश के मकान तक		
		13	म. नं. 200 से म. नं. 226 तक रूखमणी/मनोहर से क्षमा/अशोक के मकान तक		
		14	म. नं. 228 से म. नं. 260 तक जयनारायण/पूनमचंद से संगीता/हेमंत के मकान तक		
		15	म. नं. 261 से म. नं. 289 तक भागवती/चम्पालाल से रंजना/दीपक के मकान तक		
		16	म. नं. 290 से म. नं. अन्त तक नर्मदा /प्रह्लाद से कपिल/पन्नालाल के मकान तक		
		17 झुण्डगांव	म. नं. 1 से म. नं. 20 तक रैशम /बाबू से ममता/सुरेश के मकान तक		
		18	म. नं. 21 /1 से म. नं. 39 तक किशोर/रामकिशन से सुगना/धुव कुमार के मकान तक		
		19	म. नं. 40 से म. नं. अन्त तक तुलसीबाई/रामलाल से शिवओम के मकान तक		
		20 सुल्तानपुर	म. नं. 2 से म. नं. अन्त तक जाकिर/असिफ से साबरा /गप्फार के मकान तक.		
10	रन्हाईकला	1 रन्हाईकला	म. नं. 1 से म. नं. 27/1 तक राधेलाल/मान्या से संदीप/भवानीशंकर के मकान तक	अ. जा.	6
		2	म. नं. 29 से म. नं. 50 तक गणेश/जोखीलाल से सखाराम/पंचम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	1 5
		3	म. नं. 51 से म. नं. 77 तक रामभरोस/सखाराम से कमला/रामेश्वर के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	3 1
		4	म. नं. 79 से म. नं. 98 तक शेकुन/रामलाल से महेश/शिवनारायण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	3 3
		5	म. नं. 99/1 से म. नं. 110 तक केवल/शिवकरण से भागीरथ/चम्पालाल के मकान तक		
		6	म. नं. 111 से म. नं. 132 तक मोतीराम/चंपालाल से सीताराम/मदनलाल के मकान तक.		
		7	म. नं. 133 से म. नं. 148 तक कोमलराम/ओंकार से मुरलीधर/बद्रीप्रसाद के मकान तक		
		8	म. नं. 149 से म. नं. 167 तक किशोर/जागेश्वर से रमेश/मोहनलाल के मकान तक		
		9	म. नं. 168 से म. नं. 189 तक चंपालाल/मोहन से गयाप्रसाद/श्यामलाल के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	रन्हाईकला	10	रन्हाईकला	म. नं. 190 से म. नं. 204 तक सत्यानारायण/बृजलाल से हरिराम/जोखीलाल के मकान तक		
		11		म. नं. 205 से म. नं. 223 तक रामदास/जोखीलाल से अशोक/सालकराम के मकान तक		
		12		म. नं. 224 से म. नं. 246 तक हरिराम/गेंदालाल से पांचा/गणपत के मकान तक		
		13		म. नं. 247 से म. नं. 273 तक रतिराम/गणपत से चैनसिंह/समोत्या के मकान तक		
		14		म. नं. 275 से म. नं. 302 तक कुसुम/गोकुल से गोवर्धन/जतन के मकान तक		
		15		म. नं. 303 से म. नं. 310 तक विष्णु/शिवकरण से शिवप्रसाद/बट्टूलाल के मकान तक		
		16		म. नं. 312 से म. नं. 366 तक लक्ष्मण/सुदरिया से प्रमोद/दुर्गाप्रसाद के मकान तक		
		17		म. नं. 367 से म. नं. 332क तक कुलदीप/बद्रीप्रसाद से मथुरादास/काशीराम के मकान तक		
		18		म. नं. 334 से म. नं. 358 तक द्वारकाप्रसाद/कशीराम से गंगाप्रसाद/बाबूलाल के मकान तक		
		19		म. नं. 359 से म. नं. 376 तक रामदुलारी/किशोर से भगवानदास/दीनदयाल के मकान तक		
		20		म. नं. 377 से म. नं. अन्त तक सविता/गरिबदास से रामबकश/छगन के मकान तक.		
	भामानर विरान			-		
11	कडोलाउबारी	1	कडोलाउबारी	म. नं. 1 से म. नं. 9/1 तक जोराबी/छूट्टन खां से रेखा/नैनसिंग के मकान तक	अ. जा.	1
		2		म. नं. 9/2 से म. नं. 17/2 तक उदयसिंग/घनश्याम से राधाबाई/राजेंदसिंग के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	2 3
		3		म. नं. 17/3 से म. नं. 24 तक देवीसिंग/बापूसिंग से राजू/जगन्नाथ के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	1 1
		4		म. नं. 25 से म. नं. 38 तक हरिबकस/मिश्रीलाल से सुलोचना/हरिसिंह के मकान तक	महिला अन्य महिला अन्य	2 3
		5		म. नं. 39 से म. नं. 54 तक हुसैन खां/शेखलाल से हीना/इकलाल खां के मकान तक		
		6		म. नं. 55 से म. नं. 65 तक हसरतवती/मजीदखां से रीतुराज/किशोर जाट के मकान तक.		
		7		म. नं. 66 से म. नं. 86 तक बाबूलाल/नाथूराम से सूरज/फूलचन्द के मकान तक		
		8		म. नं. 87 से म. नं. 102 तक रामलाल/हजारी से अखिल/सुरेशचंद विश्णोई के मकान तक		
		9		म. नं. 103 से म. नं. 114 तक सुभाष/जगदीश से शवीनाबी/जाहिंद के मकान तक		
		10		म. नं. 115 से म. नं. 122/2 तक शशबीर/बाबू/अतीक/सिकदार खां के मकान तक		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कडोलाउबारी	11	कडोलाउबारी म. नं.126 से म. नं. 140/1 तक बफातबी/कासम खां से वश्क/इकलाक के मकान तक		
		12	म. नं. 141 से म. नं. 153 तक कैलाश/रंगलाल से धर्मेद/गणेश के मकान तक		
		13	म. नं. 154 से म. नं. अंत तक अकीना/इब्राहिम खां से गंगाबाई/नर्मदाप्रसाद के मकान तक.		
12	सामरधा	1	सामरधा म. नं. 1 सीता बाई के मकान से म. क्र. 13 उमेश के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	1 4
		2	म. नं. 14 मुन्ना के मकान से म. क्र. 30 निर्मल कुमार के मकान तक.	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 1
		3	म. नं. 31 गोरेलाल के मकान से म. क्र. 38 आनंद सारन के मकान तक.	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 0
		4	म. नं. 39 रनछोडजी के मकान से म. क्र. 49 बृजमोहन के मकान तक.	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 50 क बालाराम/श्रीकिशन मकान से म. क्र. 58 संतोष के मकान तक		
	नहालखेड़ा	6	म. नं. 2 तुलसीराम मकान से म. क्र. 22 नबा के मकान तक.		
		7	म. नं. 23 शारदा बाई मकान से म. क्र. 33 सचिन के मकान तक		
		8	म. नं. 34 रामोतार के मकान से म. क्र. 46 करणलाल के मकान तक		
	रन्याखेड़ी	9	म. नं. 3 मेहताप के मकान से म. क्र. 14 राधेश्याम के मकान तक		
		10	म. नं. 15 अमर सिंह के मकान से म. क्र. 41 दयाराम के मकान तक		
13	नीमगांव	1	नीमगांव म. नं. 1 से म. नं.22 तक नर्मदाप्रसाद/जागेश्वर से अर्जुनलाल/केशवर के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	1 9
		2	म. नं. 24 से म. नं. 40 तक सत्यनारायण/प्रकाश से गजराज/कुजीलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 1
		3	म. नं.40 क से म. नं. 50/1 तक शोभाराम/बलदेव से रामदयाल/हजारी के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	5 0
		4	म. नं. 51 से म. नं. 67 तक लक्ष्मीबाई/गंगाबिशन से सुखलाल/शानू के मकान तक	महिला अन्य	4
		5	म. नं. 68 से म. नं. 91 तक सुखलाल/रामसुख से शिवराम/मोती		
		6	म. नं. 91/1 से म. नं.105/1 तक मुकेश/बाबूलाल से बुद्धु खान के मकान तक.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	नीमगांव	7	नीमगांव	म. नं. 106 से म. नं. 116/ज तक	
		8		रामोतार/मौजीराम से हरनाथ/बाबूलाल के मकान तक	
		9		म. नं. 118 से म. नं. 126 तक	
		10		गजानंद/कमलसिंग से शारदाबाई/रामकिशोर के मकान तक	
		11		म. नं. 127 से म. नं. 138 तक	
		12		दिनेश/गंगाराम से शिवनारायण/रामचंद के मकान तक	
		13		म. नं. 139 से म. नं. 150 तक	
		14		रामलाल/निमा से द्रोपती बाई/बगडावत के मकान तक	
		15		म. नं. 151 से म. नं. 170 तक	
		16		रामेश्वर/गोपी से प्रवीण/मोती सिंग के मकान तक	
	उडवा	17		म. नं. 1 से म. नं. 21 तक	
		18		खिया/मौजीराम से सुक्या/गणेश के मकान तक	
		19		म. नं. 23 से म. नं. 167/1 तक	
		20		रामप्यारी/जयकिशन से श्यामलाल/तेजा के मकान तक	
	मिर्जापुर	21		म. नं. 1 से म. नं. 11 तक	
		22		कैलाश/मौजीलाल से रामोतार/पन्नालाल के मकान तक	
		23		म. नं. 12 से म. नं. 26 तक	
		24		प्यारसिंग/भागचंद से मनसुखी/डाली के मकान तक	
	डोमनमड	25		म. नं. 1 से म. नं. 16 तक	
		26		सोना बाई/बालाराम से किशोर/मांगीलाल के मकान तक	
		27		म. नं. 19 से म. नं. 31 तक	
		28		उमाशंकर/रघुनाथ से प्रेमनारायण/घासीराम के मकान तक	
		29		म. नं. 31/1 से म. नं. 44 तक	
		30		श्यामलाल/रामलाल से आशाबाई/मदन के मकान तक	
		31		म. नं. 46/1 से म. नं. 83/1 तक	
		32		बालमुकुन्द/कुंजीलाल से गुलाबचंद/मांगीलाल के मकान तक.	
14	कायागांव	1	कायागांव	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक	अ. जा. 2
		2		केशव/प्रसाद से संजू/अर्जुन के मकान तक	अ. ज. जा. 6
		3		म. नं. 14 से म. नं. 27 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग 0
		4		रामभरोस से सूजाता/श्यामलाल के मकान तक	महिला अ. जा. 1
		5		म. नं. 28 से म. नं. 39 तक	महिला अ. ज. जा. 3
		6		पन्नालाल से राहुल/रामनारायण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 0
		7		म. नं. 40 से म. नं. 47 तक	महिला अन्य 1
		8		रामकली/राजाराम से जितेन्द्र/उमेश के मकान तक	
		9		म. नं. 47 क से म. नं. 58 तक	
		10		पूनमचंद से मनुदेवी लाल के मकान तक	
		11		म. नं. 61 से म. नं. 69/2 तक	
		12		सरजू/रामचन्द्र से लक्ष्मी/नर्मदाप्रसाद के मकान तक.	
		13		म. नं. 70 से म. नं. 79 तक	
		14		सुमेर सिंह/रूखडया से हरनारायण के मकान तक	
		15		म. नं. 80 से म. नं. 87 तक	
		16		गुलाब सिंग से रेखा अशोक के मकान तक	
		17		म. नं. 88 से म. नं. 97/1 तक	
		18		उमेद सिंग से हुकुमचंद के मकान तक	
		19		म. नं. 97/2 से म. नं. अंत तक	
		20		जुगराज से हीरालाल के मकान तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	देवतालाब	1 देवतालाब	म. नं. 1 से म. नं. 24 तक	अ. जा.	4
			बसू बाई/अनार सिंह से गेंदालाल/उमराव के मकान तक	अ. ज. जा.	6
		2	म. नं. 26 से म. नं. 36 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
			रामनिवास/रामप्रसाद से रामहेत/गब्बुलाल के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3	म. नं. 37 से म. नं. 61 तक	महिला अ. ज. जा.	3
			रमेश/चैनसिंह से हेमराज/रामलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म. नं. 62 से म. नं. 79 तक	महिला अन्य	4
			हरकुबाई/भुजराम से धन्नालाल/किशनलाल के मकान तक		
		5	म. नं. 80 से म. नं. 88 छ तक		
			रामनारायण/काकाजी से हरिचंदर सिंग के मकान तक		
		6	म. नं. 93 से अंत तक		
			किशनलाल/रामप्यारी से रामाधार के मकान तक.		
		7 अतरसामा	म. नं. 1 से म. नं. 16 घ तक		
			सुखलाल/ओंकार से कली/रामकिशन के मकान तक		
		8	म. नं. 20 से म. नं. 41 तक		
			लक्ष्मण/बाबू से हरिराम/मोजीराम के मकान तक		
		9	म. नं. 41 क से म. नं. 58 तक		
			लालबहादुर/रामलाल से जगदीश/मूलचंद के मकान तक		
		10	म. नं. 59 से 74 क तक		
			रामबकस/रामभाउ से सरजू बाई/मोजीराम के मकान तक		
		11	म. नं. 76 से म. नं. अंत तक		
			रामभरोस/गंगाराम से वर्षाबाई/मुकेश कुमार के मकान तक		
		12 कोलबा	म. नं. 1 से म. नं. 18 तक		
			जगदीश/आशाराम से रेवाराम/हेमाजी के मकान तक		
		13	म. नं. 19 से म. नं. 29 तक		
			जगन्नाथ/किशनलाल से नर्बदी/हेमाजी के मकान तक		
		14	म. नं. 30 से म. नं. 40 ख तक		
			हरीराम/मोतीराम से माघो/गेंदालाल के मकान तक		
		15	म. नं. 40 ग से म. नं. 58 तक		
			नवलसिंह/दोलतराम से जसवंत/बाबूलाल के मकान तक		
		16	म. नं. 59 से म. नं. 81 तक		
			शिव/मांगीलाल से रेवाराम/आशाजी के मकान तक		
		17	म. नं. 83 से म. नं. अंत तक		
			बसंती/शंकरलाल से कृपा बाई/रामू के मकान तक		
16	रहटाखुर्द	1 रहटाखुर्द	म. नं. 1 से म. नं. 16/3 तक	अ. जा.	3
			रोशन से निसार खां के मकान तक	अ. ज. जा.	0
		2	म. नं. 17/1 से म. नं. 28 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
			सत्तार खां से छोटे खां के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3	म. नं. 30 से म. नं. 47 तक	महिला अ. ज. जा.	0
			अहसान खां से बुजलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 48 से म. नं. 63 तक	महिला अन्य	4
			प्रेमबाई से रामभरोस के मकान तक		
		5	म. नं. 64 से म. नं. 75 तक		
			सालकराम से रसीद खां के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6		म. नं. 75क से म. नं. 90 तक सगीर खां से सुनिल के मकान तक		
	7		म. नं. 91 से म. नं. 105 तक सगीर खां से सुनिल के मकान तक		
	8		म. नं. 106 से म. नं. 119 तक अमरदास से रणछोड़ के मकान तक		
	9		म. नं. 120 से म. नं. 135 तक दशरत से जलील खां के मकान तक		
	10		म. नं. 136 से म. नं. 149 तक रामप्रसाद से सेवकराम के मकान तक		
	11		म. नं. 150 से म. नं. 156 तक राधेश्याम से ईशरतजहां के मकान तक		
	12		म. नं. 159 से म. नं. 174घ तक आधार से रेहमान खां के मकान तक		
	13		म. नं. 174/थ से म. नं. 192 तक आजाद खां से विजय सिंह के मकान तक		
	14	विरजाखेड़ी	म. नं. 1 से म. नं. 8क तक रेहमान से मुबारिक खां के मकान तक		
	15		म. नं. 9 से म. नं. 45 तक जब्बार खां से अलताफ खां के मकान तक		
17	बालागांव	1	बालागांव	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक श्रवण कुमार/सुरेश से गोपाल/श्रीराम के मकान तक	अ. जा. 5 अ. ज. जा. 2
		2	म. नं. 12 से म. नं. 28 तक रामलाल/नारायण से अरुणा/अखलेश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग 5 महिला अ. जा. 3	
		3	म. नं. 29 से म. नं. 42 तक नारायण/ चंपालाल से गणेश/नानकराम के मकान तक	महिला अ. ज. जा. 1 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 3	
		4	म. नं. 43/2 से म. नं. 62च तक फतु/बिहारी से शिवकुमारी/राहुल के मकान तक	महिला अन्य 3	
		5	म. नं. 62 छ से म. नं. 83 तक कुसुम/रमेश से शमी/रामदास के मकान तक		
		6	म. नं. 84 से म. नं. 99 तक गोकुल प्रसाद घासीराम से रामलली/सियाराम के मकान तक		
		7	म. नं. 100 से म. नं. 118 तक रमेश/ग्यारसराम से शीतल/संतोष के मकान तक		
		8	म. नं. 119 से म. नं. 136 तक मदन/जीवराज से नर्मदा /पतिराय के मकान तक		
		9	म. नं. 137 से म. नं. 150 तक सती/रामकरण से अरविंद/हृदयराम के मकान तक		
		10	म. नं. 152 से म. नं. 162/3 तक पुनीया/तुलसीराम से संतु/हबुलाल के मकान तक		
		11	म. नं. 162 क से म. नं. 169/2 तक दयाराम/राधेलाल से मनीष/ओमप्रकाश के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12	म. नं. 170 से म. नं. 178 तक सुमेरसिंह/विशन से प्रतिमा/बद्रीप्रसाद के मकान तक		
		13	म. नं. 179 से म. नं. 195 तक दुलारी/कन्हैयालाल से मनोज/आत्माराम के मकान तक		
		14	म. नं. 195 क से म. नं. 209 क तक धनश्याम/सीताराम से जमना/पन्नालाल के मकान तक		
		15	म. नं. 210 से म. नं. 221क तक शिवनारायण/रघुनाथ से रामबाई/हरिशंकर के मकान तक		
		16	म. नं. 221ख से म. नं. 234क तक सुंदरलाल/चिरोजीलाल से हंसा/अवधनारायण के मकान तक		
		17	म. नं. 235 से म. नं. 246 तक श्री किशन/मूलचंद से हरगोविंद/लक्ष्मीनारायण के मकान तक		
		18	म. नं. 246 क से म. नं. 268 तक चरणसिंह/गोपाल सिंह से विजेश/जमनाप्रसाद के मकान तक		
		19	म. नं. 268/1 से म. नं. 280 तक जयनारायण/रामाधार से हरिओम/सुखराम के मकान तक		
		20	म. नं. 280क से म. नं. अंत तक रमेश कुमार/श्रीराम से पार्वती/कलीराम के मकान तक		
			भुरानीखेडी विरान		
18	बूंदडा	1	म. नं. 1 से म. नं. 9 तक किशोरी सिंग से पवन/लच्छीराम के मकान तक	अ. जा.	2
		2	म. नं. 9ख से म. नं. 17 तक नर्मदा/गिरधारी से अहल्या/जगन्नाथ के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 3
		3	म. नं. 17 क से म. नं. 27 तक ओमप्रकाश/राधेश्याम से हरिराम/रामकिशन के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	1 2
		4	म. नं. 28 से म. नं. 39 तक जागेश्वर/चम्पालाल से त्रिवेणी/बलराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	2 0
		5	म. नं. 40 से म. नं. 47 तक गंगाराम/लालचंद से रामदास/बलिराम के मकान तक		
		6	म. नं. 47क से म. नं. 58 तक विमला/शांताराम से बालाराम/शिवराम के मकान तक		
		7	म. नं. 59 से म. नं. 69/1 तक नर्मदा/कन्नू से शंकर/रामनारायण के मकान तक		
		8	म. नं. 69/2 से म. नं. 80 तक मथुरा/शिवराम से चम्पालाल/देवकरण के मकान तक		
		9	म. नं. 81/2 से म. नं. 94 तक सलिता/दयाराम से सुन्दर/साबूलाल के मकान तक		
		10	दिनकर पुरा म. नं. 95 से म. नं. अन्त तक बनु बाई/भुजराम से किशोर/बाजूलाल के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	जिजगांवखुर्द	1	जिजगांवखुर्द म. नं. 1 क से म. नं. 15 तक	अ. जा.	2
			गुलाब/किशोर से रामगोपाल के मकान तक	अ. ज. जा.	0
		2	म. नं. 16 से म. नं. 26/1 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
			बसंत से आरती के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3	म. नं. 27 से म. नं. 47 तक	महिला अ. ज. जा.	0
			कोमल से मीराबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 49/1 से म. नं. 61 ख तक	महिला अन्य	4
			लाडकी बाई से मोहन के मकान तक		
		5	म. नं. 62 से म. नं. 84 तक		
			भागीरथ से ज्योति के मकान तक		
		6	म. नं. 85 से म. नं. 95 तक		
			जगदीश से पिन्की के मकान तक		
		7	म. नं. 95क से म. नं. 106 तक		
	शिवनारायण से राजकुमारी के मकान तक				
8	म. नं. 106/1 से म. नं. 128 तक				
	अनिता से क्षमा के मकान तक				
9	म. नं. 129 से म. नं. 146 तक				
	श्यामलाल से प्रियंका के मकान तक				
10	म. नं. 147 से म. नं. 181 तक				
	श्यामलाल से ज्योति के मकान तक				
11	म. नं. 182 से म. नं. 200 तक				
	अशरफ से लक्ष्मी के मकान तक				
12	म. नं. 203 से म. नं. 232 तक				
	मुकेश से गायत्री के मकान तक				
13	म. नं. 234 से म. नं. अन्त तक				
	रामराज से कुसुम बाई के मकान तक				
	खेडी बोदरू विरान डगावाबलवन्त वीरान				
20	सिरकम्बा	1	सिरकम्बा म. नं. 1 म. नं. 22 तक	अ. जा.	2
			पारवती/देवलाल से सपना/भगवानदास के मकान तक	अ. ज. जा.	2
		2	म. नं. 23 से म. नं. 47 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
			लीला/कोमलराम से रंजीत/हरीराम के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3	म. नं. 48 से म. नं. 69 तक	महिला अ. ज. जा.	1
			राधा/छीतर से प्रतिभा/सत्यनारायण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 70 से म. नं. 84 तक	महिला अन्य	3
	बद्रीप्रसाद/शिवराम से कीर्ति/संतोष के मकान तक				
5	म. नं. 85 से म. नं. 95 तक				
	श्री किशन/गुलाब से दीक्षा/गंगाराम के मकान तक				
6	म. नं. 97 से म. नं. 112 तक				
	मनमोहन/प्रहलाद से शुभान/हरगोविन्द के मकान तक				
7	म. नं. 113 से म. नं. 128 तक				
	कमला बाई/शिवलाल से सोनाली/दुर्गाप्रसाद के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8	म. नं. 129 से म. नं. 142 तक शांतिलाल/रामरतन से सुगंध/रामदयाल के मकान तक			
	9	म. नं. 143 से म. नं. 154 तक रामदास/सुकु से मुरलीधर/भगवान के मकान तक			
	10	म. नं. 154 क से म. नं. 170 घ तक हरकिशन/रामप्रसाद से विश/प्रेमशंकर के मकान तक			
	11	म. नं. 171 से म. नं. 177 तक नर्बदी बाई/मांगीलाल से गुड्डो/नंदराम के मकान तक			
	12	म. नं. 178 से म. नं. 217 क तक रामभरोस/रामकरण से प्रियंका/शंकर के मकान तक			
	13	म. नं. 218 से अन्त तक शांतिलाल/मोती से दिनेश/रामाधार के मकान तक			
21	मोहनपुर	1 मोहनपुर	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक सरदार/रामप्रसाद से सुशीला/रेवाशंकर के मकान तक	अ. जा.	7
		2	म. नं. 17 से म. नं. 28 तक जगदीश/नर्मदाप्रसाद के मकान से सत्यनारायण/प्रहलाद के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	1 5 4
		3	म. नं. 29 से म. नं. 41 तक कृष्णा/रामप्रसाद से चैतराम/ताराचंद के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 3
		4	म. नं. 42 से म. नं. 54 तक शिवराम/नाथूराम से कल्लू/मगल्या के मकान तक	महिला अन्य	1
		5	म. नं. 54क से म. नं. 69 तक आजाद खां/गुलशेर खां से रामभरोस/सुखदेव के मकान तक		
		6	म. नं. 70 से म. नं. 84 ख तक रामाधार/देवकरण से नर्मदा प्रसाद/कल्लू के मकान तक		
		7	म. नं. 85 से म. नं. 99 तक गौरीशंकर/रामदेव से रामकिशन/हीराचंद के मकान तक		
		8	म. नं. 100 से म. नं. 120 तक किशोरी/बिहारी से नर्मदाप्रसाद/गोरधन के मकान तक		
		9	म. नं. 121 से म. नं. अन्त तक रेवाराम/नर्मदाप्रसाद से अन्त तक के मकान तक		
		10	दुलिया म. नं. 1 से म. नं. 20 तक नंदकिशोर/रामरतन से शिवनारायण/हिरालाल के मकान तक		
		11	म. नं. 22 से म. नं. 42 तक हरीप्रसाद/मांगीलाल से रामगोपाल/मूलचंद के मकान तक		
		12	म. नं. 42 से म. नं. 61 तक गंगाराम/रामकरण से बिरजी/रणछोड के मकान तक		
		13	म. नं. 62 से म. नं. 83 तक जगदीश/रणछोड से भल्लू/चैतराम के मकान तक		
		14	म. नं. 84 से म. नं. 98 तक चैती/लखनलाल से मुकेश/रामप्रसाद के मकान तक		
		15	म. नं. 99 से म. नं. 122 तक सुरेश/रामप्रसाद से हेमंत/जयनारायण के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		16	म. नं. 123 से म. नं. 138 तक 8 सुलोचना/जयनारायण से यहयसिंह/अभयसिंह के मकान तक			
		17	म. नं. 139 से म. नं. 157 तक सुभाषचंद/बुखारया से केलाश/नन्दराम के मकान तक			
		18	म. नं. 158 से अन्त निर्भयदास/बुखरया से अन्त तक के मकान तक जामुनिया विरान बाघड़िया विरान खेड़ी विनायक विरान			
22	झाडपा	1	झाडपा	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक श्रीराम/पन्नालाल से ममता/राजकुमार के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	3 4
		2	म. नं. 12 से म. नं. 23 तक क्षिपरा/रामदास से सुनीता/सुरेश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	5 2	
		3	म. नं. 24 से म. नं. 42 तक लीला/मांगीलाल से कोकिला/राजेश के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 3	
		4	म. नं. 44 से म. नं. 62 तक इंदर/भारत से रहीशा/मजाद खां	महिला अन्य	3	
		5	म. नं. 63 से म. नं. 85 तक फुलबी/कालेखां से अर्चना/सतीश के मकान तक			
		6	म. नं. 86 से म. नं. 103 तक जुगल/गेंदालाल से संध्या/अर्जुन के मकान तक			
		7	म. नं. 103 से म. नं. 118 तक मंजू/कैलाश से मधु/बालकृष्ण के मकान तक			
		8	म. नं. 118 से म. नं. 130 तक मांगीलाल/मननू से रमजान/नवाब के मकान तक			
		9	म. नं. 132 से म. नं. 149 तक राधेश्याम/आत्माराम से संनंदा/अखिलेश के मकान तक			
		10	म. नं. 150/1 से म. नं. 162 तक नंदकिशोर/हीरालाल से दुर्गा/हरगोविन्द के मकान तक			
		11	म. नं. 163 से म. नं. 176 तक रामाधार/सीताराम से नीरज/कमल के मकान तक			
		12	म. नं. 177 से म. नं. 187 तक उमाशंकर/रामचरण से सलमान/सुभान के मकान तक			
		13	म. नं. 188/1 से म. नं. 202 तक शिवराम/मातीराम से गुरुरजन/किशोर के मकान तक			
		14	म. नं. 203 से म. नं. 210 तक रामरूप/रामरतन से मंजू/मुकेश के मकान तक			
		15	म. नं. 210 से म. नं. 228 तक भारत/भावसिंग से जाबिद/शहीद के मकान तक			
		16	म. नं. 229 से म. नं. 244 तक अल्लूखां/हीरेखा से रोहित/अनूप के मकान तक			
		17	म. नं. 245 से म. नं. 263 तक घनश्याम/पूनमचंद से श्रद्धा/बंशीलाल के मकान तक			
		18	झुण्डगांव म. नं. 1 से म. नं. 16/4 तक जयेगोपाल/कुंजीलाल से रानू/चंद्रप्रकाश के मकान तक			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	19		म. नं. 16/3 से म. नं. 33 तक कन्हैया/रामप्रसाद से अनुसुईया/पुरनलाल के मकान तक		
	20		म. नं. 34/1 से म. नं. 49/2 तक देवराम/गरीबा से विमला/दिनेश के मकान तक		
23	रैसलपुर	1	रैसलपुर	म. नं. 1 से म. नं. 16 ख तक प्यारीबाई/किशोरी से बसकरबाई/संजय के मकान तक	अ. जा. 0 अ. ज. जा. 16
		2	म. नं. 17 से म. नं. 42 तक रमेशचंद्र/रतनलाल से मानसिंग/कन्नी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग 0 महिला अ. जा. 0	
		3	म. नं. 42क से म. नं. 67 तक राधेलाल/मोतीराम से गुड्डू/चैतू	महिला अ. ज. जा. 8 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 0	
		4	म. नं. 68 से 7 म. नं. 8 तक मानसिंग/शिवराम से भागवतीबाई/बृजलाल	महिला अन्य 2	
		5	म. नं. 79 से म. नं. 100 तक जंगली/नन्दराम से गजरीबाई/मिश्राजी		
		6	म. नं. 101 से म. नं. अन्त तक सोमलाल/बट्टू से संजय/राधेश्याम		
		7	गुठानिया म. नं. 1 से म. नं. 1 तक 6बलमंत/सतू से मुन्नीबाई/जागेश्वर		
		8	म. नं. 16/1 से म. नं. 36 तक रामगोपाल/छननूलाल से रामकली/राधे		
		9	म. नं. 37 से 55 ख तक जिराती/दौलत से रामवती/रावजी		
		10	म. नं. 56 से म. नं. अन्त तक मदनकुमार/मुन्ने सिंह से राजन्ती/पीतिराज		
		11	झिरी म. नं. 1 से म. नं. 18 तक बलीराम/सीगदार से कलाबाई/गयाराम		
		12	म. नं. 19 से म. नं. 37 तक देवकरण/छननू से राजेश/सुखलाल		
		13	म. नं. 38 से म. नं. 54घ तक केशरबाई/मांगीलाल से कान्तीबाई/बलीराम		
		14	म. नं. 55 से म. नं. अन्त तक सुमन बाई/मोजीलाल से सहजादबी/शादिक		
		15	झल्लार म. नं. 1 से म. नं. 15 तक मगनलाल/रतन से हरमोन सिंग/दिलीप सिंग		
		16	म. नं. 16 से म. नं. 29क तक मुनीयाबाई/दुकल से सावित्री बाई/रामकृष्णा के मकान तक		
		17	म. नं. 30 से 41 तक अनोखीलाल/मदन से दीपालाल/राधेश्याम के मकान तक		
		18	म. नं. 42 से म. नं. अन्त तक भूतू/बादल से सुनील/अनोखीलाल के मकान तक		
		19	मालौर म. नं. 1 से म. नं. 19क तक बाबूलाल/नानू से ममता बाई/सुन्दरलाल के मकान तक		
		20	म. नं. 20 से म. नं. अन्त तक जंगली/छौटू से सुमनबाई/प्यारेलाल के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	मगरधा	1 मगरधा	म. नं. 1 से म. नं. 19 तक	अ. जा.	2
			हरिशंकर/भैयालाल से जयकिशन/रामरतन के मकान तक	अ. ज. जा.	7
		2	म. नं. 22 से म. नं. 51 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
			गायत्री/सुरेश से मदन/बाबूलाल के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3	म. नं. 53 से म. नं. 78 तक	महिला अ. ज. जा.	4
			कमला/छननूलाल से मकरम सिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	म. नं. 79 से म. नं. 100/1 तक	महिला अन्य	2
			अमित/विष्णुप्रसाद से केवलराम/रामभउ के मकान तक		
		5	म. नं. 101 से म. नं. 119 तक		
			कैलाशचंद/जागेश्वर से रामेशचंद/शोभाराम के मकान तक		
		6	म. नं. 120 से म. नं. 152 तक		
			भैयालाल/रामलाल से बसीरबी/अजगरअली के मकान तक		
		7	म. नं. 153 से म. नं. 178 तक		
			कुर्बान/गुल्लुखां से रजा/आजाद खां के मकान तक		
		8	म. नं. 179 से म. नं. 195/1 तक		
			हीरेखां/बाबूखां से जगदीश/उमराव के मकान तक		
		9	म. नं. 31क से म. नं. 230 तक		
			श्यामबाई/किशोरी से हरिराम/मांगीलाल के मकान तक		
		10	म. नं. 231 से म. नं. 249 तक		
			रामभरोस/बाबूलाल से बफीराम/सुखराम के मकान तक		
		11	म. नं. 250 से म. नं. 266 तक		
			भागीरथ/हीला से प्रहलाद/रामेश्वर के मकान तक		
		12	म. नं. 268 से म. नं. 286 तक		
			हरिराम/सुखराम से पुनई/बाबूलाल के मकान तक		
		13	म. नं. 287 से म. नं. 309 क तक		
			बृजलाल/बाबूलाल से चिरोंजी/बिहारी के मकान तक		
		14	म. नं. 310 से म. नं. 330 तक		
			मिठीया/बिलु से भाउ/भाकला के मकान तक		
		15	म. नं. 331 से 345		
			विश्राम/कालू से दादू/बाबूलाल के मकान तक		
		16	म. नं. 346 से म. नं. अन्त तक		
			शहीदा/मजीत से दिनेश/कमल के मकान तक		
		17 बरखेड़ी	म. नं. 1 से म. नं. 18 तक		
			बीनाप्रसाद/मोहनलाल से सुशील/रामस्वरूप के मकान तक		
		18	म. नं. 19 से म. नं. 35 तक		
			काली/हरलाल से काशी/नंदू के मकान तक		
		19	म. नं. 36 से म. नं. 62 तक		
			नर्मदा/नन्दू से गुलाब/जगदीश के मकान तक		
		20	म. नं. 62/1 से म. नं. अन्त तक		
			राजेन्द्र/गणेश से गोरेलाल/गेंदा के मकान तक		

कजरपुरा वीरान

कोसा घाटी विरान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	गहाल	1 गहाल	म. नं. 1 से म. नं. 19 तक	अ. जा.	5
			भगवानदास/रामनाथ से विजय/मोतीसिंग के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2	म. नं. 22 से म. नं. 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
			हरगोविंद/बुजलाल से सालकराम/रामेश्वर के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		3	म. नं. 39क से म. नं. 59 तक	महिला अ. ज. जा.	2
			रामबिलास/श्रीराम से नानकराम/श्रीराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	म. नं. 60 से म. नं. 81 तक	महिला अन्य	2
			बालकदास/श्रीराम से द्वारकाबाई/जागेश्वर के मकान तक		
		5	म. नं. 82 से म. नं. 120 तक		
			अनोखी/मंगल्या से साहू/राधेश्याम के मकान तक		
		6	म. नं. 121 से म. नं. 151 तक		
			बसकर/भागीरथ से कमल/नत्थू के मकान तक		
		7	म. नं. 152 से म. नं. 177 तक		
			रामोतार/नत्थू से उमा/जगदीश के मकान तक		
		8	म. नं. 177क से म. नं. 204 तक		
			बृजमोहन/जगदीश से कैलाश/रामाधार के मकान तक		
		9	म. नं. 205 से म. नं. 221 तक		
			रामभरोस/रामेश्वर से दिनेश/शंकर के मकान तक		
		10	म. नं. 221क से म. नं. 238 तक		
			रामबिलास/बिहारी से रामदास/दमाजी के मकान तक		
		11	म. नं. 238क से म. नं. 260 तक		
			प्रह्लाद/दामाजी से उदयसिंग/मोधोसिंग के मकान तक		
		12	म. नं. 261 से म. नं. 277 क तक		
			छोटीबाई/रामचन्द्र से गजानेद/हरीराम के मकान तक		
		13	म. नं. 278 से म. नं. 285 तक		
			आशाराम/शिवप्रसाद से गुलाब/चंदर के मकान तक		
		14	म. नं. 286 से म. नं. 311 तक		
			रामपुरी/शिवपुरी से राधेश्याम/शिवराम के मकान तक		
		15	म. नं. 311क से म. नं. 341ग तक		
			चम्पालाल/मंगल से सचिव/सुरेश के मकान तक		
		16	म. नं. 342 से म. नं. 367 तक		
			मांगीलाल/रामकरण से उर्मिला/राधेश्याम के मकान तक		
		17	म. नं. 368 से म. नं. 387 तक		
			श्रीराम/धनसिंग से मांगीलाल/आत्माराम के मकान तक		
		18	म. नं. 388 से म. नं. 407 तक		
			गेंदालाल/अत्माराम से रामचंद्र/शिवप्रसाद के मकान तक		
		19	म. नं. 408 से म. नं. 428क तक		
			हरीप्रसाद/बोंदर से शिवलाल/झोलू के मकान तक		
		20	म. नं. 430 से म. नं. अन्त तक		
			रामस्वरूप/रामकिशन से अन्त के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	डगावांशंकर	1 डगावांशंकर	म. नं. 1 से 15 तक	अ. जा.	5
			केवलराम/रणछोड़ से राधेश्याम/कालू के मकान तक	अ. ज. जा.	1
		2	म. नं. 16 से म. नं. 37 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
			प्रहलाद/किशन से सोना/रामेश्वर के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		3	म. नं. 38 से म. नं. 51 तक	महिला अ. ज. जा.	1
			रामनाथ/रामेश्वर से शंकर/रामप्रसाद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 52 से म. नं. 68 तक	महिला अन्य	3
			रमेश/रामप्रसाद से भागीरथ/रामकरण के मकान तक		
		5	म. नं. 69 से म. नं. 87 तक		
			शहीद खां. अमीरखां से दयाराम/किशन के मकान तक		
		6	म. नं. 88 से म. नं. 109 तक		
			रामेश्वर/किशन से रामनाथ/शेदू के मकान तक		
		7	म. नं. 110 से म. नं. 126 तक		
			रेवाराम/शेखलाल से जितेन्द्र/शांतिलाल के मकान तक		
		8	म. नं. 128 से म. नं. 143 तक		
			जमनाप्रसाद/कचरीया से चैतराम/शिवलाल के मकान तक		
		9	म. नं. 144 से म. नं. 161 तक		
			अनोखी/कन्नू से रामनारायण/घासीराम के मकान तक		
		10	म. नं. 163 से म. नं. 176 तक		
			रामचंद्र/गेंदालाल से नारायण/जागेश्वर के मकान तक		
		11	म. नं. 177 से म. नं. 190 तक		
			गीता/जागेश्वर से ललीता/रामेश्वर के मकान तक		
		12	म. नं. 191 से म. नं. 207/2 तक		
			कैलाश/गयाप्रसाद से पंडरी/अर्जुन के मकान तक		
		13	म. नं. 210 से म. नं. 229 तक		
			गीता/रामाधार से मेहताप/सुखराम के मकान तक		
		14	म. नं. 230 से म. नं. 347 तक		
			भीमसिंग/फगनू से दुर्गाप्रसाद के मकान तक		
		15	म. नं. 248 से म. नं. अन्त तक		
			कन्हैया/श्रीकिशन से दयाराम/रामसिंह		
		16	म. नं. 1 से म. नं. 11/1 तक		
			बगदी/बिहारी से रमेश/रामरतन के मकान तक		
		17	म. नं. 11/2 से म. नं. अन्त तक		
			गजराज/रामरथन से बुद्धू/मानू के मकान तक		
			लालपुरा वीरान		
			छुरीखाल वीरान		
			पीपल्यामाफी वीरान		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	धुरगाडा	1 धुरगाडा	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक पीति/बैनीसिंग से अर्चना/शेरसिंग के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	1 2
		2	म. नं. 15 से म. नं. 32 तक घासीराम/जयराम से विनीता/देवीसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	3 1
		3	म. नं. 33 से म. नं. 47/3 तक रघुनाथ/कुजीलाल से गिरजा/भगवान के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 2
		4	म. नं. 47/2क से म. नं. 67 तक रूपसिंग/छतरसिंग से विवेक/देवीसिंग के मकान तक	महिला अन्य	1
		5	म. नं. 68 से म. नं. 71/5 तक बृजलाल/रामदयाल से संतोष/रामनाथ के मकान तक		
		6	म. नं. 71ढ से म. नं. 74 तक किरण/सुनील से रमा/महरसिंग के मकान तक		
		7	म. नं. 74क से म. नं. 90 तक त्रिवेणी/नर्मदाप्रसाद से गिरजा/पूनम के मकान तक		
		8	म. नं. 91 से म. नं. 104 तक भागीरथ/चंदर सिंग से प्रियंका/मुकेश के मकान तक		
		9	म. नं. 105 से म. नं. 118 तक नारायण/भूरा से क्षमा/अमरदास के मकान तक		
		10	म. नं. 119 से म. नं. अन्त तक राजकुवर/श्रीकिशन से रोहित/बालकृष्ण के मकान तक		
28	सुखरास	1 सुखरास	म. नं. 2 से म. नं. 15 तक विमला/गोविंदप्रसाद के धीरज/रामचंद के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	3 3
		2	म. नं. 16 से म. नं. 31/1 तक चम्पालाल/रामनारायण से जितेन्द्र/अशोक के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	5 2
		3	म. नं. 31/2 से म. नं. 44 तक राधेश्याम/मेहताप से विवेक/गोविंद के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 3
		4	म. नं. 45/1 क से म. नं. 62 तक राधेश्याम गुलाब से बसु/सुरेश के मकान तक	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 63/1 से म. नं. 81 तक उमराव/चुन्नालाल से मालती/उमाकांत के मकान तक		
		6	म. नं. 82 से म. नं. 92 तक कैलाश/गंगाराम से आंकाक्षा चौरे/संतोष के मकान तक		
		7	म. नं. 93 से म. नं. 112 तक रामभरोस/रामदास से सुनीता/रामप्रसाद के मकान तक		
		8	म. नं. 113 से म. नं. 125/1 तक रमाबाई/लखनलाल से संजय/गरीबदास के मकान तक		
		9	म. नं. 127 से म. नं. 216 तक रामनारायण/श्रीमरा से मीना/मंगलसिंह के मकान तक		
		10	म. नं. 145 से म. नं. 155ख तक रमेशचंद/चम्पालाल से राकेश/दिनेशचंद्र के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	सुखरास	म. नं. 155 से म. नं. 174 तक मनोहर/जगन्नाथ से अनिता/दिनेश के मकान तक			
12		म. नं. 175 से म. नं. 197 तक कालूराम/बृजलाल से फूलवती/मूलचंद के मकान तक			
13		म. नं. 198 से म. नं. 213 ड तक लक्ष्मीनारायण/गेंदालाल से किशनराव/सदाशिव के मकान तक			
14		म. नं. 213 च से म. नं. 223 तक ओमप्रकाश/झब्बल से राहुल/निर्मल के मकान तक			
15		म. नं. 224 से म. नं. 239 तक बैजनाथ/रामाधार से पिकी/चुद्रभूषण के मकान तक			
16		म. नं. 240 से म. नं. 264 तक मांगीलाल/धनश्याम से संगीता/विकाससिंह के मकान तक			
17		म. नं. 265/2 से म. नं. 279 तक पार्वती/राधेलाल से सरोज/हरिओम के मकान तक			
18		म. नं. 279क से म. नं. 294 तक ठाकुरलाल/शिवप्रसाद से कपलेश/सुखदेव के मकान तक			
29	पलासनेर	1 पलासनेर	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक रामचरण/मयाराम से सुभान/सिंगदार के मकान तक	अ. जा.	5
		2	म. नं. 12 से म. नं. 27/1 तक हसन/मुशी से रमेश/शोभाराम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	1 4
		3	म. नं. 28 से म. नं. 42 तक सुरेश/गोरखनाथ से गंदालाल/शिवकरण के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	3 1
		4	म. नं. 45 से म. नं. 69/1 तक रामदीन/नाथूराम से परसराम/रामोतार के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	2 3
		5	म. नं. 70 से म. नं. 87 तक गोरिलाल/नाथू से कृष्णा/जगदीश के मकान तक		
		6	म. नं. 88 से म. नं. 99 तक चंद्रीबाई/रामबली से जमनाबाई/लक्ष्मीनारायण के मकान तक		
		7	म. नं. 100 से म. नं. 110/2 तक जगदीश/बाबूलाल से हरसिंग/मोहनलाल के मकान तक		
		8	म. नं. 111/1 से म. नं. 123 तक अत्माराम/बिहारी से श्यामलाल/ओंकार के मकान तक		
		9	म. नं. 123 क से म. नं. 132 तक शांताबाई/हरीप्रसाद से महेश/चम्पालाल के मकान तक		
		10	म. नं. 133 से म. नं. 149 तक रामनारायण/हरजी से धन्नालाल/बद्रीप्रसाद के मकान तक		
		11	म. नं. 150 से म. नं. 163/2 तक भागवत/माधव से संजीव कुमार/शांताप्रसाद के मकान तक		
		12	म. नं. 163/3 से म. नं. 176क तक पुरुषोत्तम/शांताप्रसाद से रामदीन/भागीराम के मकान तक		
		13	म. नं. 178 से म. नं. 190क तक केवलराम/घूडया से पन्नालाल/घासीराम के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	14	पलासनेर	म. नं. 171 च से म. नं. 199 ख तक विपदाबाई/शारदा प्रसाद से जगदीश/तेजराम के मकान तक		
	15		म. नं. 200 से म. नं. 207क तक मोहन/नाथूराम से लखन/जागेश्वर के मकान तक		
	16		म. नं. 207 ख से म. नं. 214क तक कैलाश/लाखन से शिवनारायण/मांगीलाल के मकान तक		
	17		म. नं. 215/2 से म. नं. 233घ तक रामकृष्णा/चम्पालाल से सुप्रीया/विनोद के मकान तक		
30	पड़वा	1 पड़वा	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक रामकिशन/मातीराम से क्षमा/लक्ष्मीनारायण के मकान तक	अ. जा.	5
		2	म. नं. 13 से म. नं. 27घ तक ललता/रामचरण से वर्षा/गोविंद प्रसाद के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	2 4
		3	म. नं. 29 से म. नं. 43क तक सुरपाल/राधेलाल से हरिशंकर/शिवराम के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		4	म. नं. 44 से म. नं. 59 तक कली/भागीरथ से सरस्वती/मुरलीधर के मकान तक	महिला अ. ज. जा.	1
		5	म. नं. 59 से म. नं. 69/1 तक ईश्वर/मुरलीधर से सूरत सिंह/उपराव सिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		6	म. नं. 71 से म. नं. 86 तक भागवती/बाबूलाल से उमराव/घूडया के मकान तक	महिला अन्य	3
		7	म. नं. 87 से म. नं. 109 तक विनोद/धन्या से कैलाश/चम्पालाल के मकान तक		
		8	म. नं. 110 से म. नं. 128 तक प्रेम/कचरया से कालूराम/दल्लू के मकान तक		
		9	म. नं. 130/1क से म. नं. अंत तक जमनाप्रसाद/शिवप्रसाद से मांगीलाल/सीताराम के मकान तक		
	10	बम्हनगांव	म. नं. 1/1 से म. नं. 20 तक देवीसिंह/मांगीलाल से दलसिंह/भूरिया के मकान तक		
	11		म. नं. 21 से म. नं. 35 तक अशोक/चम्पालाल से लखन/सीताराम के मकान तक		
	12		म. नं. 36 से म. नं. 51 क तक गोपाल/जगराम से चम्पालाल/मोहन के मकान तक		
	13		म. नं. 52 से म. नं. 66 तक रामदास/कुजीलाल से फून्दा/हीरालाल के मकान तक		
	14		म. नं. 67 से म. नं. 86 व तक रामप्यारी/मांगीलाल से रूकमणी/मांगीलाल के मकान तक		
	15		म. नं. 86 झ से म. नं. 89 तक जगन्नाथ/बुद्धलाल से कमलसिंह/उमरावसिंह के मकान तक		
	16		म. नं. 90/1 से म. नं. 107 तक शिवप्रसाद/हरीकिशन से रामाधार/कुन्जीलाल के मकान तक		
	17		म. नं. 108 से म. नं. अन्त तक चम्पालाल/जगन्नाथ से बद्रीप्रसाद/शिवप्रसाद के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
31	रोल्गांव	1	रोल्गांव	म. नं. 1 से म. नं. 18 तक	अ. जा.	4
				गणपती/रामचरण से रामनाथ/पून्या के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2		म. नं. 20/1 से म. नं. 42 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
				पुतल/नथू से रामचरण/कुजी के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3		म. नं. 43 से म. नं. 67 तक	महिला अ. ज. जा.	2
				दौलत/कुन्जी से संपन्न/बुखारया के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4		म. नं. 67 से म. नं. 86/3 तक	महिला अन्य	3
				कमला/कन्हैया से कैलाश/शिवप्रसाद के मकान तक		
		5		म. नं. 87 से म. नं. 108 तक		
				मोहन/कुजीलाल से दीनदास/माथुराम के मकान तक		
		6		म. नं. 108क से म. नं. 123 तक		
				जगदीश/रघुनाथ से द्वारकाप्रसाद/रामप्रसाद के मकान तक		
		7		म. नं. 124 से म. नं. 148 तक		
				रामनारायण/शिवप्रसाद से नर्मदा/मांगीलाल के मकान तक		
		8		म. नं. 149 से म. नं. 165/2 तक		
				पुन्ना/राधेलाल से धीरालाल/मोती के मकान तक		
		9		म. नं. 166/1 से म. नं. 186 तक		
				जगदीश/कुंजी से कुसुम/चुन्नीलाल के मकान तक		
		10		म. नं. 187 से म. नं. 200 तक		
				राधेनारायण/रामचरण से शांती/नंदलाल के मकान तक		
11		म. नं. 256घ/1 से म. नं. 222 तक				
		हरिराम/गोपाल से गजानंद/रामकरण के मकान तक				
12		म. नं. 223/1 से म. नं. 234 तक				
		जगदीश/शिवकरण से सुदरलाल/मोती के मकान तक				
13		म. नं. 235/1 से म. नं. 243 तक				
		राजकुवर बाई/मेघराज से शिवकरण के मकान तक				
14		म. नं. 244 से म. नं. 256 घ/1 तक				
		सुशील/शालकराम से मंगल/ओंकार के मकान तक				
15		म. नं. 256च से म. नं. 269 ब तक				
		दौपती/राजाराम से कुसुम/पुनम के मकान तक				
16		म. नं. 271 से म. नं. अन्त तक				
		सावित्री/प्रहलाद से जगदीश/रघुनाथ के मकान तक				
17	सुल्तानपुर एवं अमरापुर	म. नं. 1 से म. नं. अन्त एवं म. नं. 2 से 6 एवं म. नं. 105				
		कला बाई/गुलाब से सुनील के मकान तक के मकान तक				
18	लालमाटी	म. नं. 1 से म. नं. 10 तक				
		बृजलाल/रामकरण से रामदयाल/रामकरण के मकान तक				
19		म. नं. 10क से म. नं. 30 तक				
		बाबुलाल/बलदेव से कैलाश रामबकश के मकान तक				
20		म. नं. 31 से म. नं. अन्त तक				
		सुमित्रा/सुदरलाल से कमला/शिवराम के मकान तक				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	मसनगांव	1 मसनगांव	म. नं. 1 से म. नं. 30 तक बालाराम/बाबूलाल से रेखा/मुकेश के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	2 3
		2	म. नं. 31 से म. नं. 56 तक मनोहरी/गंगाविशन से सुशीला/राधेश्याम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	5 1
		3	म. नं. 57 से म. नं. 88/2 तक ललीत/बक्कू से इस्लाम/हबीब खां के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 3
		4	म. नं. 89 से म. नं. 113 तक मेहबूबखां/हीरेखां से दीपेश/राधेश्याम के मकान तक	महिला अन्य	4
		5	म. नं. 114 से म. नं. 136/2 तक गोपाल/नैनितराम से हीरेलाल/मंगूलाल के मकान तक		
		6	म. नं. 137 से म. नं. 153 तक जीनतबी/सलामत से बसकर बी/निजाम के मकान तक		
		7	म. नं. 154 से म. नं. 164च तक मानोबी/हसनखां से अनीता/रामचंद के मकान तक		
		8	म. नं. 164घ से म. नं. 182/2 तक चम्पालाल/बद्रीप्रसाद से हरेराम/अमरदास के मकान तक		
		9	म. नं. 183 से म. नं. 203 तक छननूरंग से माया/बल्लभदास के मकान तक		
		10	म. नं. 204 से म. नं. 229क तक कली/शिवप्रसाद के मकान तक		
		11	म. नं. 230 से म. नं. अन्त तक विजय/रामस्वरूप से के मकान तक		
	गांगला	12	म. नं. 1 से म. नं. 25 तक प्रेम बाई/बाबूलाल से अर्चना/प्रेमनारायण के मकान तक		
		13	म. नं. 26 से म. नं. 46 तक राधेश्याम/रामगोपाल से दिनेश/रविशंकर के मकान तक		
		14	म. नं. 47 से म. नं. अन्त तक अनोखी/चम्पालाल से रीतिका/प्रवीण के मकान तक		
	काकरिया	15	म. नं. 1 से म. नं. 38 तक अशोक/शिवप्रसाद से संजू/दीलिप के मकान तक		
		16	म. नं. 39 से म. नं. 87 तक सुमीत/लक्ष्मीनारायण से कला/राधाकिशन के मकान तक		
		17	म. नं. 88 से म. नं. 118 तक रामनारायण/मांगीलाल से हरेराम/प्रहलाद के मकान तक		
		18	म. नं. 119 से म. नं. 143 तक रामकृष्ण/जंगली से रूकमणी/मुकेश के मकान तक		
		19	म. नं. 143क से म. नं. 179 तक रामअशरे/गोकुलप्रसाद से धर्मेन्द्र/रामदास के मकान तक		
	काकरिया एवं गाडगी	20	म. नं. 180 से म. नं. अन्त तक मांगीलाल/रूपचंद से के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
33	कमताडा	1	कमताडा	म. नं. 1 से म. नं. 17 तक	अ. जा.	5
			काशीराम/भाउ से बाबूलाल/नंदराम के मकान तक	अ. ज. जा.		2
		2	म. नं. 17 क से म. नं. 32/1 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग		5
			सत्यनारायण/चम्पालाल से सीताराम/चैनसिंह के मकान तक.	महिला अ. जा.		3
		3	म. नं.33 से म. नं. 41 तक	महिला अ. ज. जा.		1
			बलीराम/ओंकार से राजाराम/गोकुल प्रसाद के मकान तक	महिला अन्य		3
		4	म. नं. 42 से म. नं. 62 तक			
			रामकिशन/जगन्नाथ से रामदास/रामप्रसाद के मकान तक			
		5	म. नं. 64 से म. नं. 75 तक			
			रेवाराम/भागीरथ से गेंदालला/बाबूलाल के मकान तक			
		6	म. नं. 78 से म. नं. 91 तक			
			जगदीश/रामकिशन से राधेश्याम/रामगोपाल के मकान तक			
		7	म. नं. 92 से म. नं. 112 तक			
			बृजलाल/रामचरण से रामसिंह/रामचरण के मकान तक			
		8	म. नं. 113 से म. नं. 128 तक			
			गंगाकिशन/रामचरण से श्रीराम/प्रहलाद के मकान तक			
		9	म. नं. 129 से म. नं. 148 तक			
			शकुंतला/गोकुल से राजाराम के मकान तक			
		10	म. नं. 149 से म. नं. 162 तक			
			शाता/मांगीलाल से शरद/दुर्गाप्रसाद के मकान तक			
		11	म. नं. 165 से म. नं. 171/2 तक			
			रामप्रसाद/हीरालाल से मेहताप/घासीराम के मकान तक			
		12	म. नं. 172 से म. नं. 198 तक			
			जगदीश/अमर सिंह से विमला/जागेश्वर के मकान तक			
		13	म. नं. 199 से म. नं. अन्त तक			
			बालाराम/कडवा से मोनीका/विनोद			
		14	म. नं. 206 से म. नं. 233 तक			
			बीना/प्रेमलाल से भागल/टीका के मकान तक			
		15	म. नं. 236 से म. नं. 258 तक			
			नर्मदी/कोमलराम से तुलसी/रामनारायण के मकान तक			
		16	म. नं. 258 क से म. नं. 278 तक			
			अनिता/गौरी से रामाधार/दरियाब के मकान तक			
		17	म. नं. 278/1 से म. नं. 301 तक			
			नर्मदा/सोन्या से भगत/हरिप्रसाद के मकान तक			
		18	म. नं. 303 से म. नं. 325 तक			
			फूलवती/चंदा से गंगाविसन/बन्दु के मकान तक			
		19	म. नं. 325 से म. नं. 351क तक			
			नजरी/मांगी से प्रहलाद/रामाधार के मकान तक			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
34	नयापुरा	1	नयापुरा	म. नं. 1 क से म. नं. 13 तक	अ. जा.	2
				जगदीश/गप्पू से मिश्रीलाल/रामाधार के मकान तक	अ. ज. जा.	4
		2		म. नं. 14 से म. नं. 32 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				बाटूलाल/श्रीराम से सुंदर/लक्ष्मीनारायण के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3		म. नं. 33 से म. नं. 47 तक	महिला अ. ज. जा.	2
				गेंदलाल/लक्ष्मीनारायण से संजय/कैलाश के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4		म. नं. 48 से म. नं. 65 तक	महिला अन्य	3
				रमेशचंद्र/अमरचंद्र से मांगीलाल/पन्नालाल के मकान तक		
		5		म. नं. 66 से म. नं. 80 तक		
				राजमल/पूरनसिंह से रामगोपाल/मोजीराम के मकान तक		
		6		म. नं. 81 से म. नं. 98 क तक		
				आशाराम/मोहन से सीताराम/गुला के मकान तक		
7		म. नं. 99 से म. नं. 111 तक				
		आधार/बट्टू से देवेन्द्र/अनोखीलाल के मकान तक				
8		म. नं. 112 से म. नं. 127 तक				
		गेंदलाल/नर्मदाप्रसाद से बोदरसिंह/नर्मदा के मकान तक				
9		म. नं. 128 से म. नं. अन्त तक				
		दादू/चंदर से अंत तक के मकान तक				
10	उचान	म. नं. 1 से म. नं. 18 तक				
		विजयशंकर/यशवत से देवका/राधेलाल के मकान तक				
11		म. नं. 19 से म. नं. अंत तक				
		गंभीर/भाउ से अंत तक के मकान तक				
12	भीमपुरा	म. नं. 1 से म. नं. अंत तक				
		नवलसिंह/हरचंद्र से अंत के मकान तक				
35	बिछौलामाल	1	बिछौलामाल	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक	अ. जा.	3
				बलराम से मोहन के मकान तक	अ. ज. जा.	7
		2		म. नं. 14 से म. नं. 24 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				हावला से चैनसिंग के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3		म. नं. 25 से म. नं. 39 तक	महिला अ. ज. जा.	4
				हरि से रामसिंग तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4		म. नं. 39 क से 54 तक	महिला अन्य	3
				मानसिंग से सुखलाल के मकान तक		
5		म. नं. 55 से म. नं. 72 क तक				
		कमला से रामसिंग तक				
6		म. नं. 73 से म. नं. 89 तक				
		मिश्रीलाल से रामबिलास के मकान तक				
7		म. नं. 90 से म. नं. 108 तक				
		रामेश्वर से भुजराम तक				
8		म. नं. 109 से म. नं. 122 तक				
		रेवाराम से धापू बाई के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	बिछौलामाल	9	बिछौलामाल	म. नं. 123 से म. नं. 137 तक श्रीराम से भीका के मकान तक		
		10		म. नं. 138 से म. नं. अन्त तक चदर से अन्त के मकान तक		
	बिछौलारैयत	11	बिछौलारैयत	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक सेवाराम से रमेश के मकान तक		
		12		म. नं. 13 से म. नं. 23 तक चैनसिंग से चिराग शाह के मकान तक		
		13		म. नं. 24 से म. नं. 29 तक हैदरशाह से कौशल्या के मकान तक		
		14		म. नं. 30 से म. नं. 40 तक रुकमणी से गेंदालाल के मकान तक		
		15		म. नं. 41 से म. नं. 52 तक बुदिया बाइ से प्रेम बाई के मकान तक		
		16		म. नं. 53 से म. नं. 58 तक शिवराम से भिका के मकान तक		
		17		म. नं. 113 से म. नं. अन्त तक तकत सिंग से अन्त के मकान तक		
	बिछोला टीकू	18	बिछोला टीकू	म. नं. 1 से म. नं. अन्त तक शारदा से अन्त के मकान तक		
			बिछौलाशुक्ल वीरान-			
36	हनीफाबाद	1	हनीफाबाद	म. नं. 1 से म. नं. 10 तक कन्हैया से रमा के मकान तक	अ. जा.	1
		2		म. नं. 12 से म. नं. 21 तक भवनलाल से शकुन के मकान तक	अ. ज. जा.	16
		3		म. नं. 22 से म. नं. 39 तक हरि से बसु के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4		म. नं. 40 से 73 तक दगडई से मथुरा के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		5		म. नं. 74 से म. नं. 172 तक कैलाश से क्षमा बाई के मकान तक	महिला अ. ज. जा.	8
		6		म. नं. 173 से म. नं. अन्त तक शोभाराम से अन्त के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	कालीसराय	म. नं. 1 से म. नं. 7 ख तक शैतान से सुखीया के मकान तक	महिला अन्य	0
		8		म. नं. 9 से म. नं. अन्त तक मंगल से अन्त तक		
	सिरालिया	9	सिरालिया	म. नं. 6 से म. नं. 18 घ तक पूनम से सीता के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हनीफाबाद	10 सिरालिया	म. नं. 19 से म. नं. 29 क तक झगडू से जंगली के मकान तक		
		11	म. नं. 38 से म. नं. 179 तक नर्मदा से मनोहर के मकान तक		
		12	म. नं. 180 से म. नं. अन्त तक कालू से अन्त के मकान तक		
		13 लोटिया	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक रेवाराम से ममराज के मकान तक		
		14	म. नं. 17 से म. नं. 30 क तक शिवलाल से जमना के मकान तक		
		15	म. नं. 31 से म. नं. 44 तक राजकुवर से कामेश के मकान तक		
		16	म. नं. 45 से म. नं. 59 तक लक्ष्मी बाई से ममता के मकान तक		
		17	म. नं. 60 से म. नं. 75 तक तेजूबाई से हीरामणी बाई		
		18	म. नं. 78 से म. नं. अन्त तक शान्ता बाई से अन्त के मकान तक		
37	सोनतलाई	1 सोनतलाई	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक पार्वती/रामोतार से सुमन्ना/कान्हा के मकान तक	अ. जा.	2
		2	म. नं. 13 से म. नं. 24 तक लीला/भागीरथ से साउ/शिवराम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	8 0
		3	म. नं. 25 से म. नं. 35 तक विधया/रामाधार से समोती/कुन्जी के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	1 4
		4	म. नं. 36 से 46 म. नं. तक आत्माराम/मोहन से भागवती/राभरोस के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	0 4
		5	म. नं. 47 से म. नं. 60 तक प्रहलाद/बाबू से रामाधार/उगरा के मकान तक		
		6	म. नं. 61 से म. नं. 70 तक शांता/मिश्रीलाल से रामभरोस/मालाजी के मकान तक		
		7	म. नं. 71 से म. नं. 79 भिका/दुर्गा से मदन/हरनाथ के मकान तक		
		8	म. नं. 81 से म. नं. 92 तक पन्नी/रामनारायण से शिवप्रसाद/बद्री के मकान तक		
		9	म. नं. 92 क से म. नं. 102 तक तुला/रामबिलास से बुद्ध/मुकुन्द के मकान तक		
		10	म. नं. 103 से म. नं. 115 तक प्रहलाद/बाबू से पारू/दशरथ के मकान तक		
		11	म. नं. 116 से म. नं. 127 ग तक गज/कल्लू से शानू/ज्ञानसिंग के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	सोनतलाई	12	सोनतलाई	म. नं. 127 घ से म. नं. 138 क तक भागीरथ/दशरथ से भीकू/ननू के मकान तक		
		13		म. नं. 140 से म. नं. 151 ख तक भागल/राधेलाल से नैनसिंग/मधु के मकान तक		
		14		म. नं. 152 से म. नं. 162 तक तुलसा/जगराम से लालसिंग/अमरसिंह के मकान तक		
		15		म. नं. 163 से म. नं. अन्त तक गणेश/लालसिंग से शैलेश कुमार/रमेश कुमार के मकान तक		
		16	नवरंगपुरा	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक शैतान/कन्नू से रमा/कैलाश के मकान तक		
		17		म. नं. 13 से म. नं. अन्त तक रामाधार/पन्नालाल से मुकेश/नारायण के मकान तक.		
38	छिडगांव	1	छिडगांव	म. नं. 1 से म. नं. 27 तक अमृतलाल/बालाराम से गजानंद/चम्पालाल के मकान तक	अ. जा.	0
		2		म. नं. 28 से म. नं. अन्त तक सुरपाल/नहारसिंग से राधेश्याम/भागीरथ के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	7 0
		3	गाडरापुरा दमामी	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक देऊ/मांससिंग से बालाराम/सीताराम के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	0 4
		4		म. नं. 15/1 से म. नं. 37 तक उमेदसिंग/मदनलाल से निर्भयसिंग/भागीरथ के मकान तक	महिला अन्य	0
		5		म. नं. 37 क से म. नं. अन्त तक रामसिंग रामभरोस से भरत/इमरत सिंह के मकान तक		
		6	गाडरापुर सेंट	म. नं. 6 से म. नं. अन्त तक रामेश्वर/गंगाराम से नत्थूलाल/कालूराम के मकान तक		
		7	ऐडावेडा	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक कैलाश/रंगलाल से सावित्रीबाई/गेंदालाल के मकान तक		
		8		म. नं. 14 से म. नं. 23 तक रमाबाई/छोगेलाल से मनोहरी/हजारी के मकान तक		
		9		म. नं. 25 क से म. नं. अन्त तक ललीत/उमेश से दीपक/उमेद के मकान तक		
		10	रेवापुर	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक शिवकरण/बाटू से रूखमा/हीरालाल के मकान तक		
		11		म. नं. 16 से म. नं. अन्त तक बाबूलाल/बलदेव से क्षमा/मदन के मकान तक		
39	रातातलाई	1	रातातलाई	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक कीर्तिबाई/नारायण से मोहनलाल/रेवाराम के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	4 7
		2		म. नं. 12 क से म. नं. 33 तक रामलाल/जयराम से शिवनारायण/हरचन्द्र के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 2
		3		म. नं. 34 से म. नं. 46 तक बाबूलाल/रामलाल से शांताबाई/बाबूलाल के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	4 0
		4		म. नं. 48 से म. नं. 65 तक रामदिन/जागेश्वर से रामेश्वर/शिवराम के मकान तक	महिला अन्य	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रातातलाई	5 रातातलाई	म. नं. 66 से म. नं. 92 क तक सुआ/बाबूलाल से लखन/चम्पालाल के मकान तक		
		6	म. नं. 93 से म. नं. 116 तक कमलसिंह/दिलीप से जागेश्वर/रूपा तक के मकान तक		
		7	म. नं. 116 क से म. नं. 139 तक शैतानसिंह/जागेश्वर हरनारायण/पूसा तक के मकान तक		
		8	म. नं. 140 से म. नं. 156 तक अशोक/नन्नु सिंह से शिवप्रसाद/नन्ना तक के मकान तक		
		9	म. नं. 157 से म. नं. 172 ख तक शिवलाल/नन्ना से मोजीराम/डालू के मकान तक		
		10	म. नं. 172 ग से म. नं. 187 तक गणेश/राजाराम से पूनम/रंगलाल के मकान तक		
		11	म. नं. 188 से म. नं. 210 तक फून्दा/भूरू से अर्जुन/हरचन्द के मकान तक		
		12	म. नं. 210 क से म. नं. 223 तक सावित्री/तुलशीराम से समोता/बाबूलाल के मकान तक		
		13	म. नं. 225 से म. नं. 240 क तक शांता/बाबूलाल से सीताराम/गुलाबसिंह के मकान तक		
		14	म. नं. 242 से म. नं. 256 ख तक सुरसिंह/तेरसिंह से बलराम/बाबूलाल के मकान तक		
		15	म. नं. 256 ग से म. नं. 263 क तक शारदा/सीताराम से देवराज/हजारी के मकान तक		
		16	म. नं. 264 से म. नं. 271 छ तक बददया/किशोर से हरी/शिवलाल के मकान तक		
		17	म. नं. 271 ज से म. नं. म. नं. 276 तक देवलाल/कल्ला से नत्थीबाई गोकूल के मकान तक.		
40	मागरूल	1 मागरूल	म. नं. 1 से म. नं. 14/2 तक रामदास/सुखदेव से शिवराज से रामसिंह के मकान तक	अ. जा.	6
		2	म. नं. 14/3 से म. नं. 22 तक नर्मदाप्रसाद/रामसिंग से पुष्पा/जयनारायण के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 0
		3	म. नं. 23 से म. नं. 35 तक श्रीराम/देवकरण से मनोज/कैलाश के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	3 2
		4	म. नं. 40/1 से म. नं. 54/1 तक ओमप्रकाश/शिवकरण से लीला/गजूलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	0 3
		5	म. नं. 55 से म. नं. 69/1 तक रूखमणी/रामचरण से संतोष/भगवानदास के मकान तक		
		6	म. नं. 70 से म. नं. 80/3 तक मथुराबाई/रामोतार से सुनील/रामनारायण के मकान तक		
		7	म. नं. 81 से म. नं. 92 तक रूपसिंग/सूरज सिंग से शिवनारायण/सूरजमल के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मागरूल	8 मागरूल	म. नं. 90 से म. नं. 106 तक मिट्ठूलाल/गेंदालाल से हेमराज/बद्रीप्रसाद के मकान तक		
		9	म. नं. 107 से म. नं. 116/1 तक रामचंद/बद्रीप्रसाद से रामभरोस/बालाराम के मकान तक		
		10	म. नं. 116/2 से म. नं. 126/1 तक भारमल/भोलूजी से रमेश/किशोर के मकान तक		
		11	म. नं. 126/2 से म. नं. 140 तक रामचरण/किशोर से मिट्ठूलाल/भागीरथ के मकान तक		
		12	म. नं. 141 से म. नं. 147 तक बंशीलाल/नर्मदाप्रसाद से रामप्रसाद/आशाराज के मकान तक		
		13	म. नं. 148 से म. नं. 632 अन्त तक रामस्वरूप/रामकरण से लक्ष्मण/जयकिशन के मकान तक		
	गौला	14 गौला	म. नं. 2 से म. नं. 16 तक गोरेलाल/मोती जी से रूखमा/शोभाराम के मकान तक		
		15	म. नं. 17 से म. नं. 25/2 तक राजेन्द्र /सुखलाल से रामभरोस/सिताराम के मकान तक		
		16	म. नं. 26 से म. नं. 554 ग तक हरी/रामसिंह से अशोक/नर्मदाप्रसाद के मकान तक		
41	हंडिया	1 इंडिया	म. नं. 1 से म. नं. 16/3 तक शुभम/मोहनदास से चंदशेखर/मुन्नालाल के मकान तक	अ. जा.	3
		2	म. नं. 17/1 से म. नं. 35/1 तक जंगली/शिवलाल से नर्मदी/वासुदेव के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	2 5
		3	म. नं. 35/2 से म. नं. 58/2 तक चंदशेखर/वासुदेव से ओमप्रकाश/भैयालाल के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 1
		4	म. नं. 59 से म. नं. 86 तक दुलारी/शिवप्रसाद से मिलिंद/तुकाराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	3 4
		5	म. नं. 87 से म. नं. 104 तक धन्नालाल/देवलाल से विनय/सुशील के मकान तक		
		6	म. नं. 105 से म. नं. 133 तक शशी कुमार/प्रतापनारायण से धापु/मदनलाल के मकान तक		
		7	म. नं. 134 से म. नं. 161 तक नूरबी/सुकु शाह से नर्मदाप्रसाद/हजारी के मकान तक		
		8	म. नं. 162/1 से म. नं. 192/1 तक नर्मदाबाई/गोविंद से खज्जूलाल रामेश्वर के मकान तक		
		9	म. नं. 193 से म. नं. 227 तक हरीप्रसाद/नन्नुलाल से फितू बैग/सुजात बैग के मकान तक		
		10	म. नं. 228 से म. नं. 251/1 तक जोहराबी/सुभान बैग से हरीशंकर/हरचंद के मकान तक		
		11	म. नं. 253 से म. नं. 271 तक अशोक/नन्नुलाल से रमेशचंद/बाबूलाल के मकान तक		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12	म. नं. 272 से म. नं. 290 क तक राधाकिशन/बिहारी से मूलचंद/हजारी के मकान तक		
		13	म. नं. 290 ख से म. नं. 313 तक सवाई सिंग/हजारी से सुरेश/तुलसीराम के मकान तक		
		14	म. नं. 314 से म. नं. 342 तक हरीप्रसाद/विश्राम से लालखां/शहादत खां के मकान तक		
		15	म. नं. 342 क से म. नं. 354/2 तक रामकुंवर/रामेश्वर से गोपाल/राजाराम के मकान तक		
		16	म. नं. 354/3 से म. नं. 386 तक साहबलाल/भगवतलाल से गोपाल/हेमराज के मकान तक		
		17	म. नं. 387 से म. नं. 416 तक प्रकाश/किशनलाल से मनोहर/मांगीलाल के मकान तक		
		18	म. नं. 416/1 से म. नं. 443 तक सत्यनारायण/मांगीलाल से लखनलाल/उमराव के मकान तक		
		19	म. नं. 445 से म. नं. 477/1 तक अनोखी/रामेश्वर से चम्पालाल/सुरपाल के मकान तक		
		20	म. नं. 479 से म. नं. 531 एवं अंत तक सुरेश/प्रहलाद से संतोष/मोहन के मकान तक		
42	खेडा	1	खेडा म. नं. 1 से म. नं. 14 तक जगदीश/रामगोपाल से बाबूलाल/रामचंद के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	4 4
		2	म. नं. 15 से म. नं. 30 तक लेखराम/नंदकिशोर से रूखमा बाई/रामप्रकाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	0 2 2
		3	म. नं. 30 क से म. नं. 46 तक घन्नालाल/शिवकरण से द्वारका बाई/हीरालाल के मकान तक.	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	0 4
		4	म. नं. 46 क से म. नं. 62 क तक ज्योति/विनोदकुमार से भागवती/जगदीश के मकान तक		
		5	म. नं. 63 से म. नं. 79 ग तक शंकरलाल/बोंदर से रामदास/रामस्वरूप के मकान तक		
		6	म. नं. 80 क से म. नं. 89 तक रामाधार/जागेश्वर से बलराम/मेहराज के मकान तक		
		7	म. नं. 90 से म. नं. 110 तक गेंदालाल/नन्दराम से नाथूराम/इमरत के मकान तक		
		8	म. नं. 111 से म. नं. 122 ख तक देवीसिंग/रामनारायण से सोहनलाल/पन्नालाल के मकान तक		
		9	म. नं. 124 से म. नं. 134 तक कमलाबाई/देवचंद से विलासनाथ/पूनानाथ के मकान तक		
		10	म. नं. 134 क से म. नं. 147 तक गुलाब/ओंकारनाथ से शिवराम/फततूलाल के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	खेडा	11 खेडा	म. नं. 148 से म. नं. 164 तक कचरू/फत्तूलाल से विजयसिंग/बंशीलाल के मकान तक		
		12	म. नं. 165 से म. नं. अंत तक गजानन्द/बलदेव से राजू/मिल्लू के मकान तक		
		13 आदलपुररैयत	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक जगदीश/छोगालाल से छीतर/नत्था के मकान तक		
		14	म. नं. 15/1 से म. नं. 25/3 तक सोनीबाई/नंदराम से जयनारायण/घासीराम के मकान तक		
		15 आदलपुरमाल वीरान	म. नं. 26 से म. नं. 30 तक इन्दर/काशीराम से सुरागबाई/मुकेश के मकान तक		
43	कचवैडी	1 कचवैडी	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक अर्जिला से विवेक/बालाराम के मकान तक	अ. जा.	2
		2	म. नं. 14 से म. नं. 25 तक रामदीन से संध्या/प्रेमनारायण के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	5 0
		3	म. नं. 26 से म. नं. 41 तक सोनी से उषा/रामस्वरूप तक के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	1 3
		4	म. नं. 41 क से म. नं. 54 तक रामनिवास से पूजा/राजेश तक के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	0 2
		5	म. नं. 55 से म. नं. 66 तक जगदीश से दिनेश/भगवन तक के मकान तक		
		6	म. नं. 67 से म. नं. 82 तक जोहरा बी से रीना/ओमप्रकाश तक के मकान तक		
		7	म. नं. 84 से म. नं. अन्त तक पन्नालाल से पूना बाई/चंपालाल के मकान तक		
		8 जामलीउबारी	म. नं. 1 से म. नं. 4 तक भगताराम से निर्मल/लक्ष्मीनारायण तक के मकान तक		
		9	म. नं. 5 से म. नं. 16 तक रामभरोष से सुन्दरलाल/मंगत्या तक के मकान तक		
		10	म. नं. 19 से म. नं. 32 तक अन्तरसिंह से अनिता/हेमन्त के मकान तक		
		11	म. नं. 36 से म. नं. 47/2 तक मोहनलाल से कला/कोमल तक के मकान तक		
		12	म. नं. 48 से म. नं. अन्त तक रमेश से रामसिंह/घासीराम तक के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
44	रेलवा	1	रेलवा	म. नं. 1 से म. नं. 11 तक	अ. जा.	5
				प्रभुलाल से निशा के मकान तक	अ. ज. जा.	5
		2		म. नं. 12 से म. नं. 27 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				लक्ष्मी से मनीषा के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		3		म. नं. 28 से म. नं. 40/1 तक	महिला अ. ज. जा.	3
				मिश्रीलाल से रेशम के मकान तक.	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4		म. नं. 40/2 से म. नं. 54 तक	महिला अन्य	2
				रामाधार से प्रमिला के मकान तक		
		5		म. नं. 55 से म. नं. 67/1 तक		
				सालक राम से माया के मकान तक		
		6		म. नं. 68 से म. नं. 73 तक		
				नर्बदी/हरिसिंह से सीमा/राकेश के मकान तक		
		7		म. नं. 74 से म. नं. 84 तक		
				राधेश्याम/रामनारायण से क्षमा/नीरज के मकान तक		
		8		म. नं. 85 से म. नं. 95/1 तक		
		लोकेश/श्यामलाल से गोरी/बल्लू के मकान तक				
9		म. नं. 97 से म. नं. 113 तक				
		मोहन/अनोखी से निर्मला/मुकेश के मकान तक				
10		म. नं. 114 से म. नं. 130 तक				
		श्यामलाल/परसराम से गणेश/बलराम के मकान तक				
11		म. नं. 131 से म. नं. 139 तक				
		शाता/रामगोपाल से अनिता/राजेन्द्र के मकान तक				
12		म. नं. 140 से म. नं. 148 तक				
		मोहताप/रामा से माया/सुमेरसिंग के मकान तक				
13		म. नं. 149 से म. नं. 160 तक				
		गुल्लु/भुरेलाल से वर्षा/भवानी राम के मकान तक				
14		म. नं. 161 से म. नं. 180/8 तक				
		कोकिला से ममता/अशोक के मकान तक				
15		म. नं. 181 से म. नं. अन्त तक				
		ग्यारसीबाई/सबाई सिंग से बाबूलाल/महेश्वर के मकान तक.				
45	धनगांव	1	धनगांव	म. नं. 1 से म. नं. 11/2 तक	अ. जा.	3
				जागेश्वर कैलाश से रामगोपाल/जुहारमल के मकान तक	अ. ज. जा.	10
		2		म. नं. 12/1 से म. नं. 26 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				शैतान सिंग/मोहन से दीपक/चम्पालाल के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3		म. नं. 26 ख से म. नं. 43 तक	महिला अ. ज. जा.	5
				शीला बाई/शंकर से फूलसिंह/अमर सिंह के मकान तक.	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		म. नं. 44 से म. नं. 60 तक	महिला अन्य	1		
		रमेश/सुखराम से श्यामलाल/गेंदालाल के मकान तक				
5		म. नं. 60/1 से म. नं. 78/2 तक				
		भवरलाल/गेंदालाल से शोभाराम/नंदू के मकान तक				
6		म. नं. 79 से म. नं. अंत तक				
		शिवराम/नन्दू से ओमप्रकाश/रामदास के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	धनगांव	7 नीलगढ़ माल	म. नं. 1 से म. नं. 17 तक रामदास/नाथुराम से भागीरथ/सीताराम के मकान तक		
		8	म. नं. 18 से म. नं. अन्त तक कालू/हरिराम से ओमप्रकाश/रामनारायण के मकान तक		
		9 नीलगढ़ दमामी	म. नं.1 से म. नं. 16 तक प्रहलाद/दलपत से कमलाबाई/सजन के मकान तक		
		10	म. नं. 17 से म. नं. अन्त तक देवीसिंग/नारायण से शिवकला/संतोष के मकान तक		
		11 बूदडा	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक नारायण/गंगाराम से बंशीलाल/कन्हैयालाल के मकान तक		
		12	म. नं. 15 से म. नं. 25 तक भागीरथ/ताराचंद से करण सिंह/दशरथ के मकान तक		
		13	म. नं. 26 से म. नं. 37 तक समीता बाई/रामेश्वर से लालसिंह/हिराचंद के मकान तक		
		14	म. नं. 38 से म. नं. 48 तक मिट्टू/नंदराम से इमरत/गंगाविशन के मकान तक		
		15	म. नं. 48 क से म. नं. अन्त तक जगन्नाथ/सीताराम से गौरा बाई/रामदास के मकान तक		
			देदला सेठ वीरान देदलामाल वीरान		
46	बैडी	1 बैडी	म. नं. 1 से म. नं. 17 तक बाबूलाल/से अनवर सिंह के मकान तक	अ. जा.	4
		2	म. नं. 20 से म. नं. 33 तक शेखसत्तार/बलराम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	8 0
		3	म. नं. 35/1 से म. नं. 45/2 तक कोदर सिंह से गोविंदराम के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 4
		4	म. नं. 45/3 से म. नं. 53/2 तक भगत से गुलाब सिंह के मकान तक	महिला अन्य	0 4
		5	म. नं. 54/1 से म. नं. 61/4 तक आनंद सिंह से श्यामलाल के मकान तक		
		6	म. नं. 61/5 से म. नं. 79 तक हीरालाल से मकुन्दराम के मकान तक		
		7	म. नं. 80 से म. नं. 97 तक रामचंद से चन्दु के मकान तक		
		8	म. नं. 98 से म. नं. 105/1 तक रेवाराम से रामभरोस के मकान तक		
		9	म. नं. 105/2 से म. नं. 113/2 तक सोहदा बाई से जगदीश के मकान तक		
		10	म. नं. 114/2 से म. नं. 126/ग तक बद्रीप्रसाद से रोशन के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बैडी	11 बैडी	म. नं. 128/3 से म. नं. 138 तक प्रताप सिंह से राजेश के मकान तक		
		12	म. नं. 139 से म. नं. 149/1 तक शांता बाई से दीनदयाल के मकान तक		
		13	म. नं. 151 से म. नं. 162/क विष्णु प्रसाद से रामसुख के मकान तक		
		14	म. नं. 164 से म. नं. 171 तक भारत से राधेश्याम के मकान तक		
		15	म. नं. 171/क से म. नं. 181 तक उपराव से बोंदर के मकान तक		
		16	म. नं. 182 से म. नं. 200 तक आन्नदराम से मुरलीधर के मकान तक		
		17	म. नं. 203 से म. नं. 203झ तक हरीसिंह से गोन्द सिंह के मकान तक		
		18	म. नं. 203ट से म. नं. 203स तक सुमेर सिंह से कालूराम के मकान तक		
		19	म. नं. 203 ष से म. नं. 303 तक सुन्दरलाल से रतिलाल के मकान तक		
		20	म. नं. 309 से म. नं. अन्त तक दशरथ से के मकान तक.		
47	हीरापुर	1 हीरापुर	म. नं. 1 से म. नं. 18 तक शंकरलाल/लालजीराम से रामभरोस/कुंजीलाल के मकान तक.	अ. जा. अ. ज. जा.	2 3
		2	म. नं. 20 से म. नं. 32 तक लक्ष्मीबाई/मोजीराम से चैनसिंह/शंभु के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	3 1
		3	म. नं. 33 से म. नं. 45 तक रामेश्वरदास/शंकरलाल से रमको/कुजी के मकान तक.	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 2
		4	म. नं. 46 से म. नं. 58 तक कमला/सीरिया से श्यामलाल/हरलाल के मकान तक	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 59 से म. नं. 72 तक मिश्री/गंगाविशन से कमला/वंशी के मकान तक		
		6	म. नं. 73 से म. नं. 80 तक गणपत/श्रीकिशन से ग्यारसी/सीताराम के मकान तक		
		7	म. नं. 81 से म. नं. 96/2 तक धनलाल/हजारी से माणकचंद/रामनारायण के मकान तक		
		8	म. नं. 97 से म. नं. अन्त तक मुकेश/संबु से राजेश/रेवाराम के मकान तक		
		9 डुमलाय	म. नं. 1 से म. नं. 13/3 तक हरिकिशन/भाउ से रामदेव/हरनाथ के मकान तक		
		10	म. नं. 14 से म. नं. 25/2 तक भागीरथ/भोलू से रघुनाथ/सदरी के मकान तक		
		11	म. नं. 26 से म. नं. 43 तक कस्तूरा/श्रंगी से केशर/बाबू के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12	डुमलाय	म. नं. 44/1 से म. नं. 58/2 तक नम्रदा/हरनालाल से फुलकुवर/नर्मदा के मकान तक		
	13		म. नं. 59 से म. नं. अन्त तक सोना/रामकरण से पुरुषोत्तम/रामेश्वर के मकान तक		
48	भादूगांव	1	भादूगांव	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक देवाज/नंदा से हरदनारायण/जगन्नाथ के मकान तक	अ. जा. 6 अ. ज. जा. 6
	2		म. नं. 16 से म. नं. 23/2 तक देवराज/रामलाल से दिनेश/श्रवण के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 3
	3		म. नं. 24 से म. नं. 42 तक गिरधारी/ग्यारसीराम से मांगीलाल/किशन के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3 0
	4		म. नं. 43 से म. नं. 58 तक जगन्नाथ/हीरालाल से गंगाराम/जगन्नाथ के मकान तक	महिला अन्य	4
	5		म. नं. 59 से म. नं. 74 तक सीताबाई/रामगोपाल से देवीशंकर/मोजीराम के मकान तक		
	6		म. नं. 75 से म. नं. 92 तक प्रेमबाई/नाथ से गोरबाई/शिवनाथ के मकान तक		
	7		म. नं. 93 से म. नं. अन्त तक किशोरनाथ/श्यामनाथ से मोहनलाल/बोंदर के मकान तक		
	8	देवास	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक मिश्रीबाई/बाबूलाल से रामबिलास/रामनारायण के मकान तक		
	9		म. नं. 14 से म. नं. 92 तक हरिमोहनलाल से बिलास/सीताराम के मकान तक		
	10		म. नं. 25 से म. नं. 37/1 तक रामग्रापाल/भूपत सिंग से भारतसिंग/मानसिंग के मकान तक		
	11		म. नं. 40 से म. नं. 64 तक लक्ष्मी/बाबू से लक्ष्मी/प्रहलाद के मकान तक		
	12		म. नं. 65 से म. नं. 82 तक हरिशंकर/प्रहलाद से बसू/रामभरोस के मकान तक		
	13		म. नं. 83 से म. नं. 103 तक शिप्रा/रामनारायण से पार्वती/शिवनारायण के मकान तक		
	14		म. नं. 105 से म. नं. 119 तक सीताराम/रामप्रसाद से भगतराम/किशनलाल के मकान तक		
	15		म. नं. 120 से म. नं. अन्त तक गुलाब/हरिराम से बसंती/अजब के मकान तक		
	16	भवरतालाबठेके	म. नं. 1 से म. नं. 10 तक छीतर/मेहरूम से बिलास/छीतर के मकान तक		
	17		म. नं. 11 से म. नं. 27 तक नंदकिशोर/तेजराम से मांगीलाल/रामकिशन के मकान तक		
	18		म. नं. 28 से म. नं. 46 तक सीता/हजारी से बृजलाल/राधेश्याम के मकान तक		
	19		म. नं. 47 से म. नं. 73/5 तक हरी/देवकरण से मोहनलाल/मांगीलाल के मकान तक		
	20		म. नं. 74 से म. नं. अंत तक राजाराम/मांगीलाल से ओंकारनाथ/अमरनाथ के मकान तक.		
			भवरतालाबमाल वीरान		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	भादूगांव	1 भादूगांव	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक	अ. जा.	6
			देवाज/नंदा से हरदनारायण/जन्नाथ के मकान तक	अ. ज. जा.	6
		2	म. नं. 16 से म. नं. 23/2 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
			देवराज/रामलाल से दिनेश/श्रवण के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		3	म. नं. 24 से म. नं. 42 तक	महिला अ. ज. जा.	3
			गिरधारी/ग्यारसीराम से मांगीलाल/किशन के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म. नं. 43 से म. नं. 58 तक	महिला अन्य	4
			जगन्नाथ/हीरालाल से गंगाराम/जगन्नाथ के मकान तक		
		5	म. नं. 59 से म. नं. 74 तक		
			सीताबाई/रामगोपाल से देवीशंकर/मोजीराम के मकान तक		
		6	म. नं. 75 से म. नं. 92 तक		
			प्रेमबाई/नाथ से गोराबाई/शिवनाथ के मकान तक		
		7	म. नं. 93 से म. नं. अन्त तक		
			किशोरनाथ/श्यामनाथ से मोहनलाल/बोंदर के मकान तक		
	देवास	8	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक		
			मिश्रीबाई/बाबूलाल से रामबिलास/रामनारायण के मकान तक		
		9	म. नं. 14 से म. नं. 92 तक		
			हरिमोहनलाल से बिलास/सीताराम के मकान तक		
		10	म. नं. 25 से म. नं. 37/1 तक		
			रामग्रापाल/भूपत सिंग से भारतसिंग/मानसिंग के मकान तक		
		11	म. नं. 40 से म. नं. 64 तक		
			लक्ष्मी/बाबू से लक्ष्मी/प्रहलाद के मकान तक		
		12	म. नं. 65 से म. नं. 82 तक		
			हरिशंकर/प्रहलाद से बसू/रामभरोस के मकान तक		
		13	म. नं. 83 से म. नं. 103 तक		
			शिप्रा/रामनारायण से पार्वती/शिवनारायण के मकान तक		
		14	म. नं. 105 से म. नं. 119 तक		
			सीताराम/रामप्रसाद से भगताराम/किशनलाल के मकान तक		
		15	म. नं. 120 से म. नं. अन्त तक		
			गुलाब/हरिराम से बसंती/अजब के मकान तक		
		16	म. नं. 1 से म. नं. 10 तक		
			छीतर/मेहरूम से बिलास/छीतर के मकान तक		
		17	म. नं. 11 से म. नं. 27 तक		
			नंदकिशोर/तेजराम से मांगीलाल/रामकिशन के मकान तक		
		18	म. नं. 28 से म. नं. 46 तक		
			सीता/हजारी से बृजलाल/राधेश्याम के मकान तक		
		19	म. नं. 47 से म. नं. 73/5 तक		
			हरी/देवकरण से मोहनलाल/मांगीलाल के मकान तक		
		20	म. नं. 74 से म. नं. अंत तक		
			राजाराम/मांगीलाल से ओंकारनाथ/अमरनाथ के मकान तक.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
49	अबगांवकला	1	अबगांवकला	म. नं. 4 से म. नं. 24 तक	अ. जा.	5
				जगन्नाथ/काशीराम से सुशीला/हजारी के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2		म. नं. 26 से म. नं. 48/1 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
				रामाधार/कुंजीलाल से रामकिशन/रामस्वरूप के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		3		म. नं. 48/2 से म. नं. 61 तक	महिला अ. ज. जा.	2
				मेगराज/स्वरूप से माया/सुनील के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4		म. नं. 62 से म. नं. 81 तक	महिला अन्य	2
				शारदा/गोकुल से जगदीश/चन्द्र के मकान तक		
		5		म. नं. 82 से म. नं. 110 तक		
				सकरी/बलराम से हजारी/शिवकरण के मकान तक		
		6		म. नं. 113 से म. नं. 130 तक		
				श्रीकिशन/हरीमल से कैलाश/मिश्रीलाल के मकान तक		
		7		म. नं. 132 से म. नं. 165 तक		
				हरिराम/प्रमोद से शांता/गुलाबसिंग के मकान तक		
		8		म. नं. 166 से म. नं. 168 तक		
				सरजू/राधेलाल से नर्मदा/बल्लभ के मकान तक		
		9		म. नं. 168 क से म. नं. 190क तक		
				करण/मदनसिंग से बालकदास/भुरारी के मकान तक		
		10		म. नं. 192 से म. नं. 208 तक		
				अमरदास/रंगलाल से नर्मदीबाई/डालू के मकान तक		
		11		म. नं. 209 से म. नं. 220 तक		
				इन्द्रबाई/जगन्नाथ से सुन्दरबाई/पदमा के मकान तक		
		12		म. नं. 221 से 237		
				सीताबाई/श्रीराम से सोहनलाल/नन्हू के मकान तक		
		13		म. नं. 237क से म. नं. 250 तक		
				रामभरोस/पन्नालाल से हरनाथ/कालू के मकान तक		
		14		म. नं. 253 से म. नं. 271 तक		
				रामेश्वर/छीतर से लीलाबाई/हरनाथ के मकान तक		
		15		म. नं. 271क से म. नं. 288 तक		
				रेवाराम/फुन्दाजी से प्रहलाद/कालू के मकान तक		
		16		म. नं. 289 से म. नं. अन्त तक		
				देवबाई/बाबूलाल से सुनील/रेवाराम के मकान तक		
		17	भैरोपुर	म. नं. 2 से म. नं. 23 तक		
				लक्ष्मीनारायण/रामचंद से हरीशंकर/पन्नालाल के मकान तक		
		18		म. नं. 23क से म. नं. 37 तक		
				बलराम/पन्नालाल से गिरजा/पांडरीनाथ के मकान तक		
		19		म. नं. 38 से म. नं. 56 तक		
				भगवान/रामचंद से पुनीया/घिसया के मकान तक		
		20		म. नं. 57 से म. नं. 64 तक		
				श्यामबाई/दरीयाब से लक्ष्मण/रामलाल के मकान तक.		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	रिजगांव	1 रिजगांव	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक	अ. जा.	4
			राधेश्याम/मयाराम से शारदा/कमलसिंह के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2	म. नं. 14 से म. नं. 30 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
			चंद्रभूषण/रामशंकर से मदन/हजारी के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3	म. नं. 30/5 से म. नं. 47 तक	महिला अ. ज. जा.	2
			नत्थू/शिवकरण से बालाराम/रामेश्वर के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 48 से म. नं. 60 तक	महिला अन्य	1
			रामौतार/रामलाल से हनुमंतसिंह/रामलाल		
		5	म. नं. 61 से म. नं. 75 तक		
			मुलिया बाई/राधेलाल से राजेश/जसवंत		
		6	म. नं. 76 से म. नं. 94 तक		
			आशाराम/किशोर सिंह से इमरत/रामलाल		
		7	म. नं. 95 से म. नं. 104 तक		
			तुलसा/अमरतलाल से अनोखी/उमराव		
8	म. नं. 106 से म. नं. 117 तक				
	सुन्दरलाल/रामकिशन से राजाराम/धरवर सिंह				
9	म. नं. 118 से म. नं. 126 तक				
	प्रेमनारायण/हरचंद से करण सिंह/पार्वत सिंह				
10	म. नं. 127 से म. नं. 138 तक				
	नर्मदी/डालु से कोमल/रामप्रसाद				
11	म. नं. 140 से म. नं. 150 तक				
	मदनलाल/रघुनाथ से रामविलास/नारायण सिंह				
12	म. नं. 152 से 163 तक				
	बसू/नबूगिर से रामगोविंद/दरियाव सिंह के मकान तक				
13	म. नं. 165 से म. नं. 187 तक				
	प्रेम/हरिप्रसाद से रामनिवास/गजराज के मकान तक				
14	म. नं. 188 से म. नं. अन्त तक				
	प्रदीप/रविशंकर से सीमा/मांगीलाल के मकान तक				
51	कोलीपुरा	1 कोलीपुरा	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक	अ. जा.	4
			पूनम/दोलत से द्वारकाबाई/प्रताप सिंह के मकान तक	अ. ज. जा.	4
		2	म. नं. 17 से म. नं. 34 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
			मोती सिंह/चौनसिंग से कैशर बाई/भागवान के मकान तक.	महिला अ. जा.	2
		3	म. नं. 35 से म. नं. 45 तक	महिला अ. ज. जा.	2
			भुजराम/विश्राम से रामचरण/घूडया के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म. नं. 45 से म. नं. 60 तक	महिला अन्य	3
	रामप्रमोद/घूडया से मोहनला/मांगीलाल के मकान तक				
5	म. नं. 60/1 से म. नं. 79 तक				
	बलराम/बद्री से मदन/बाबू के मकान तक				
6	म. नं. 80 से म. नं. 83 तक				
	एकता/बैकुण्ठ से रेवाराम/बोंदर के मकान तक				
7	म. नं. 83/1 से म. नं. 106 तक				
	हरि/कुजी से सुन्दर/रामकिशन के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कोलीपुरा	8 कोलीपुरा	म. नं. 106च से म. नं. अन्त तक रामस्वरूप/गिरधन से सरजू/रामनारायण		
		9 कुजरगांव	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक रामेश्वर/जागेश्वर से हरिराम/देवराम के मकान तक		
		10	म. नं. 14 से म. नं. 19 तक सुमन/उमराव से किशोर/रूपा के मकान तक		
		11	म. नं. 20 से म. नं. 29 तक मोहनलाल/नत्थू से पन्नालाल/रामकिशोर के मकान तक		
		12	म. नं. 30 से म. नं. 40 तक शिवप्रसाद/दयाराम से चन्द्रसिंह/गुलाब के मकान तक		
		13	म. नं. 41 से म. नं. 54 तक रातबिलास/राधेलाल से सेवाराम/घासीराम के मकान तक		
		14	म. नं. 55 से म. नं. अन्त तक घीसी बाई/मोहन से सरदारबाई/फतेसिंह के मकान तक.		
52	गोगिया	1 गोगिया	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक श्यामलाल से तुलसीराम के मकान तक	अ. जा.	4
		2	म. नं. 18 से म. नं. 28/3 तक रमेश से रामकरण के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	3 4
		3	म. नं. 29 से म. नं. 44क तक सुन्दरबाई से कचरू के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 2
		4	म. नं. 45क से म. नं. 57 तक अशोक से श्यामाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	2 1
		5	म. नं. 57/1 से म. नं. 68 तक मदन से राधेश्याम के मकान तक		
		6	म. नं. 59 से म. नं. 89 तक कैलाश से छटू के मकान तक		
		7	म. नं. 89/2 से म. नं. 106 तक दिनशे से तेजा के मकान तक		
		8	म. नं. 107 से म. नं. अन्त तक गजराज से बलराम के मकान तक		
		9 इकडालिया	म. नं. 1 से म. नं. अन्त तक भारत से रामविलास के मकान तक		
		10 घोडोकुण्ड	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक गीता से कली के मकान तक		
		11	म. नं. 14 से अन्त तक तारा से नर्मदा के मकान तक		
		12 विचपुरी	म. नं. 1 से अंत तक लक्ष्मीनारायण से अंत के मकान तक		
		13 गांग्याखेड़ी	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक शंकर से हरनाथ के मकान तक		
		14 एवं आमानेर	म. नं. 13 से म. नं. अन्त तक मदन से अंत तक के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
53	आदमपुर	1	आदमपुर	म. नं. 1 से म. नं. 11/2 तक	अ. जा.	3
				संतोष/मोहन से सुगना/रामप्रसाद के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2		म. नं. 11/3 से म. नं. 22 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				मनीराम/रघुनाथ से प्रेम/भुजराम के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3		म. नं. 23/1 से म. नं. 34/2 तक	महिला अ. ज. जा.	2
				रामदीन/बद्री से तुलसीराम/गोलू के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4		म. नं. 35 ख से म. नं. 39/3 तक	महिला अन्य	1
				तीजा/रामभरोस से श्रवण/ताराचंद के मकान तक		
		5		म. नं. 46 से म. नं. 67/1 तक		
				प्रेमबाई/नाथा से हरीराम/रामलाल के मकान तक		
		6		म. नं. 68 से म. नं. 82 तक		
				बोंदर/माती से हरीराम/रामदीन के मकान तक		
		7		म. नं. 83 से म. नं. 97 तक		
		भजुदया/बलराम से प्रेमनारायण/रामेश्वर के मकान तक				
8		म. नं. 97/3 से म. नं. 106 तक				
		मोती/बलराम से हरनाथ/रघुनाथ के मकान तक				
9		म. नं. 109 से म. नं. 125 तक				
		उमा/शंकरलाल से प्रेम/मांगीलाल के मकान तक				
10		म. नं. 130 से म. नं. अन्त तक				
		सीताराम/किशनलाल से घुडया/हरीसिंग के मकान तक				
11	गुरारखेडी एवं	म. नं. 1 से म. नं. 14/2 तक				
		शांति/भुजराम से सुरत/नत्थु के मकान तक				
12	नरसिंगखेडी	म. नं. 14/3 से म. नं. 31/3 तक				
		अनसुईया/अमराजी से राधेश्याम/मोजीराम के मकान तक				
13		म. नं. 32/1 से म. नं. अन्त तक				
		प्रह्लाद/रेवाराम से कैलाश/रंगलाल के मकान तक एवं मकान				
		धामनिया 1 से म. नं. अंत तक के मकान तक.				
54	नांदरा	1	नांदरा	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक	अ. जा.	5
				रामविलास से पार्वती/नारायण के मकान तक	अ. ज. जा.	1
		2		म. नं. 18 से म. नं. 23 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
				शिवशंकर/राधाकिशन से सुंदरबाई/मोतीलाल के मकान तक.	महिला अ. जा.	3
					महिला अ. ज. जा.	1
		3		म. नं. 29 से म. नं. 35 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				भागीरथ/कालू से रामाधार/पन्नालाल के मकान तक	महिला अन्य	2
		4		म. नं. 36 से म. नं. 46 तक		
		रामभरोस/उगरा से मांगीलाल/हजारी तक के मकान तक				
5		म. नं. 47 से म. नं. 54 तक				
		सुनिता/मंशाराम से वनवारी/दशरथ के मकान तक				
6		म. नं. 55 से म. नं. 63 तक				
		चंपालाल/मोतीलाल से अनवर/मंशी के मकान तक				
7		म. नं. 65 से म. नं. 88 तक				
		रामलाल/अमरा से दयाराम/सखाराम के मकान तक				
8		म. नं. 89 से म. नं. 101 तक				
		मिश्री/दगडया से शिवप्रसाद/सिकदार के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	नांदरा	9 नांदरा	म. नं. 103 से म. नं. 122 तक गंगाविशन/रामलाल से जगदीश/अमरा के मकान तक		
		10	म. नं. 123 से म. नं. 136 तक केशर/शिवराम से बलराम/चिन्ना तक के मकान तक		
		11	म. नं. 138 से 153/2 तक रामलाल/हरिराम से सुरेश/शिवप्रसाद के मकान तक		
		12 गोयत एवं	म. नं. 2 से 17 तक शेर खां/सिकंदर से हरिशंकर/देवराज के मकान तक		
		13	म. नं. 17 से म. नं. 33 तक सेवाराम/देवराज से हरचंद/देवराज के मकान तक		
		14	म. नं. 35 से म. नं. 50 तक भागवती/जगदीश से रामप्यारी/दयाराम के मकान तक		
		15 खरतलाब	म. नं. 51 से म. नं. अन्त तक देवचंद/पेमा से मोहनलाल/भाउ एवं सागर/जगराम के मकान तक		
55	सिगोन	1 सिगोन	म. नं. 1 से म. नं. 15 तक बोन्दर/देवसिंग से जमना/बाबूलाल के मकान तक	अ. जा.	1
		2	म. नं. 16 से म. नं. 31 तक लखन/पन्ना से कल्लू/रूगनाथ के मकान तक.	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	8 0
		3	म. नं. 32 से म. नं. 45 तक प्रेम/श्यामलाल से गंगाराम/देवकरण के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	1 4
		4	म. नं. 45क से म. नं. 59 तक रामगोपाल/मोहनलाल से समोता/रामप्रसाद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	0 2
		5	म. नं. 60 से म. नं. 72 तक शैतान/प्रताप से नर्मदाप्रसाद/गोरेलाल के मकान तक		
		6	म. नं. 73 से म. नं. 90 तक गोरेलाल/छीतर से गुलाब/साबूलाल के मकान तक		
		7	म. नं. 92 से म. नं. 107 तक चंपी/गोरेलाल से मथरादास/मांगीलाल के मकान तक		
		8	म. नं. 107 क से म. नं. 121 तक श्रीराम/घासीराम से कमला/छोटेराल के मकान तक		
		9	म. नं. 122 से म. नं. 138 तक अमर सिंग/रामेश्वर से बुद्धु/सुभान के मकान तक		
		10	म. नं. 139 से म. नं. अन्त तक रमेश/गप्पा के मकान तक		
		11 सगोदा	म. नं. 3 से 18/1क तक अजयसिंग/निर्भयसिंग से फूलबाई/शोभाराम के मकान तक		
		12	म. नं. 19 से म. नं. 39/1 तक शिवलाल/गोरेलाल से अन्त के मकान तक		
		13 ढेकी	म. नं. 1 से म. नं. 20क तक रूखमणी से भल्लू के मकान तक		
		14	म. नं. 21 से म. नं. 92 तक बसंती बाई से अन्त तक के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56	बीड	1 बीड	म. नं. 3 से म. नं. 21 तक	अ. जा.	3
			बल्लो/बिहारीलाल से जयप्रकाश/महेश के मकान तक	अ. ज. जा.	2
		2	म. नं. 22 से म. नं. 40 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
			सरस्वती/गंगाविशन से अरूणा/मोहन के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3	म. नं. 41 से म. नं. 56 तक	महिला अ. ज. जा.	1
			दुर्गाप्रसाद/लक्ष्मण से संगीता/बनवारी के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 58 से म. नं. 84 तक	महिला अन्य	0
			अन्नापूर्णा/रामनारायण से अमित/रमेशकुमार के मकान तक		
		5	म. नं. 86 से म. नं. 102 तक		
			शिवप्रसाद/घासीराम से भूमि/जयराम के मकान तक		
6	म. नं. 103 से म. नं. 123/2 तक				
	रामनिवास/इन्दर से निर्भयराम/सालकराम के मकान तक				
7	म. नं. 124 से म. नं. 142 तक				
	गंगा/जगन्नाथ से अनिता/जगदीश के मकान तक				
8	म. नं. 143 से म. नं. 155/1 तक				
	जगन्नाथ/गेंदालाल से संदिप/रामनाथ के मकान तक				
9	म. नं. 157 से म. नं. 175 तक				
	चन्दन/बालाराम से सुगना बाई/ राजू के मकान तक				
10	म. नं. 176 से म. नं. अन्त तक				
	श्यामलाल/कालीचरण से अन्त तक के मकान तक				
57	खेडीनीमा	1 खेडीनीमा	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक	अ. जा.	1
			कमल/बुद्धराम से बाबूलाल/किशन के मकान तक	अ. ज. जा.	4
		2	म. नं. 15 से म. नं. 30 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
			ददीलाल/से सीताराम/मोती के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3	म. नं. 31 से म. नं. 43/1 तक	महिला अ. ज. जा.	2
			रामी/बालू से बलराम/देवकरण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4	म. नं. 44 से म. नं. 54 तक	महिला अन्य	2
			रामेश्वर/किशल से के मकान तक		
		5	म. नं. 55 से म. नं. अंत तक		
			मिश्रीलाल से सुनार सिंग के मकान तक		
		6	जुगरिया एवं	म. नं. 1 से म. नं. 10/2 तक	
	घनश्याम /रामनारायण से रामलाल के मकान तक				
7	गुरदिया	म. नं. 11 से म. नं. 18/6 तक			
	रामभरोस/धन्नालाल से हेमराज/रामभरोस के मकान तक				
8		म. नं. 19 से म. नं. 29 तक			
	शांतीलाल/मांगीलाल से हरीराम/डालू जी के मकान तक				
9		म. नं. 30/1 से म. नं. 39 तक			
	मूरत सिंग से गुलाब सिंग के मकान तक				
10		म. नं. 40 से म. नं. अंत तक			
	भागव सिंग/फूलसिंग के बसु बाई/गंगाराम के मकान तक				
11	भमोरी	म. नं. 1 से म. नं. 21 तक			
	ज्योति/रामविलास से देवबाई/पन्नालाल के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खेडीनीमा	12	भमोरी	म. नं. 22/1 से म. नं. 39 तक प्रताप/बोंदर से किशोरी/पन्नालाल के मकान तक		
	13		म. नं. 40 से म. नं. 70/2 तक गणेश/श्यामलाल के इंद्रबाई/हेमराज के मकान तक		
	14		म. नं. 70/3 से म. नं. अंत तक संतोष/रामगोपाल से चंदाबाई/प्रीतमनाथ के मकान तक		
58 अजनासरैयत	1	अजनासरैयत	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक जमुना/मिश्रीलाल से पुष्पा/प्रेमनारायण के मकान तक	अ. जा.	3
	2		म. नं. 13 से म. नं. 22 तक किशनलाल/मोतीलाल से रामभरोस/कालू के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	8 0
	3		म. नं. 23 से म. नं. 37 तक फुली/हरनारायण से रामनारायण/बाबू के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 4
	4		म. नं. 38 से म. नं. 55/1 तक देवीसिंह/जागेश्वर से रामाधार/खली के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
	5		म. नं. 58 से म. नं. 77/3 तक शिवप्रसाद/रामकिशन से कला/उदय के मकान तक	महिला अन्य	2
	6		म. नं. 78 से म. नं. 91 तक बाबूलाल/कुजी से कजरिया/सिकदार के मकान तक		
	7		म. नं. 92 से म. नं. 106 तक रामहेत/रामचंद से पुनमचंद/घासीराम के मकान तक		
	8		म. नं. 107 से म. नं. 114/3 तक अजबसिंह/प्रेमसिंह से अमरसिंह के मकान तक		
	9		म. नं. 114/4 से म. नं. 136 तक अमर/अनवर से ज्ञानसिंह/भाउसिंह के मकान तक		
	10		म. नं. 137 से म. नं. अंत तक शांता/रामदीन से राजेश/जागेश्वर के मकान तक		
	11	अजनासखुर्द	म. नं. 1 से म. नं. 4 तक देवराज/कालू से सोहनलाल/अनूप के मकान तक		
	12		म. नं. 5 से म. नं. 18 तक लक्ष्मण/कालू से रमेश/जग्गू के मकान तक		
	13		म. नं. 19 से म. नं. 26 तक किशन/पन्ना से राधा/राधेलाल के मकान तक		
	14		म. नं. 27 से म. नं. 37 तक कैलाश/जागेश्वर से पुनीया/जसन के मकान तक		
	15		म. नं. 40 से म. नं. अंत तक परसराम/नंदलाल से फुलवती/अजबसिंह के मकान तक		
59 बैरागढ़	1	बैरागढ़	म. नं. 1 से म. नं. 22 तक रामकली/रामेश्वर से सेवन्ती बाई/प्रहलाद के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	3 3
	2		म. नं. 26 से म. नं. 53 तक श्रीकिशन/टुकडया से सुरेश/भैयालाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	4 2
	3		म. नं. 55 से म. नं. 77 तक अनिल/जागेश्वर से पूरनलाल/भैयालाल के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 2
	4		म. नं. 79 से म. नं. 98 तक रामशंकर/भैयालाल से दिनेश/सत्यनारायण के मकान तक	महिला अन्य	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	बैरागढ़	म. नं. 98/1 से म. नं. 118 तक अमरसिंह/बादर सिंह से दयाराम/तुलसीराम के मकान तक			
6		म. नं. 119 से म. नं. 556 तक हरिओम/मूलचंद से सुन्दरलाल/श्यामलाल के मकान तक			
7		म. नं. 559 से म. नं. 595क तक रफी/मोहम्मद से मथुरा/किशारी के मकान तक			
8		म. नं. 596 से म. नं. अन्त तक गणेश/बद्रीप्रसाद से सुरेश/किशोरी के मकान तक			
9	खेड़ीमेहमूदाबाद	म. नं. 231 से म. नं. 325 ख तक मनीष/रामेश्वर से गौरीशंकर/गंगाकिशन			
10		म. नं. 325/6 से म. नं. 326/7 तक राधेश्याम/विश्राम से संतोष/गनपत के मकान तक			
11		म. नं. 326/8 से म. नं. 326/9 तक मांगीलाल/भगवानदास से सुनील/मनोहर के मकान तक			
12		म. नं. 326/26अ से 326/15क सखाराम/मिश्रीलाल से दीपक/शिवराम के मकान तक			
13		म. नं. 326/16क से 326/2 बी योगेश/रामनिवास से संध्या/आन्नद के मकान तक			
14		म. नं. 326/4 बी से अन्त तक जयन्ती/आशाराम से संदीप तक के मकान तक			
60	झाडपा(नवीन)	1 झाडपा(नवीन) म. नं. 2 से म. नं. 10 ग तक हिमानी/चंद्रशेखर से ममता/राधेश्याम के मकान तक	अ. जा.		1
		2 म. नं. 10घ से म. नं. 27 तक कमला बाई/रामेश्वर से अयोध्या बाई/रामदीन के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग		5 0
		3 म. नं. 28 से म. नं. अन्त तक रामलाल/शोभाराम से सुनीता/हरेश के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.		1 3
	4 बैड़ागांव	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक परसराम/मांगीलाल से नानकराम/छोगेलाल के मकान तक	महिला अन्य		0 1
		5 म. नं. 15 से म. नं. 39 तक रामदास/हरनारायण से रूपसिंह/देवा के मकान तक			
		6 म. नं. 40 से म. नं. अन्त तक हजारी/माती से लीलाधर/गंगाविशन के मकान तक			
	7 देदला दमामी	म. नं. 1 से म. नं. अन्त तक सोहनलाल/सुरेश से कैलाश/काशीराम के मकान तक			
	8 नहाड़िया	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक भागवती बाई/भारमल से उर्मिला बाई/रामसुख के मकान तक			
		9 म. नं. 15 से म. नं. 33 तक बाबूलाल/घनश्याम से मनोहर/चंद्र के मकान तक			
		10 म. नं. 36 से म. नं. अन्त तक रामेश्वर/बुद्ध से गजराज सिंह/बाबूलाल के मकान तक			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	नकवाड़ा	1 नकवाड़ा	म. नं. 1 से म. नं. 17	अ. जा.	2
		2	गजराज/रामेश्वर से सोनाबाई/बाबूलाल के मकान तक	अ. ज. जा.	1
		3	म. नं. 19 से म. नं. 33 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	रामकृष्ण/जगन्नाथ से महेश/रामप्रसाद के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		5	म. नं. 34 से म. नं. 55 तक	महिला अ. ज. जा.	1
		6	यशोदाबाई/अनोखीलाल से कमलाबाई/शंकरसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म. नं. 56 से म. नं. 79	महिला अन्य	1
		8	भोलाराम/मांगीलाल से रामदास/घासीराम के मकान तक		
		9	म. नं. 80 से म. नं. 102 तक		
		10	घासीराम/जगत से गेदालाल से मोतीराम के मकान तक		
			म. नं. 103 से म. नं. 122 तक		
			बद्रीप्रसाद/रामप्रसाद से शोभाराम/लल्लू के मकान तक		
			म. नं. 123 से म. नं. 140		
			लक्ष्मीबाई/मोतीराम से सुरेशचंद्र/रामगोपाल के मकान तक		
			म. नं. 142 से म. नं. 155		
			भागीरथ/ताराचंद्र से रामभरोस/रामेश्वर के मकान तक		
			म. नं. 156 से म. नं. 177		
			रंभा/रामेश्वर से मांगीलाल/रामेश्वर के मकान तक		
			म. नं. 178 से अंत		
			रामभरोस/जगन्नाथ से मोतीराम/मुकुंद के मकान तक.		
62	कनारदा	1 कनारदा	म. नं. 2 से म. नं. 19 तक	अ. जा.	5
		2	सावित्री/शंकरलाल से रामभरोस/रामेश्वर के मकान तक	अ. ज. जा.	2
		3	म. नं. 23 से म. नं. 40 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	हरीप्रसाद/शिवप्रसाद से सुशीला /सुखराम के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		5	म. नं. 41 से म. नं. 53 तक	महिला अ. ज. जा.	1
		6	पुन्ना बाई/तेजराम से लक्ष्मीबाई/गोरेलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म. नं. 54 से 71 तक	महिला अन्य	2
		8	नर्मदाप्रसाद/राजाराम से प्रभा/रामकृष्णा के मकान तक		
		9	म. नं. 72 से म. नं. 93 तक		
		10	मिश्रीलाल/चैतराम से प्रेमलता/शंकर के मकान तक		
		11	म. नं. 94 से म. नं. 107 तक		
			लक्ष्मी/मधु से श्रीराम/सीताराम के मकान तक		
			म. नं. 109 से म. नं. 132/1 तक		
			समोता/धनसिंह से रामभरोस/रामप्रसाद के मकान तक		
			म. नं. 132/2 से म. नं. 144 तक		
			बाबूलाल/रामप्रसाद से सत्यनारायण/मांगीलाल के मकान तक		
			म. नं. 145 से म. नं. 1 के मकान तक/2 तक		
			बद्रीप्रसाद/मांगीलाल से शांताबाई/राधेश्याम के मकान तक		
			म. नं. 156 से म. नं. 169/2 तक		
			हरगोविन्द/कन्हैयालाल से ओमप्रकाश/फूलचंद्र के मकान तक		
			म. नं. 169/2 से म. नं. अन्त तक		
			नारायण/फूलचंद्र से राधू/भैयालाल के मकान तक		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कनारदा	12 खारपा	म. नं. 1/1 से म. नं. 68 तक रणछोड़/हरपाल से चम्पालाल/घुडया के मकान तक		
		13	म. नं. 17 से म. नं. 28/2 तक कमला/हरिदास से शिवनारायण/तुलाराम के मकान तक		
		14	म. नं. 29 से म. नं. 39 तक प्रहलाद/मोतीराम से अमरसिंह/पेमाजी के मकान तक		
		15	म. नं. 40क से म.नं. अन्त तक नरेश/मुंशी से श्रीराम/मोतीराम के मकान तक		
63	केलनपुर	1 केलनपुर	म. नं. 3 से म. नं. 28 ख तक सुरेश/चैनसिंग से आरूश बाइ/बद्रीप्रसाद के मकान तक	अ. जा.	3
		2	म. नं. 29 से म. नं. 60 तक महेन्द्र/हीरालाल से आनन्द/सीताराम के मकान तक	अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	0 3
		3	म. नं. 62 से म. नं. 88 तक अमराबाई/घासीराम से सत्यनारायण/रामप्रसाद के मकान तक	महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा.	2 0
		4	म. नं. 90 से म. नं. 117 तक हीप्रसाद/गोरेलाल से अभिषेक के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अन्य	2 1
		5	म. नं. 117क से म. नं. 135क तक मनोहर/रंगलाल से रिंकी बाई/राजेश के मकान तक		
		6	म. नं. 136क से म. नं. 155 तक मांगीलाल/बाबूलाल से साबित्रीबाई के मकान तक		
		7	म. नं. 156 से म. नं. 174 तक श्रीराम/दयाराम से मनीषा/सुनील के मकान तक		
		8	म. नं. 175 से म. नं. 208 तक अनिल/अनवर से हेमा/कमलेश के मकान तक		
		9	म. नं. 208क से म. नं. अन्त तक केदारसिंग/रामेश्वर से पदमसिंग/जयसिंह के मकान तक		
		10 पहतगांव	म. नं. 1 से म. नं. अन्त तक कुसुमबाई/गंगाविशन से अखिलेश/मोहनलाल के मकान तक		
64	साल्याखेडी	1 साल्याखेडी	म. नं. 1 से म. नं. 6 तक केसरी कीर से रेले/बूधा के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	3 10
		2	म. नं. 7 से म. नं. 14 क तक मलिता से रमेश सीकदार के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 2
		3	म. नं. 15 से म. नं. 28क तक सुनिल से शंकर/मिठठू के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	5 0
		4	म. नं. 29 से म. नं. 42 क तक भालसिंह के बदाम/शिवलाल के मकान तक	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 43 से म. नं. अन्त तक बनारसी अधार से राधेश्याम के मकान तक		
		6 चीराखान	म. नं. 1 से म. नं. 12/2 तक रामजीवन से बुद्ध बालाराम के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	साल्याखेड़ी	7 चीराखान	म. नं. 12/3 से म. नं. 22/2 तक भूरा/बालाराम से देऊ श्यामाल के मकान तक		
		8	म. नं. 23 से म. नं. 36/2 में बेनी/श्यामलाल से मोहन/रतन के मकान तक		
		9	म. नं. 37 से म. नं. 48ख तक पन्ना/रामा से राधेश्याम /देवकरण के मकान तक		
		10	म. नं. 49 से म. नं. 63 तक इन्दर/नैनसिंह से श्याम/जलाल के मकान तक		
		11	म. नं. 64 से म. नं. 77 तक जगदीश/गुलाब से गंगा/बरजोर के मकान तक		
		12	म. नं. 78 से म.नं. अन्त तक मदन मुरत से बलबीर के मकान तक		
		13 जोगाकलां	म. नं. 1 से 11 तक काऊ/किशोर से बुधिया/हीरलाल के मकान तक		
		14	म. नं. 12 से म. नं. 24 तक मोहन/देवा से समु/बिहारी के मकान तक		
		15	म. नं. 25 से म. नं. अन्त तक बुस/शिवलाल से शंकर आधार के मकान तक		
		16 उडाल	म. नं. 1 से म. नं. 13 तक राधेश्याम/लखन से साबू मोहन के मकान तक		
		17	म. नं. 13 क से म. नं. अन्त तक भूरेलाल/देवकरण से मंशाराम के मकान तक		
		18 रामपुरा एवं थाना वीरान.	म. नं. 1 से अन्त म. नं. तक गोविन्द से गोकुल मांगीलाल के मकान तक		
65	करनपुरा	1 करनपुरा	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक जगदीश से इबदल सिंग के मकान तक	अ. जा.	1
		2	म. नं. 15 से म. नं. 26ख तक जशोदा से मंजूबाई के मकान तक	अ. ज. जा.	7
		3	म. नं. 28क से म. नं. 49 तक मिश्री सुशीला बाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म. नं. 50 से म. नं. 62 क तक मांगीबाई से सुखराम के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		5	म. नं. 63 से म. नं. 74 तक कोदर से बसंती के मकान तक	महिला अ. ज. जा.	4
		6	म. नं. 75 से म. नं. 98 तक मानक से चांदनी के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	म. नं. 99 से म. नं. 133 तक सीताबाई से सुनील के मकान तक	महिला अन्य	0
		8 सेनगुड एवं	म. नं. 1 से म. नं. 15ख तक जितेन्द्र से शांती के मकान तक		
		9 सेनगुडदमामी	म. नं. 16 से म. नं. 30 तक रघुनाथ से ओमप्रकाश के मकान तक		
		10	म. नं. 31 से म. नं. अन्त तक हरीप्रसाद के रमेश के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
66	पांचातलाई	1	पांचातलाई	म. नं. 2 से म. नं. 16 तक	अ. जा.	1
				चैनसिंग/कुंजीलाल से लोकेश/भगताराम के मकान तक	अ. ज. जा.	13
		2		म. नं. 17 से म. नं. 26 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				गायत्री/बाबूलाल से वर्षा/घासीराम के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3		म. नं. 26/1 से म. नं. 40 तक	महिला अ. ज. जा.	7
				मोजीराम/रेवाराम से समोता/केवलराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4		म. नं. 41 से म. नं. 52 तक	महिला अन्य	1
				शोभा/बाबूलाल से माया/पंकच के मकान तक		
		5		म. नं. 53 से म. नं. 62 तक		
				परमानन/रामलाल से मन्नु/महेश के मकान तक		
		6		म. नं. 62/1 से म. नं. अन्त तक		
				अंगूरीबाई/उमेद सिंग से ज्योति/शेरसिंग के मकान तक		
		7	डोमरीखुर्द	म. नं. 1 से म. नं. अन्त तक		
				दिनेश/बदाम सिंह से भागवती/रामदास के मकान तक		
		8	डोमरीकलां	म. नं. 1 से म. नं. 14 तक		
				अनोखीलाल/रामेश्वर से चन्दू/खुमानसिंग के मकान तक		
		9		म. नं. 15 से म. नं. 27 तक		
				अमर सिंग/धनसिंग से पुरुषोत्तम/लक्ष्मीनारायण के मकान तक		
10		म. नं. 28 से म. नं. अन्त तक				
		गावयत्री/जगन्नाथ से सोहनलाल/पेमाजी के मकान तक				
11	जामली दमामी	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक				
		अजबसिंग/किशोर से चमन/राकेश के मकान तक				
12		म. नं. 16ख से म. नं. 27 तक				
		गुलाब/बिहारी से शारदा/गोविंद के मकान तक				
13		म. नं. 28 से म. नं. 47 तक				
		प्यारसिंग/कुंजी से लीला/शैतान के मकान तक				
14		म. नं. 48 से म. नं. अन्त तक				
		रामबाई/गेंगालाल से बृजेश/रमेश के मकान तक				
15	पीपलघटा	म. नं. 1 से 16 तक				
		कचरू/रामरतन से संगीता/सूरज के मकान तक				
16		म. नं. 18 से म. नं. 30 तक				
		भीका/शंकरलाल से हीतेश/बसंत के मकान तक				
17		म. नं. 35 से म. नं. 47 तक				
		लीला/भीका से सदासुख/प्यारसिंग के मकान तक				
18		म. नं. 47/1 से म. नं. अन्त तक				
		रामकृष्ण/संदर से अर्जुन/किशनलाल के मकान तक				
67	उवा	1	उवा	म. नं. 1 से म. नं. 16 तक	अ. जा.	3
				रनूरतन से बालाराम/जगन्नाथ के मकान तक	अ. ज. जा.	8
		2		म. नं. 12 से म. नं. 23 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				नबाब अली/मंगूशाह से संगीता/तुलसीराम के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3		म. नं. 23/1 से म. नं. 35 तक	महिला अ. ज. जा.	4
		जगदीश/शंकरदास से ज्योति/मुकेश के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0		
4		म. नं. 36 से म. नं. 50 तक	महिला अन्य	2		
		झुमा/अमरसिंग से दिनेश/नैनसिंह के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5 उवा	म. नं. 50/1 से म. नं. 66 तक	जगराज सिंह/दशरथ सिंह से भुपेन्द्र/वंशीलाल के मकान तक		
	6	म. नं. 67 से म. नं. 84 तक	नानी/जलाल से सुगना/शिवराम के मकान तक		
	7	म. नं. 84/1 से म. नं. 104 तक	अमरदास/प्रहलाद से संजय/रमेश के मकान तक		
	8	म. नं. 105 से म. नं. 119 तक	बलदेव/मिश्रीलाल से रामजीवन/किशनलाल के मकान तक		
	9	म. नं. 120 से म. नं. 146/2 तक	गुलाब/रामभरोस से चिता/सीताराम के मकान तक		
	10	म. नं. 146/3 से म. नं. 762/6 तक	भागीरथ/मंगलसिंह से रेखा/रामभरोस के मकान तक		
	11 खरदना	म. नं. 1 से म. नं. 24 तक	प्रेम/शिवराम से धमेन्द्र/हेमराज के मकान तक		
	12	म. नं. 25 से म. नं. 45 तक	कैलाश/सुन्दरलाल सेपवन/बलराम के मकान तक		
	13	म. नं. 45क से म. नं. 60 तक	रितुबाई/मंशाराम से दिनेश/सोमचंद के मकान तक		
	14	म. नं. 61 से म. नं. 79 तक	चम्पालाल/माजीराम से ममता/मुकेश के मकान तक		
	15	म. नं. 81क से म. नं. 135 तक	भूरेलाल/सुखदेव से लता बाई/राकेश के मकान तक		
68	पंचौला	1 पंचौला	म. नं. 1 से 16 तक	अ. जा.	4
			जयकिशन से बसकर/विनोद के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2	म. नं. 17 से म. नं. 22 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
			सुन्दरलाल से अनिल/रामदास के मकान तक	महिला अ. जा.	2
		3	म. नं. 26 से म. नं. 39 तक	महिला अ. ज. जा.	2
			घनश्याम से सारूबाई/अमर सिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	म. नं. 40 से म. नं. 55 तक	महिला सामान्य	1
			देवकीबाई से लोमस कुमार के मकान तक		
		5	म. नं. 56 से म. नं. 75 तक		
			गीताबाई से विकास/जगदीश के मकान तक		
		6	म. नं. 76 से म. नं. 90 तक		
			तुलसीराम से संजू बाई/चम्पालाल के मकान तक		
		7	म. नं. 91 से म. नं. 102 तक		
			गंगाविशन से रनु/सोहनलाल के मकान तक		
		8	म. नं. 103 से म. नं. 113 तक		
			किशनलाल से राजवंती/कमलसिंह के मकान तक		
		9	म. नं. 114 से म. नं. 145 तक		
			गोरेलाल से दुर्गालाल/रेवाराम के मकान तक		
		10	म. नं. 145/1 से म. नं. अन्त तक		
			मन्जू बाई से इकबाल/नसरुद्दीन के मकान तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
69	बेसवाउबारी	1	बेसवाउबारी	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक	अ. जा.	2
				जगदीश/बद्रीप्रसाद से सावित्री/चम्पा के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2		म. नं. 13 से म. नं. 25 क तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				रामसिंग/फूलसिंग से सुनिता/रामनाथ के मकान तक	महिला अ. जा.	1
		3		म. नं. 26 से म. नं. 32क तक	महिला अ. ज. जा.	2
				रामेश्वर /घासीराम से वसकला/राजेश के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		4		म. नं. 33 से म. नं. अन्त तक	महिला अन्य	0
				नभू/भिका से रामबिलास/रामशंकर के मकान तक		
		5	चौकी	म. नं. 1 से म. नं. 15 तक		
				चन्दा/बालाराम से बृज/कैलाश के मकान तक		
6		म. नं. 16/2 से म. नं. 29/1 तक				
		लक्ष्मीनारायण/रामलाल से रेखा/पूनम के मकान तक				
7		म. नं. 29/2 से म. नं. अन्त तक				
		देवलाल/सुखराम से गेंदालाल/घुडन के मकान तक				
8	मालपोन	म. नं. 1 से म. नं. 16/2 तक				
		मीरा/भागीरथ से निशा/नन्दकिशोर के मकान तक				
9		म. नं. 18 से म. नं. 34 घ तक				
		रामहेत/खुशहाल से सुआ/नर्मदाप्रसाद के मकान तक				
10		म. नं. 34ङ से म. नं. अंत तक				
		कन्हैयालाल/ख्यालीराम से रवीन्द्र/राधेश्याम के मकान तक				
70	बागरूल	1	बागरूल	म. नं. 1/2 से म. नं. 22 तक	अ. जा.	5
				यशवंत/शिवदानसिंह से रेनुका/रावत के मकान तक	अ. ज. जा.	3
		2		म. नं. 23 से म. नं. 40 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				गजराज सिंह/उमराव से शोभाराम/उमराव के मकान तक	महिला अ. जा.	3
		3		म. नं. 41 से म.नं. 58 तक	महिला अ. ज. जा.	2
				रामनिवास/देवा से अनिता/रामौतार के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4		म. नं. 58/1 से म. नं. 67/2 तक	महिला अन्य	2
				इकवालखां/रूबाबखां से ज्योति/मुकेश के मकान तक		
		5		म. नं. 68 से म. नं. 79 तक		
				रामकली/सालकराम से लक्ष्मण/धनराज के मकान तक		
		6		म. नं. 79/1 से म. नं. 95 तक		
		किरण/गोपालराव से जेवन्ती/बंदा के मकान तक				
7		म. नं. 96 से म. नं. 114 तक				
		मोतीराम/पांडू से शांता/लक्ष्मण के मकान तक				
8		म. नं. 115 से म. नं. 131 तक				
		मंगल/विठल से गीता/इमरत के मकान तक				
9		म. नं. 132 से म. नं. 142 तक				
		रामगोपाल/नत्थू से इकराम/इशाक खां के मकान तक				
10	कुसिया	म. नं. 1 से म. नं. 26 तक				
		श्रीकिशन/भीरूलाल से दीयाबाई/रामनिवास के मकान तक				
11		म. नं. 27 से म. नं. 40 तक				
		मांगीलाल/देवीराम से मंजू/सत्यानारायण के मकान तक				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12	म. नं. 41 से म. नं. 56/1 तक रमेश/प्रताप से सुनील/रामप्रसाद के मकान तक		
		13	म. नं. 57 से म. नं. 324/1 तक नर्मदाप्रसाद/सीताराम से अनुसयाबाई के मकान तक		
71	सुरजना	1	सुरजना म. नं. 1 से 15/2 तक लीला/रामधर से भगताराम/मानसिंह के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	1 1
		2	म. नं. 16 से म. नं. 26 तक काशीराम/कुंजीलाल से संगीता/सुनील के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	3 1
		3	म. नं. 27 से म. नं. 37/4 तक अनोखीलाल/कुंजीलाल से अनिल/रेवाराम के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 2
		4	म. नं. 38 से म. नं. 45 तक ओमप्रकाश/पन्नालाल से सविता/महेश के मकान तक	महिला अन्य	2
		5	म. नं. 46 से म. नं. 60 तक धापू/पन्नालाल से छमा/शंकर के मकान तक		
	मनोहरपुरा	6	म. नं. 1 से 7/2 तक सीता/पन्नालाल से अनिल/भागीरथ के मकान तक		
		7	म. नं. 8 से म. नं. 16 तक जगदीश रामचरण से ओमवती/संतोष के मकान तक		
		8	म. नं. 17 से म. नं. 23 तक किशनलाल/हीरालाल से गजानंद/टंटू के मकान तक		
	अजनई	9	म. नं. 1 से म. नं. 15/2 तक बानू/रामप्रसाद से ज्योति/आनन्द के मकान तक		
		10	म. नं. 16 से म. नं. 32 तक इन्दर/मोतीलाल से जमनादास/रामगोपाल के मकान तक		
	बमनई	11	म. नं. से म. नं. 74 तक बाबूलाल/भुजराम से कमल/अनोखीलाल के मकान तक		
72	झालवा	1	झालवा म. नं. 1 से म. नं. 15 तक गेंदालाल से सुनीता के मकान तक	अ. जा. अ. ज. जा.	2 5
		2	म. नं. 16 से म. नं. 28 तक रामगोपाल से पपीता के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा.	0 1
		3	म. नं. 29 से म. नं. 42 तक घुडया से बनवारी के मकान तक	महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3 0
		4	म. नं. 44 से म. नं. 60 तक भागीरथ से रीवा के मकान तक	महिला अन्य	1
		5	म. नं. 61 से म. नं. 71 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			कैलाश से बनवारी के मकान तक		
	6		म. नं. 73 से म. नं. 86 तक		
			धनुबाई से प्यारेलाल के मकान तक		
	7		म. नं. 87 से म. नं. 96 तक		
			सीता से शीतलदास के मकान तक		
	8		म. नं. 96/1 से म. नं. 110 तक		
			कलाबाई से लीलाबाई के मकान तक		
	9		म. नं. 111 से म. नं. 126 तक		
			अनवर से बसकर के मकान तक		
	10		म. नं. 127 से म. नं. अन्त तक		
			जंगली से शांताबाई के मकान तक		
73	काकडदा	1	काकडदा	म. नं. 1 से म. नं. 12 तक	अ. जा. 0
			लक्ष्मण सिंह से सेवकराम के मकान तक		अ. ज. जा. 9
		2	म. नं. 13 से म. नं. 27 तक		अन्य पिछड़ा वर्ग 0
			गुलाब से मिश्रीलाल के मकान तक		महिला अ. जा. 0
		3	म. नं. 28 से म. नं. 41 तक		महिला अ. ज. जा. 5
			रामप्यारीबाई से रामदयाल के मकान तक		महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 0
		4	म. नं. 42 से म. नं. 57 तक		महिला अन्य 0
			जीवन से विजय के मकान तक		
		5	म. नं. 57ख से म. नं. 74 तक		
			मालक सिंह से रविशंकर के मकान तक		
		6	म. नं. 76 से म. नं. 92 तक-		
			रामचरण से विनोद के मकान तक		
		7	म. नं. 92 से म. नं. अन्त तक		
			मंगीबाई से मांगीलाल के मकान तक		
		8	भैसवाड़ा	म. नं. 1 से म. नं. अन्त तक	
			रामकरण से प्रमीला के मकान तक		
		9	भरतार	म. नं. 2 से म. नं. अन्त तक	
			वन सिंग से सीला बाई के मकान तक		
		10	जोगाखुर्द	म. नं. 1 से म. नं. अंत तक	
			राधेश्याम से दुजा बाई के मकान तक		
			महेन्द्रगांव	विस्थापित	
			दुर्जनपुरा	विस्थापित	

## कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-5(अ)

मन्दासौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 2678—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-(2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

## सारणी

## जनपद पंचायत, भानपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
1	कंवला	1	कंवला	1 से 21 तक	अ. जा.	1	
		2		22 से 39 तक	अ. ज. जा.	-	
		3		40 से 60 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	
		4		61 से 78 तक	महिला अ. जा.	-	
		5		79 से 95 तक	महिला अ. ज. जा.	-	
		6		96 से 116 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3	
		7		117 से 132 तक	महिला सामान्य	7	
		8		133 से 151 तक			
		9		152 से 167 तक			
		10		168 से 184 तक			
		11		185 से 204 तक			
		12		205 से 225 तक			
		13		226 से 244 तक			
		14		245 से 258 तक			
		15	बोरातलाई		1 से 300 तक		
		16	दुधली मंगू नायक का डेरा		1 से 8 तक व 1 से 18 तक		
		17	ढाकणी ढोर लालगंज		1 से 15 तक व 1 से 20 तक		
		18	बावड़ीखेड़ा		1 से 16 तक		
		19	आनंदपुरा		1 से 36 तक		
		20	भीलखेड़ी		1 से 30 तक		
1	सुजानपुरा	1	सुजानपुरा	1 से 56 तक	अ. जा.	1	
		2		57 से 109 तक	अ. ज. जा.	1	
		3		111 से 165 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	
		4		167 से 205 तक	महिला अ. जा.	-	
		5		210 से 269 तक	महिला अ. ज. जा.	-	
		6		272 से 643 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2	
		7	पिपल्दा		3 से 24 तक	महिला सामान्य	4
		8		25 से 43 तक			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुजानपुरा	9	पिपल्दा	44 से 64 तक		
	10		67 से 89 तक		
	11		90 से 111 तक		
	12		112 से 129 तक		
	13		130 से 165 तक		
अन्त्रालिया	1	अन्त्रालिया	8 से 24 तक	अ. जा.	7
	2		25 से 51 तक	अ. ज. जा.	-
	3		52 से 75 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		76 से 102 तक	महिला अ. जा.	4
	5		104 से 131 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		133 से 157 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		158 से 181 तक	महिला सामान्य	4
	8		185 से 204 तक		
	9		206 से 222 तक		
	10		224 से 259 तक		
	11	मजरा गोवर्धनपुरा	1 से 46 तक		
	12	हरिपुर, मोतीपुरा मजरा, अमरपुरा	1 से 13 तक व 1 से 15 व 1 से 8 तक		
	13	बम्बोरी	1 से 43 तक		
	14	गणेशपुरा	2 से 17 तक		
	15		17क से 33 तक		
	16		34 से 46 तक		
	17		46क से 61 तक		
	18		62 से 87 ख तक		
	19		88 से 119 तक		
	20	बाग का खेड़ा	1 से 92 तक		
अरन्याभाऊ	1	अरन्याभाऊ	1 से 15 तक	अ. जा.	2
	2		16 से 34 तक	अ. ज. जा.	-
	3		35 से 56ख तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		56ग से 73 तक	महिला अ. जा.	1
	5		76 से 90 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6	कातरा का डेरा	1 से 24 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		25 से 48 तक	महिला सामान्य	3
	8	दीपा का डेरा	2 से 31 तक		
	9	हनुमान खेडा	2 से 13 तक		
	10		147 से 29 तक		
	11	महुडिया	3 से 17 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुरिया	1	रायपुरिया	1 से 30 तक	अ. जा.	4
	2		31 से 69 तक	अ. ज. जा.	-
	3		70 से 92 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		93 से 114 तक	महिला अ. जा.	2
	5		115 से 147 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6	रायपुरिया कुडी	1 से 18 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		19 से 34 तक	महिला सामान्य	2
	8	कराडिया मोडी	1 से 13 तक		
	9		14 से 26 तक		
	10		27 से 44 तक		
	11	मालीपुरा भुवानीपुरा	1 से 16 व 1 से 12 तक		
दुधाखेड़ी	1	दुधाखेड़ी	1 से 25 तक	अ. जा.	2
	2		27 से 56 तक	अ. ज. जा.	-
	3		57 से 78 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		83 से 99 तक	महिला अ. जा.	1
	5		100 से 130 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		132 से 147 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		148 से 166 तक	महिला सामान्य	4
	8		167 से 190 तक		
	9		191 से 211 तक		
	10		214 से 237 तक		
	11		238 से 265 तक		
	12		265क से 299 तक		
ढाबला मनोहर	1	ढाबला मनोहर	1 से 10 तक	अ. जा.	1
	2		11 से 20 तक	अ. ज. जा.	-
	3		21 से 28 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		29 से 39 तक	महिला अ. जा.	-
	5		40 से 78 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		49 से 64 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		65 से 76 तक	महिला सामान्य	3
	8		77 से 107 तक		
	9	मानपुरिया बुजुर्ग	1 से 24 तक		
	10		25 से 49 तक		
कुंतलखेड़ी	1	कुंतलखेड़ी	1 से 15 तक	अ. जा.	1
	2		16 से 44 तक	अ. ज. जा.	-
	3		46 से 65क तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		66 से 87 तक	महिला अ. जा.	-
	5		87क से 113 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		114 से 132 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		133 से 149 तक	महिला सामान्य	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कुंतलखेड़ी	8	कुंतलखेड़ी	150 से 174 तक		
	9		175 से 205 तक		
	10		106 से 220 तक		
	11	बुद्धनपुर	1 से 12 तक		
	12		16 से 24 तक		
	13		25 से 35 तक		
	14		36 से 57 तक		
	15		58 से 81 तक		
16	82 से 98 तक				
परोनिया	1	परोनिया	1 से 24 तक	अ. जा.	2
	2		26 से 41 तक	अ. ज. जा.	-
	3		42 से 57 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		58 से 69 तक	महिला अ. जा.	1
	5		70 से 85 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		86 से 105 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		107 से 128 तक	महिला सामान्य	3
	8		129 से 154 तक		
	9		155 से 187 तक		
	10		188 से 213 तक		
	11		215 से 248 तक		
सांतलखेड़ी	1	सांतलखेड़ी	4घ से 9क तक	अ. जा.	2
	2		10 से 30 तक	अ. ज. जा.	-
	3		31 से 41 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		42 से 51क तक	महिला अ. जा.	1
	5		52 से 70 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		70क से 86 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		87 से 101 तक	महिला सामान्य	3
	8		102 से 116 तक		
	9		117 से 129 तक		
	10		130 से 139ख तक		
	11		140 से 155 तक		
हरनावदा	1	हरनावदा	1 से 15 तक	अ. जा.	2
	2		16 से 19 तक	अ. ज. जा.	-
	3		27 से 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		40 से 51 तक	महिला अ. जा.	1
	5		54 से 72 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6	खेरखेड़ी	1 से 10 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		11 से 27 तक	महिला सामान्य	6
	8		27 से 40 तक		
	9		41 से 62 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरनावदा	10	खेरखेड़ी	63 से 87 तक		
	11		89 से 106 तक		
	12	रेहटडी	2 से 23 तक		
	13		25 से 35 तक		
	14		36 से 46 तक		
	15		48 से 62 तक		
	16		83 से 68 तक		
	17		78 से 91 तक		
कुकड़ेश्वरा	1	कुकड़ेश्वरा	1 से 15 तक	अ. जा.	1
	2		16 से 34 तक	अ. ज. जा.	-
	3		37 से 52 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		56 से 78 तक	महिला अ. जा.	-
	5		79 से 94 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		95 से 111 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		113 से 134 तक	महिला सामान्य	5
	8		135 से 156 तक		
	9		158 से 173 तक		
	10		175 से 186 तक		
	11		187 से 207 तक		
	12	पिपल्या	1 से 14 तक		
	13	कराडिया	1 से 15 तक		
	14	हरिपुरा मजरा	1 से 17 तक		
	15	मालीपुरा	1 से 20 तक व 1 से 11 तक		
1 मिठ्ठनखेड़ी	1	मिठ्ठनखेड़ी	2 से 19 तक	अ. जा.	1
	2		20 से 34 तक	अ. ज. जा.	-
	3		34क से 55क तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		55 ख से 76 तक	महिला अ. जा.	-
	5		77 से 96 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		97 से 124 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7	रातागुराडिया	1 से 18 क तक	महिला सामान्य	4
	8		20 से 40क तक		
	9		41 से 59 तक		
	10		60 से 82 तक		
	11		83 से 99 तक		
	12		99क से 118 तक		
टुगनी	1	टुगनी	1 से 17 तक	अ. जा.	4
	2		18 से 30 तक	अ. ज. जा.	-
	3		31 से 51 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		53 से 226 तक	महिला अ. जा.	2
	5		75 से 96 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		97 से 116 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		117 से 142 तक	महिला सामान्य	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		8	तोरन्या	1 से 13 तक		
		9		14 से 31 क तक		
		10	नाहरगढ़	4 से 16 तक		
		11		17 से 57 तक		
		12		58 से 107क तक		
बाबुल्दा		1	बाबुल्दा	1 से 113 ख तक	अ. जा.	5
		2		115 से 166 तक	अ. ज. जा.	-
		3		168 से 235 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		236 से 265 तक	महिला अ. जा.	3
		5		266 से 310क तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6		312 से 341क तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7		344 से 370 तक	महिला सामान्य	5
		8		372 से 419 तक		
		9		421 से 442 तक		
		10		444 से 475 तक		
		11		476 से 499 तक		
		12		500 से 545 तक		
		13		546 से 573 तक		
		14		574 से 599 तक		
		15		600 से 632 तक		
		16		634 से 650 तक		
		17	बाबुल्दा धौरा	652 से 697 तक व 1 से 4		
		18		5 से 57 तक		
		19	धौरा फारिया	58 से 69 व 1 से 26 तक		
		20	धौरा फारिया टेकरी व कुडी बाबुल्दा.	27 से 37 व 1 से 8, व 1 से 32 तक		
अरन्याचारण		1	अरन्याचारण	1 से 22 तक	अ. जा.	1
		2		23 से 39 तक	अ. ज. जा.	-
		3	नई आबादी का डेरा	1 से 27 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	सुनारी	1 से 9 तक	महिला अ. जा.	-
		5		9क से 28 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6	कावली	1 से 16 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7		17 से 24 तक	महिला सामान्य	4
		8		25 से 44 तक		
		9		46 से 75 तक		
		10		76 से 98 तक		
		11	मजरा खेड़ा	1 से 16 तक		
		12		17 से 36 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सांदलपुर	1	सांदलपुर	1 से 3 तक	अ. जा.	3
	2		4 से 27 तक	अ. ज. जा.	-
	3		31 से 63 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
	4		65 से 85 तक	महिला अ. जा.	2
	5		85क से 108 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		109 से 131क तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		133 से 157 तक	महिला सामान्य	5
	8		159 से 189 तक		
	9		190 से 222 तक		
	10		223 से 246 तक		
	11		247 से 268 तक		
	12		269 से 286क तक		
	13		286 से 303 तक		
	14		304 से 323 तक		
	15		324 से 341 तक		
	16		341क से 360 तक		
	17		361 से 386 तक		
	18		387 से 411 तक		
	19	बरखेड़ी	1 से 16 तक		
	20		17 से 41 तक		
लोटखेड़ी	1	लोटखेड़ी	1 से 28 तक	अ. जा.	1
	2		29 से 60 तक	अ. ज. जा.	-
	3		62 से 79 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		80 से 117 तक	महिला अ. जा.	-
	5		120 से 147 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		149क से 175 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		177 से 211 तक	महिला सामान्य	7
	8		212 से 248 तक		
	9		250 से 281 तक		
	10		282 से 275 व 137 तक		
	11		318 से 351 तक		
	12		352 से 483 तक		
	13		484 से 406 तक		
	14		407 से 446 तक		
	15		447 से 523 तक		
	16		524 से 567 तक		
	17		568 से 620 तक		
	18		621 से 646 तक		
	19		647 से 825 तक		
	20	लोटखेड़ी मजरा मोडी	1 से 28 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खजुरना	1	खजूरना	1 से 11 तक	अ. जा.	2
	2		14 से 28 तक	अ. ज. जा.	2
	3		29 से 44 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		45 से 63 तक	महिला अ. जा.	1
	5	कल्याणपुरा	1 से 8 तक	महिला अ. ज. जा.	1
	6		10 से 21 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		24 से 43 तक	महिला सामान्य	1
	8	बंजारो का खेड़ा	1 से 11 तक		
	9		13 से 25 तक		
	10	भरत्याखेड़ी	2 से 20 तक		
बड़ोदिया	1	बड़ोदिया	1 से 26 तक	अ. जा.	-
	2		27 से 56 तक	अ. ज. जा.	4
	3		57 से 77 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		78 से 88 तक	महिला अ. जा.	-
	5		89 से 111 तक	महिला अ. ज. जा.	2
	6		112 से 131 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		132 से 155 तक	महिला सामान्य	1
	8	धामनिया	1 से 17 तक		
	9		18 से 45 तक		
	10		50 से 69 तक		
नावली	1	नावली	1 से 51 तक	अ. जा.	4
	2		52 से 87 तक	अ. ज. जा.	2
	3		88 से 136 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		139 से 187 तक	महिला अ. जा.	2
	5		188 से 233 तक	महिला अ. ज. जा.	1
	6		236 से 270 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		271 से 309 तक	महिला सामान्य	4
	8		312 से 334 तक		
	9		336 से 454 तक		
	10	देवनगर	5/8 से 417 तक		
	11		418 से 460 तक		
	12		463 से 509 तक		
	13		510 से 588 तक		
	14		560 से 607 तक		
	15		608 से 666 तक		
	16		671 से 697 तक		
	17	श्रीनगर	1 से 41 तक		
	18		42 से 107 तक		
	19		108 से 182 तक		
	20	गंगानगर	1 से 158 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रेमपुरिया	1	प्रेमपुरिया	1 से 16/2 तक	अ. जा.	2
	2		16अ से 29 तक	अ. ज. जा.	3
	3		29/1 से 48 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	4		49 से 71 तक	महिला अ. जा.	1
	5		72 से 95 तक	महिला अ. ज. जा.	2
	6		96 से 112 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	7		113 से 128 तक	महिला सामान्य	2
	8		129 से 149 तक		
	9		150 से 168 तक		
	10		169 से 195 तक		
धावदबुजुर्ग	1	धावदबुजुर्ग	1 से 20 तक	अ. जा.	-
	2		21 से 37 तक	अ. ज. जा.	8
	3		40 से 58 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		60 से 76 तक	महिला अ. जा.	-
	5		77 से 96 तक	महिला अ. ज. जा.	4
	6		96क से 113 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		114 से 140 तक	महिला सामान्य	4
	8		141 से 231 तक		
	9	बगचांच	158 से 194 तक		
	10		198 से 227 तक		
	11		228 से 231 तक		
	12	धागा	3 से 30 तक		
	13		30क से 41 तक		
	14		41क से 45 ग तक		
	15	सांवतकोटडी	1 से 3ख तक		
	16		4 से 21 तक		
	17		22 से 36 तक		
	18		38 से 48 तक		
	19		49 से 57 तक		
	20		58 से 98 तक		
कोटडीटैंक	1	कोटडीटैंक	1 से 21 तक	अ. जा.	1
	2		22 से 42 तक	अ. ज. जा.	-
	3		43 से 67 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		68 से 101 तक	महिला अ. जा.	-
	5	थगी	1 से 21 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		22 से 37 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		38 से 46 तक	महिला सामान्य	3
	8	कातना	1 से 24 तक		
	9		25 से 38 तक		
	10		39 से 100 तक		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
केथूली	1	कैथुली	1 से 29 तक	अ. जा.	4
	2		31 से 62 तक	अ. ज. जा.	5
	3		63 से 118 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		119 से 140 तक	महिला अ. जा.	2
	5		147 से 184 तक	महिला अ. ज. जा.	3
	6		187 से 224 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7	गुलाबनगर	225 से 260 तक	महिला सामान्य	3
	8		261 से 290 तक		
	9		291 से 300 तक		
	10		302 से 331 तक		
	11	भीमपुरा	332 से 379 तक		
	12		380 से 422 तक		
	13		423 से 474 तक		
	14		477 से 524 तक		
	15	भगवानपुरा	525 से 570 तक		
	16		572 से 610 तक		
	17	हरिगढ़	1 से 32 तक		
	18		33 से 63 तक		
	19		65 से 106 तक		
	20	दांतला	1 से 78 तक		
हमीरगढ़	1	हमीरगढ़	1 से 23 तक	अ. जा.	3
	2		25 से 47 तक	अ. ज. जा.	1
	3		48 से 72 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		73 से 93 तक	महिला अ. जा.	2
	5		95 से 106 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		108 से 151 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7	रलायता	1 से 5 तक	महिला सामान्य	3
	8		6 से 13 तक		
	9		14 से 21 तक		
	10		22 से 32 तक		
	11		33 से 58 तक		
	12		59 से 83 तक		
	13		84 से 100 तक		
	14	विठ्ठलपुरा	1 से 39 तक		
कैलाशपुर	1	कैलाशपुर	1 से 19 ख तक	अ. जा.	1
	2		20 से 46 तक	अ. ज. जा.	1
	3		47 से 69 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		69क से 88 तक	महिला अ. जा.	-
	5		89 से 12 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		113 से 130ख तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		131 से 144 तक	महिला सामान्य	3
	8		149 से 155 तक		
	9		157 से 183 तक		
	10		185 से 207 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ढाबला माधोसिंग	1	ढाबला माधोसिंग	1 से 37 तक	अ. जा.	7
	2		38 से 64 तक	अ. ज. जा.	1
	3		65 से 95 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		90 से 120 तक	महिला अ. जा.	4
	5		121 से 136 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		137 से 154 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		155 से 178 तक	महिला सामान्य	3
	8		179 से 202 तक		
	9		202 क से 223 तक		
	10		224 से 252 तक		
	11	कागल्याखेड़ी	1 से 29 तक		
	12		30 से 72 तक		
	13	रामतलाई	316 से 355 तक		
	14	केरियातलाई	356 से 618 तक		
	15		623 से 632/3 व 377 से 415 तक		
	16	छापरिया	417 से 474 तक		
	17	भग्गा का डेरा	475 से 605 तक		
	18		606 से 631 तक व 518 से 558 तक		
	19	नग्गा का डेरा	560 से 603 तक		
	20	हापसखेड़ी	633 से 704 तक		
संधारा	1	संधारा	1 से 64 तक	अ. जा.	3
	2		68 से 101 ग तक	अ. ज. जा.	1
	3		102क से 141 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		143 से 198 तक	महिला अ. जा.	2
	5		200 से 249 क तक	महिला अ. ज. जा.	0
	6		252क से 272ख तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		273 क से 326 तक	महिला सामान्य	5
	8		327 से 361 तक		
	9		362 से 400 तक		
	10		401 से 435 तक		
	11		436 से 466 तक		
	12		467 से 511 तक		
	13		512 से 553 तक		
	14		554 से 582 तक		
	15		583 से 609 तक		
	16		610 से 672 तक		
	17		673 से 717 तक		
	18		718 से 755 तक		
	19	संधारा बावडीखेड़ा	756 से 800 तक		
	20		802 से 856 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सानड़ा	1	सानड़ा	1 से 21 तक	अ. जा.	4
	2		22 से 39 तक	अ. ज. जा.	1
	3		41 से 68 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		68क से 92 तक	महिला अ. जा.	2
	5		93 से 123 तक	महिला अ. ज. जा.	0
	6		125 से 148 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		150 से 161 तक	महिला सामान्य	4
	8		163 से 189 तक		
	9		190 से 216 तक		
	10		217 से 248 तक		
	11		249 से 275 तक		
	12		276 से 295 तक		
	13		296 से 315 तक		
	14		316 से 354 तक		
	15	सानडा मजरा तारबर्डी	356 से 687 तक व 3 से 359 तक		
	16	आमझरी	2 से 18 तक		
	17		19 से 43 तक		
	18		43 से 54 तक		
कालाकोट	1	कालाकोट	1 से 29 तक	अ. जा.	2
	2		30 से 47 तक	अ. ज. जा.	2
	3		48 से 75 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		76 से 93 तक	महिला अ. जा.	1
	5		94 से 125 तक	महिला अ. ज. जा.	1
	6		126 से 152 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		153 से 169 तक	महिला सामान्य	4
	8		170 से 193 तक		
	9		194 से 207 तक		
	10		208 से 218 व 220 से 229 तक		
	11		230 से 251 तक		
	12		252 से 270 तक		
	13		271 से 293 तक		
	14	बीडगांव	1 से 19 तक		
	15		20 से 40 तक		
	16		41 से 65 तक		
गोवर्धनपुरा	1	गोवर्धनपुरा	1 से 29 तक	अ. जा.	2
	2		30 से 52 तक	अ. ज. जा.	-
	3		54 से 70 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		71 से 86 तक	महिला अ. जा.	1
	5		88 से 102 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		103 से 130 तक व 100 से -	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		69 से 198 तक	महिला सामान्य	4
	8	दुधली	136 से 145 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गोवर्धनपुरा	9	दुधली	147 से 160 तक		
	10		161 से 172 तक		
	11		173 से 184 तक		
	12		185 से 195 तक		
	13		1 से 16 तक		
	14	बड़ोदिया	18 से 46 तक		
	औसारा	1	औसारा	1 से 20 तक	अ. जा.
2			21 से 32 तक	अ. ज. जा.	-
3			32क से 49 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4			50 से 67क तक	महिला अ. जा.	2
5			68 से 82क तक	महिला अ. ज. जा.	-
6			82 से 91 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7			92 से 100 तक	महिला सामान्य	3
8			100क से 117क तक		
9			117क से 133 तक		
10			134 से 152क तक		
11			153 से 163 तक		
12			164 से 179 तक		
13			180 से 197 तक		
14			197क से 271 तक		
औसरना	1	औसरना	1 से 15 तक	अ. जा.	2
	2		16 से 29 तक	अ. ज. जा.	1
	3		30 से 44 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		45 से 67 तक	महिला अ. जा.	1
	5		68 से 83 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		83क से 99 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		100 से 141 तक	महिला सामान्य	4
	8	मौखमपुरा	1 से 21 तक		
	9		22 से 36 तक		
	10		37 से 50 तक		
	11		51 से 68 तक		
	12		69 से 131 तक		
	13	सम्मतखेड़ी	1 से 26 तक		
	14		27 से 46 तक		
	15		48 से 65 तक		
लेदीकलां	1	लेदीकला	1 से 22 तक	अ. जा.	2
	2		23 से 37 तक	अ. ज. जा.	-
	3		39 से 60 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
	4		61 से 82/2 तक	महिला अ. जा.	1
	5		84 से 100 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		103 से 124 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		125 से 142/2 तक	महिला सामान्य	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		8	लेदीकला	144 से 165 तक		
		9		165क से 181 तक		
		10		182 से 210 व 220 तक		
		11		211 से 222 तक		
		12		223 से 237 तक		
		13	लेदीखुर्द	1 से 27 तक		
		14		28 से 45 तक		
		15		46 से 68 तक		
		16		69 से 81 तक		
		17		82 से 105 तक		
नीमथुर		1	नीमथुर	1 से 21 तक	अ. जा.	3
		2		22 से 37 तक	अ. ज. जा.	-
		3		38 से 46 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4		48 से 61 तक	महिला अ. जा.	2
		5		62 से 84 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6		86 से 100 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7		101 से 122 तक	महिला सामान्य	4
		8		123 से 144क तक		
		9		145 से 164 तक		
		10		165 से 185 तक		
		11		186 से 200 तक		
		12		201 से 217 तक		
		13		218 से 222क व 16 से 23 व 222 से 229 तक		
		14	हरिपुरा	230 से 250 तक		
		15	भगवानपुरा	252 से 285ग तक		
रतनपुरा		1	रतनपुरा	1 से 30 तक	अ. जा.	2
		2		31 से 70 तक	अ. ज. जा.	1
		3		71 से 184 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	सूठलीखेड़ा	96 से 117क तक	महिला अ. जा.	1
		5		117ख से 130 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6		131 से 147 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7		148 से 174 तक	महिला सामान्य	5
		8	करम्दीखेड़ा	26क से 199 तक		
		9		200 से 291 तक		
		10	धनकपुरा	172 से 191 तक		
		11		193क से 213 तक		
		12		214 से 231 तक		
		13	नयागांव	232 से 249 तक		
		14		250 से 271ख तक		
		15		272 से 291 तक		
		16		291क से 307 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	बोरदा	1	बोरदा	1 से 12ख तक	अ. जा.	4
		2		13 से 32 तक	अ. ज. जा.	-
		3		33 से 58 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		61 से 93 तक	महिला अ. जा.	2
		5		95 से 124 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6		125 से 145 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7		148 से 182 तक	महिला सामान्य	5
		8		183 से 214 तक		
		9		216 से 242 तक		
		10		243 से 269 क तक		
		11		252/2 से 309 तक		
		12		310 से 333 तक		
		13		334 से 369 तक		
		14		371 से 391 तक		
		15		392 से 429 तक		
		16		435 से 451 तक		
		17		452 से 472 तक		
		18		472क से 292 तक		
		19		493 से 526 तक		
		20		526ख से 554 तक		
	धुआंखेड़ी	1	धुआंखेड़ी	1 से 15 तक	अ. जा.	5
		2		17 से 32 तक	अ. ज. जा.	-
		3		33 से 61 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		66 से 90 तक	महिला अ. जा.	3
		5		91 से 120 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6		121 से 146 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7		147 से 167 तक	महिला सामान्य	4
		8		168 से 187 तक		
		9		188 से 220 तक		
		10		221 से 263 तक		
		11		264 से 320 तक		
		12	ढाबा	0 से 13 तक		
		13		14 से 31 तक		
		14		33 से 46/2 तक		
		15		47 से 62/1 तक		
		16		63 से 80/1 तक		
		17		83 से 97/2 तक		
		18		98 से 120 तक		
		19		122 से 147/1 तक		
	भैंसोदा	1	भैंसोदा	1 से 136 तक	अ. जा.	3
		2		137 से 210 तक	अ. ज. जा.	1
		3		211 से 304 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4	306 से 375 तक व 305 से 4	महिला अ. जा.	2
		5	403 से 476 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6	470 से 556 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	557 से 635 तक	महिला सामान्य	5
		8	640 से 692 व 14क 728 तक		
		9	729 से 812 तक		
		10	813 से 890 तक		
		11	891 से 977 तक		
		12	977/1 से 1061 तक		
		13	भगवानपुरा 1 से 1063 तक व 1 से 129		
		14	मालीपुरा 130 से 274 तक		
		15	275 से 311 तक		
		16	भैसोदामण्डी 1 से 249 तक		
		17	251 से 277 तक व		
			278 से 361 क तक		
		18	361 से 443क तक व		
			444 से 459 तक		
		19	433 से 587 तक		
		20	रगसपुरिया 88 से 316 तक		
गोविंदखेड़ा		1	गोविंदखेड़ा 1 से 30 तक	अ. जा.	-
		2	31 से 53 तक	अ. ज. जा.	-
		3	54 से 77 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	78 से 98 तक	महिला अ. जा.	-
		5	96 से 116 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6	117 से 139 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	140 से 166 तक	महिला सामान्य	3
		8	166/1 से 191 तक		
		9	192 से 221 तक		
		10	222 से 244 तक		
पांगा		1	पांगा 1 से 15 तक	अ. जा.	4
		2	16 से 39 तक	अ. ज. जा.	-
		3	40 से 63 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	64 से 90 तक	महिला अ. जा.	2
		5	पांगा का खेड़ा 116 से 130 तक	महिला अ. ज. जा.	-
		6	137 से 151 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	162 से 167 तक	महिला सामान्य	2
		8	मोग्या रूण्डी 31 से 93ग तक व		
			99 से 150 तक		
		9	पांगा चौकी 172 से 186 तक		
		10	187 से 201 तक		
		11	भोपाखेड़ी 203 से 228 तक		
		12	229 से 250 तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कैसोदा	1	कैसोदा	1 से 19 तक	अ. जा.	2
	2		20 से 50 तक	अ. ज. जा.	-
	3		51 से 72 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		73 से 93 तक	महिला अ. जा.	1
	5		94 से 121 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		122 से 144 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		145 से 173 तक	महिला सामान्य	3
	8		174 से 204 तक		
	9		205 से 232 तक		
	10		233 से 252 तक		
	11		253 से 280 तक		
चौकी	1	चौकी	1 से 13 तक	अ. जा.	3
	2		13क से 33 तक	अ. ज. जा.	1
	3		34 से 50 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	4		51 से 69 तक	महिला अ. जा.	2
	5	आंकी	02 से 17 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		18 से 33 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
	7		34 से 49 तक	महिला सामान्य	2
	8		50 से 69 तक		
	9	समेली	149 से 169 तक		
	10		170 से 192 तक		
	11		195 से 223 तक		
गांधीसागर	1	गांधीसागर नं. 8	370 से 698 तक	अ. जा.	2
	2		699 से 780 तक	अ. ज. जा.	1
	3		782 से 864 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
	4		865 से 941 तक	महिला अ. जा.	1
	5		942 से 1106 तक	महिला अ. ज. जा.	-
	6		368 से 505 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
	7		505क से 574 तक	महिला सामान्य	6
	8		576 से 664 तक		
	9		17 से 125 व 132 से 366ख		
	10		81 से 220 तक		
	11		120 से 274 तक		
	12		330 से 366 तक		
	13	गांधीसागर नं. 3	343 से 572 तक		
	14		425 से 607 तक		
	15		507 से 613 तक		
	16		525 से 739 तक		
	17		03 से 73 तक		
	18		74 से 124 तक		
	19		130 से 213 तक		
	20		214 से 340 तक		

शशांक मिश्र, कलेक्टर.